

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20— सितम्बर 26, 2014 (भाद्रपद 29, 1936)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2014 (BHADRA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 जुलाई 2014

सं. 17-1/2014 - पी.सी.आई./19558-727----भारतीय भेषजी परिषद् के 12 और 13 मई 2014 को सम्पन्न हुए 95 वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

भेषजी डिप्लोमा, डिग्री, फार्म.डी एवं फार्म.डी (पी.बी.)

प्रस्ताव संख्या 95/पी.सी.आई./1426

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा, डिग्री, फार्म.डी एवं फार्म.डी (पी.बी.) फार्मैसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मैसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
गुजरात डिप्लोमा 7/17-199/2012-पी.सी.आई. दयाराम पटेल फार्मेसी कॉलेज, सरदार बाग, बारदौली - 394 601. डिस्ट्रिक्ट सूरत	60	2015-2016	निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, द्वितीय तल, ए.सी.पी. सी. इमारत, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015.
तमिलनाडु डिप्लोमा 9/17-554/2011-पी.सी.आई. वेंकटश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चेन्नई मेन रोड, अनाईकरल - 612 502. थंजावूर डिस्ट्रिक्ट	60	2015-2016	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
तमिलनाडु डिप्लोमा 10/17-310/2006-पी.सी.आई. सी.एस.जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चिदम्बरम रोड, थेथामपैट-श्रीमुश्नम, कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट	60	2014-2015	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 11/17-13/2012-पी.सी.आई. जी.एस.वी.एम. मैडिकल कॉलेज, स्वरूप नगर, पी.ओ. कानुपर - 208 002.	60	2014-2015	सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय, 5, सर्वपल्ली मार्ग, एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226 001.
गुजरात डिग्री 14/32-914/2012-पी.सी.आई. आर.एच. पटेल एजुकेशन कैम्पस, क्रिस्टिपुरा, एट एण्ड पी.ओ. दहेमी, ताल्लुक बोरसद, डिस्ट्रिक्ट आनन्द	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 20/17-208/2010-पी.सी.आई. एस.पी. मण्डलस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वानी एल.टी.एम.वी. कैम्पस, वानी - 445 304, डिस्ट्रिक्ट यवातमल	60	2015-2016	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 23/32-972/2011-पी.सी.आई. बेल्लमकोण्डा इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड साईंसिज, बी.फार्मसी कॉलेज, विलेज : कमभालापाडू, मण्डल पोडीली - 523 240. डिस्ट्रिक्ट प्रकाशम	60	2008-2009 से 2014-2015तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा, हैदराबाद- 533 003.
हरियाणा डिग्री 24/32-1071/2013-पी.सी.आई. मानव इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी वी.पी.ओ. जेवरा बरवाला रोड़ हिसार	60	2007-2008 से 2014-2015तक	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक
मध्य प्रदेश डिग्री 27/32-286/2013-पी.सी.आई. जी.आर.वाई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी विद्या विहार, बोरावन, खारगाँव - 451 228.	100	2014-2015	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड़, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
पंजाब डिग्री 28/32-357/2013-पी.सी.आई. शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मसी, नांगल, डिस्ट्रिक्ट रोपड़	60 (2013-2014 शै०सत्र से 40 से 60 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015 सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी.रोड़, लाडोवाली रोड़ जालंधर - 144 001.
राजस्थान डिग्री 29/32-1077/2013- पी.सी.आई. सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड हायर एजुकेशन (फार्मसी डिविजन), ई-1, बी.-1, एम.आई.ए. (एक्सटेंशन), अलवर - 301 030.	60	2008-2009 से 2014-2015तक	निबन्धक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड़, जयपुर - 302 033.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 32/17-870/2012-पी.सी.आई. बालाजी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी लखनेपल्ली (वी), नरसमपैट (एम), वारंगल - 506 331.	60	2014-2015	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-584/2012-पी.सी.आई. बालाजी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लखनेपल्ली (वी), नरसमपैट (एम), वारंगल - 506 331. राजस्थान डिप्लोमा 33/17-980/2012-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, ज्योति विद्यापीठ वूमैनस यूनिवर्सिटी, जयपुर वेदांत ज्ञान वैल्ली विलेज-झारना, महाला-जोबनेर लिंक रोड, एन.एच.-8, जयपुर - 534 007. आन्ध्र प्रदेश डिग्री 34 और 713/32-763/2012(ए) - पी.सी.आई. गीतांजली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सर्वे नम्बर 31, चीरयाल (वी), कीसर (एम), आर.आर. डिस्ट्रिक्ट - 501 301. गुजरात डिग्री 35 और 660/32-724/2011-पी. सी.आई. आर.बी.पटेल महिला फार्मेसी कॉलेज कैलाशनगर, अटकोट - 360 040 ताल्लुक: जसदान, डिस्ट्रिक्ट राजकोट उड़ीसा डिग्री 37/32-933/2010-पी.सी.आई. हाईटैक मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल कैम्पस, एट-पंडारा, पी. ओ. रसूलगढ़, भुवनेश्वर उत्तर प्रदेश डिग्री 40/32-1052/2011-पी.सी.आई. दी सरस्वती हायर एजुकेशन एण्ड तकनीकी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वाराणसी, विलेज-गहानी, पी.ओ. अयेर वाराणसी	60 100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि) 60 60 60	2014-2015 केवल 2012-2013 दाखिल समूह के लिए (डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2013-2014 शैक्षणिक सत्र से बंद) 2014-2015 2009-2010 से 2014-2015 तक 2007-2008 से 2014-2015 तक	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009. परीक्षा नियंत्रक ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर वेदांत ज्ञान वैल्ली, विलेज-झारना, महाला-जोबनेर लिंक रोड, एन.एच.-8, जयपुर - 303 007. निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, द्वितीय तल, ए.सी.पी. सी. इमारत, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय राउरकेला - 769 014. निबन्धक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तराखण्ड डिग्री 41/32-730/2013-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एण्ड मैडिकल साइंसिज, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार - 249 404.	60	2015-2016	निबंधक, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार - 249 404.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 45/17-98/2011-पी.सी.आई. गीतादेवी खंडेलवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गॉडबोले प्लॉटस डाबकी रोड, अकोला - 444 002.	60	2014-2015	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 46/17-186/2011-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज एण्ड रिसर्च, बोरगाँव (मेघे), वर्धा - 442 001.	60	2014-2015	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन, तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-32/2005-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च, बोरगाँव (मेघे), वर्धा - 442 001.	60	2014-2015	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति महाराज प्रशासनिक परिसर रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 106.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 48/32-678/2013-पी.सी.आई. श्री सारदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अनंतराम (वी), भोंगीर (एम) - 508 116.	60	2007-2008 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
गुजरात डिग्री 50/32-431/2012-पी.सी.आई. रमनभाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (चारोत्तर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी), एट एण्ड पोस्ट : चंगा - 388 421, ताल्लुक पैटलाद डिस्ट्रिक्ट आनन्द	100	2015-2016	निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015 (2011-2012 तक)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 53/32-485/2012-पी.सी.आई. साफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बी. तंद्रापाडू, के एन एल-एन डी एल हाईवे, कुरनूल - 518 002.	45	2014-2015	निबन्धक चारोत्तर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, चारोत्तर परिसर एट एण्ड पोस्ट : चंगा-388421, ताल्लुक पैटलाद डिस्ट्रिक्ट आनन्द (13.9.2012 से और आगे)
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 54/32-548/2012-पी.सी.आई. नोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वेगावरम, जानगारेड्डीगुडेन मण्डल, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट - 534 447.	60	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
कर्नाटक डिग्री 55/32-489/2013-पी.सी.आई. माइलेज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, #71, सिलवेपुरा, चिक्काबनावरा पोस्ट, बंगलौर - 560 090.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
पंजाब डिप्लोमा 64/17-717/2012-पी.सी.आई. लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोगा-फिरोजपुर जी.टी. रोड नियर पी.एस. सदर, मोगा - 142 001.	60	2014-2015	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं०1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
डिग्री 32-702/2012-पी.सी.आई. लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोगा-फिरोजपुर जी.टी. रोड नियर पी.एस. सदर, मोगा - 142 001.	60	2014-2015	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर-कपूरथला हाईवे निकट विज्ञान शहर कपूरथला

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
मध्य प्रदेश डिग्री 65/32-820/2013-पी.सी.आई. श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, आई टी आई माधोताल, जबलपुर	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबंधक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
मध्य प्रदेश डिग्री 66/32-795/2013-पी.सी.आई. श्री राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फैक्ट्री ऑफ फार्मेसी, नियर - आई टी आई आई टी आई माधोताल, जबलपुर- 482 002.	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबंधक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
हिमाचल प्रदेश डिग्री 67/32-630/2013-पी.सी.आई. लोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वी.पी.ओ. कैथोग, तहसील देहरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा	60	2015-2016	निबंधक (अकैडमीक्स) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर - 177 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 68/32-367/2012-पी.सी.आई. के.आई.ई.टी. स्कूल ऑफ फार्मेसी, 13 किलोमीटर स्टोन, गाज़ियाबाद-मेरठ रोड, गाज़ियाबाद - 201 006.	60 100 इस शर्त पर की वर्ष 2010-2011 में हुए 38 अधिक दाखिलों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले तीन शैक्षणिक सत्रों में अनुमोदित दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	2011-2012 तक 2012-2013 से 2014-2015 तक	निबंधक, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, (पहले उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021 के नाम से जाना जाता था)
राजस्थान डिग्री 73/32-585/2013(ए)-पी.सी.आई. विद्यास्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी साईंस एण्ड मैनेजमेंट, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर	60	2014-2015	निबन्धक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर - 302 003.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम																																																								
हिमाचल प्रदेश डिप्लोमा 83/17-301/2013-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज, रोहरू डिस्ट्रिक्ट शिमला - 173 215.	40	2015-2016	सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, 287-सिविल लाईन, धर्मशाला, जिला कांगड़ा - 176 215.																																																								
पंजाब डिप्लोमा 84/17-12/2013-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला - 147 001.	60	2015-2016	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं०1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़																																																								
मध्य प्रदेश डिग्री 86/32-633/2013-पी.सी.आई. जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, वाकनाघाट, पी.ओ. दुमेहर बानी कांडाघाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन - 173 215.	60	2008-2009 से 2013-2014 तक	कुलसचिव जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, वाकनाघाट, पी.ओ. दुमेहर बानी कांडाघाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन - 173 215.																																																								
दिल्ली 93/17- 526/2009- पी. सी.आई. आदित्य इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 107/9 कृष्णगढ़, वसंत किराज, कुंज, नई दिल्ली- 110070	13 2008-2009 दाखिल समूह के लिए	- भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि केवल 2008-2009 और 2009-2010 शैक्षणिक सत्र के निम्नलिखित विद्यार्थियों के दाखिलों को अनुमोदित किया जाता है इसका उदाहरण न दिया जाए :- 2008-2009 सत्र	निबन्धक, तकनीकी शिक्षा समिति, दिल्ली सरकार, मुनि माया राम मार्ग, प्रेम बाड़ी पुल, नियर पीतम पुरा टी. वी. टावर, दिल्ली -110088.																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>नाम</th><th>पिता का नाम</th><th>विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>अजय कुमार</td><td>श्री राधे श्याम शर्मा</td><td>289850</td></tr> <tr><td>2</td><td>अरूण कुमार</td><td>श्री राजदीयो राय</td><td>289851</td></tr> <tr><td>3</td><td>चारू चन्द्र</td><td>श्री ईश्वरी दत्त</td><td>289852</td></tr> <tr><td>4</td><td>दीपक शर्मा</td><td>श्री सुदेश शर्मा</td><td>289853</td></tr> <tr><td>5</td><td>दिनेश रावत</td><td>श्री पृथ्वी पाल सिंह रावत</td><td>289854</td></tr> <tr><td>6</td><td>कुल्दीप सिंह लोधी</td><td>श्री जवाहर सिंह लोधी</td><td>289857</td></tr> <tr><td>7</td><td>मनोज रावत</td><td>श्री गोपाल सिंह रावत</td><td>289859</td></tr> <tr><td>8</td><td>मुकेश कुमार सैनी</td><td>श्री जय प्रकाश सैनी</td><td>289860</td></tr> <tr><td>9</td><td>प्रदीप सिंह बिष्ट</td><td>श्री दबबल सिंह</td><td>289861</td></tr> <tr><td>10</td><td>शेवी पराशर</td><td>श्री ब्रह्म दत्त पराशर</td><td>289863</td></tr> <tr><td>11</td><td>शशांक शर्मा</td><td>श्री श्याम शर्मा</td><td>289864</td></tr> <tr><td>12</td><td>सुमेर सिंह</td><td>श्री गणपत राम</td><td>289865</td></tr> <tr><td>13</td><td>पिताम्बर पाण्डे</td><td>श्री ब्रबा दत्त</td><td>289862</td></tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	1	अजय कुमार	श्री राधे श्याम शर्मा	289850	2	अरूण कुमार	श्री राजदीयो राय	289851	3	चारू चन्द्र	श्री ईश्वरी दत्त	289852	4	दीपक शर्मा	श्री सुदेश शर्मा	289853	5	दिनेश रावत	श्री पृथ्वी पाल सिंह रावत	289854	6	कुल्दीप सिंह लोधी	श्री जवाहर सिंह लोधी	289857	7	मनोज रावत	श्री गोपाल सिंह रावत	289859	8	मुकेश कुमार सैनी	श्री जय प्रकाश सैनी	289860	9	प्रदीप सिंह बिष्ट	श्री दबबल सिंह	289861	10	शेवी पराशर	श्री ब्रह्म दत्त पराशर	289863	11	शशांक शर्मा	श्री श्याम शर्मा	289864	12	सुमेर सिंह	श्री गणपत राम	289865	13	पिताम्बर पाण्डे	श्री ब्रबा दत्त	289862	
क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या																																																								
1	अजय कुमार	श्री राधे श्याम शर्मा	289850																																																								
2	अरूण कुमार	श्री राजदीयो राय	289851																																																								
3	चारू चन्द्र	श्री ईश्वरी दत्त	289852																																																								
4	दीपक शर्मा	श्री सुदेश शर्मा	289853																																																								
5	दिनेश रावत	श्री पृथ्वी पाल सिंह रावत	289854																																																								
6	कुल्दीप सिंह लोधी	श्री जवाहर सिंह लोधी	289857																																																								
7	मनोज रावत	श्री गोपाल सिंह रावत	289859																																																								
8	मुकेश कुमार सैनी	श्री जय प्रकाश सैनी	289860																																																								
9	प्रदीप सिंह बिष्ट	श्री दबबल सिंह	289861																																																								
10	शेवी पराशर	श्री ब्रह्म दत्त पराशर	289863																																																								
11	शशांक शर्मा	श्री श्याम शर्मा	289864																																																								
12	सुमेर सिंह	श्री गणपत राम	289865																																																								
13	पिताम्बर पाण्डे	श्री ब्रबा दत्त	289862																																																								

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
---	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

8

2009-2010 सत्र

2009-2010
दाखिल समूह
के लिए

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या
1	अरुण कुमार यादव	श्री नरेश कुमार यादव	299850
2	धीरेन्द्र सिंह	श्री सच्चिदानंद सिंह	299851
3	नवीन	श्री कृष्ण	299853
4	निशारा	श्री सिराजुद्दीन	299854
5	राहुल कुमार वर्मा	श्री सतीश कुमार वर्मा	299855
6	सचिन पाण्डे	श्री श्री रवि पाण्डे	299856
7	शाबुद्दीन	श्री निजामुद्दीन	299857
8	स्वर्णदीप सिंह	श्री बलवंत सिंह कौर	299858 *

* इस शर्त पर की तकनीकी शिक्षा समिति और संस्थान से
पिता के नाम का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

हरियाणा

डिग्री

97/32-335/2013-पी.सी.आई.
बी.एस. अनंगपुरिया इन्स्टीट्यूट
ऑफ फार्मेसी, आलमपुर,
बल्लभगढ़-सोहना रोड,
फरीदाबाद - 121 004.

मध्य प्रदेश

डिग्री

98/32-991/2011-पी.सी.आई.
नागाजी इन्स्टीट्यूट ऑफ
फार्मास्यूटिकल साइंस, बाबा
कैम्पस, झांसी रोड, ग्वालियर

आन्ध्र प्रदेश

डिप्लोमा

102/17-705/2011-पी.सी.आई.
के. चन्द्रकला एण्ड बीलम कोण्डा
वेंकटेश्वरलू, कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
बुरिपालेम रोड, नेलापाडू,
तेनाली - 522 201.

हरियाणा

डिग्री

103/17-233/2011-पी.सी.आई.
गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी
जी.टी. रोड बाईपास
करनाल - 132 001.

60

(2013-2014 शै०सत्र
से 60

से 100 दाखिलों में वृद्धि)

2015-2016 सत्र

तक पहले से ही
अनुमोदित

निबन्धक

पं० बी.डी. शर्मा
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
रोहतक - 121 001.

60

2006-2007 से
2013-2014 तक

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट
बाईपास रोड, गांधी नगर
भोपाल - 462 036.

60

2016-2017

सचिव

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
राज्य समिति, बी.आर.के.आर.
भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द
मार्ग, हैदराबाद - 500 063.

120

2016-2017

निदेशक

तकनीकी शिक्षा राज्य
समिति, हरियाणा,
एस.सी.ओ. नम्बर 38-39,
सैक्टर - 17-ए
चण्डीगढ़ - 160 017.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 104/32-800/2012-पी.सी.आई. श्री सिवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी चिलाकापालेम जंक्शन इचेरला (एम), श्रीकाकुलम - 516 360	60	2014-2015 इस शर्त पर की वर्ष 2010-2011 और 2012-2013 शैक्षणिक सत्रों में हुए 27 अधिक दाखिलों को 2014-2015 अनुमोदित 60 दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 105/32-809/2010-पी.सी.आई. गलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, शांग्री-ला, कोटापैठ सर्वे नम्बर 551, सिवम(एम), मैडाक डिस्ट्रिक्ट	60 100 इस शर्त पर की वर्ष 2012-2013 शैक्षणिक सत्रों में हुए 22 अधिक दाखिलों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले तीन शैक्षणिक सत्रों में अनुमोदित दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	2012-2013 तक 2013-2014 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 106/32-391/2013-पी.सी.आई. श्रीकृपा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वैलकट्टा विलेज मैडाक डिस्ट्रिक्ट - 502 277.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, आदिकमैट हैदराबाद - 500 007.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 107/32-1040/2013-पी.सी. आई. प्रताप नरेन्द्र रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच.नम्बर 1-117 और 1-118, पेड्डाशापुर (विलेज शामशाबाद मण्डल) रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट - 509 049.	60	2007-2008 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक			
डिग्री 108/32-561/2010-पी.सी.आई. ईस्ट पोआइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 147, बीदरहल्ली, विरगोनगर पोस्ट, बंगलौर – 560 049.	60	2014-2015	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर – 560 041.
हरियाणा			
डिग्री 110/17-701/2010-पी.सी.आई. भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वी.पी.ओ. पहलादपुर, बबेन, कुरुक्षेत्र	60	2015-2016	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर -17-ए चण्डीगढ़ – 160 017.
हरियाणा			
डिग्री 111/17-901/2010-पी.सी.आई. तिरुपति कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक एण्ड फार्मेसी, रातिया-सरदुलगढ़ रोड, नियर गवर्नमेंट के.टी. कॉलेज रातिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद-125051.	60	2016-2017	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर – 17-ए चण्डीगढ़ – 160 017.
हरियाणा			
डिग्री 112/17-579/2011-पी.सी.आई. श्री सनातन धर्म इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड मैडिकल टेक्नोलॉजी, नियर गौशाला, झज्जर – 124 103.	60	2016-2017	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर – 17-ए चण्डीगढ़ – 160 017.
उत्तर प्रदेश			
डिप्लोमा 113/17-930/2010-पी.सी.आई. जनकल्याण इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, ई-100, 101, यू.पी.एस.आई.डी.सी. एरिया, नियर उमर तिराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ	60	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ – 226 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 114/17-937/2010-पी.सी.आई. बिल्लाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैनेज्ड बाई फ़िजा एजुकेशन सोसायटी (रजिस्टर्ड) मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर-203 001	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 115/17-914/2009-पी.सी.आई. सनराईज अकैडमी मैनेजमेंट सोसायटी ऑपोजिट डील, रायपुर रोड, देहरादून - 248 001.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति, 137/3, सिविल लाइन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 776 हरिद्वार
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 116/32-970/2012-पी.सी.आई. एस.वी.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, भीमाराम (विलेज) हसनपार्थी (एम), वारंगल	60	केवल 2008-2009 और 2009-2010 के लिए	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 117/32-812/2012(ए) -पी.सी. आई. स्वामी रामानन्द तीर्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, नालगोण्डा, रामानन्द नगर, चेरला गोवराराम (वी), एस एल बी सी (पोस्ट), नालगोण्डा	60 100 इस शर्त पर की वर्ष 2010-2011 और 2011- 2012 शैक्षणिक सत्रों में हुए 41 अधिक दाखिलों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले तीन शैक्षणिक सत्रों में अनुमोदित दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	2011-2012 तक 2012-2013 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
हिमाचल प्रदेश डिग्री 118/32-339/2010-पी.सी.आई. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रोहरू, तहसील रोहरू, डिस्ट्रिक्ट शिमला - 171 207.	60	2014-2015	निबन्धक हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर शिमला - 171 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 119/32-437/2013-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सी.एस.जे.एम. यूनिवर्सिटी, कल्याणपुर, कानुपर	60	2014-2015	निबन्धक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानुपर - 208 024.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिग्री 120/32-403/2010-पी.सी.आई. प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 548, भौती कालपी रोड, कानपुर - 208 005.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
हरियाणा डिप्लोमा 121/17-81/2011-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गोहाना रोड, नियर पंचायत भवन, सोनीपत - 131 001.	60	2016-2017	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर-17-ए चण्डीगढ़ - 160 017.
डिग्री 32-184/2010-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गोहाना रोड, नियर पंचायत भवन, सोनीपत - 131 001.	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक - 121 001.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 122/32-1002/2012-पी.सी. आई. सेशाचला कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तिरुपति - चेन्नई हाईवे, पुत्तूर - 517 583 चित्तूर डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 123/32-691/2013-पी.सी.आई. वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, विलेज एण्ड पोस्ट: चार्लापल्ली, मण्डल एण्ड डिस्ट्रिक्ट नालगोण्डा - 508 001.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 124/32-628/2011-पी.सी.आई. विक्टोरिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अंकीरेड्डीपालेम (विलेज) चालीयावरीपालेम (पंचायत), गुन्टूर रूरल, गुन्टूर - 522 005.	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर - 522 510.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 125/32-538/2012-पी.सी.आई. अंवारूल उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 11-3-918, न्यू मालेपल्ली, हैदराबाद-500001.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 515 002.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 126/32-545/2013-पी.सी.आई. एस.आई.एम.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मंगलादास नगर, गुन्टूर - 522 001.	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर -522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 129/32-808/2011-पी.सी.आई. लीडीया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन एच - 5, इथाकोटा, रवूलापालेम	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेअर विशाखापत्तनम् - 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 131/32-537/2011-पी.सी.आई. सैन्ट एंस् कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कंटोन्मैन्ट, विजियानगरम्- 535003.	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम् - 530 003.
हरियाणा डिग्री 132/32-401/2013-पी.सी.आई. जन कल्याण चौ० देवी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 81, बरनाला रोड, सिरसा - 125 055.	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक - 121 001.
हरियाणा डिग्री 133/32-803/2013-पी.सी.आई. पी.डी.एम. स्कूल ऑफ फार्मेसी, विलेज कारसिंधु, सफिदों डिस्ट्रिक्ट जिन्द - 126 112.	60	2016-2017	निबन्धक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 136 119.
हरियाणा डिग्री 134/32-177/2009-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.	60	2016-2017	निबन्धक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
हरियाणा			
डिग्री 135/32-748/2013-पी.सी.आई. एडवांस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, 70 किलोमीटर, दिल्ली-मथुरा, विलेज औरंगाबाद, पलवल - 121 105.	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक - 124 001.
कर्नाटक			
डिग्री 136/17-93/2011-पी.सी.आई. के.आर.ई. सोसायटीज एम.एच. गोयल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पी.बी.नम्बर 53, मैहल्ली रोड, बीदर - 585 403.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
आन्ध्र प्रदेश			
डिग्री 137/32-242/2011-पी.सी.आई. श्री सुब्रहमन्या स्वामी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, #20, 20वां क्रॉस 60 फीट मेन रोड, मलागला, नाग्रभावी सेकण्ड स्टेज, विश्वानीदम (पोस्ट), बंगलौर - 560 091.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक			
डिप्लोमा 138/17-356/2010-पी.सी.आई. टीपू सुल्तान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मिलात नगर, रिंग रोड, पोस्ट बॉक्स नम्बर 99 गुलबर्गा - 585 104.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक			
डिप्लोमा 139/17-431/2012-पी.सी.आई. एस.बी.डी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, I क्रॉस, हनुमंथानगर - 560 019.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक डिप्लोमा 140/17-763/2006-पी.सी.आई. मयूर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिहाईन्ड सधाना बिल्डिंग आर.टी. नगर तुमकूर - 572 101.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक डिप्लोमा 141/17-440/2012-पी.सी.आई. ईस्ट वैस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 63 I स्टेज, बी.ई.एल. लेआउट भारतनगर, विश्वनीदम पोस्ट, ऑफ मगदी रोड, बंगलौर - 560 091.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक डिप्लोमा 142/17-454/2009-पी.सी.आई. एस.जी. एजुकेशन ट्रस्ट्स, जी.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वाडिया नगर टाउन शिप, नीलामंगला बाईपास, बंगलौर - 562 123.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक डिप्लोमा 143/17-457/2012-पी.सी.आई. साई सोसायटीज श्री सिद्धलिंगेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौबाद, बीदर - 585 402.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
तमिलनाडु डिप्लोमा 144/17-321/2012-पी.सी.आई. नेशनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एम.टी.एच. रोड, थिरुनिनरावूर - 602 024.	60	2016-2017	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पोक चेन्नई - 600 010.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिप्लोमा 145/17-566/2011-पी.सी.आई. श्री रामचन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सोमनाथर कोविल स्ट्रीट वेदरानियम - 614 810 डिस्ट्रिक्ट नागापट्टीनम	60	2016-2017	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पोक चेन्नई - 600 010.
तमिलनाडु डिप्लोमा 146/17-415/2012-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ अलाईड मैडिकल सांईसिज, 3, जगजीवनराम स्ट्रीट, शिनोय नगर, मदुरई - 625 020.	60	2016-2017	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पोक चेन्नई - 600 010.
तमिलनाडु डिप्लोमा 147/17-312/2011-पी.सी.आई. के.एम.आर. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 25, इरोड रोड, पैरुन्दुराई - 638 052 इरोड	60	2016-2017	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पोक चेन्नई - 600 010.
तमिलनाडु डिप्लोमा 148/17-316/2002-पी.सी.आई. अंटार्कटिका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हाई ग्राउण्ड रोड, पलायमकोटाई, तिरुवेनवैली - 627 002.	60	2016-2017	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पोक चेन्नई - 600 010.
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 149/17-114/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, शिमला बाईपास रोड, पिथोवाला, देहरादून - 248 001.	40	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, सामने शिव मन्दिर, रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 150/17-950/2012-पी.सी.आई. सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दोबाची डांडा-खुदानेवाला नियर आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248 001. डिग्री 32-939/2010-पी.सी.आई. सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दोबाची डांडा-खुदानेवाला नियर आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248 001.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667
हिमाचल प्रदेश डिग्री 151/32-1098/2013-पी.सी. आई. हिमाचल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (हिपर), वी.पी.ओ. बेला, तहसील नादौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर- 177 033.	60	2016-2017	निबन्धक उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय गवर्नमैन्ट गर्ल्स पॉलीटेक्निक, सुधो वाला वाया प्रेम नगर देहरादून - 248 001.
कर्नाटक डिग्री 152/32-302/05-पी.सी.आई. टी. जॉन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 88/1, गोतिगेरे, पी.ओ. बन्नेघाट्टा रोड, बंगलौर - 560 083.	100 (2012-2013 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2008-2009 से 2014-2015तक	निबन्धक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स शिमला - 177 005.
कर्नाटक डिग्री 153/32-665/2013-पी.सी. आई. श्री रघुवेन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 57, चिम्नी हिल्स, चिक्काबनावरा पोस्ट हेसारागट्टा मेन रोड बंगलौर - 560 090.	60	2014-2015	निबन्धक हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
			निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
			निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
पंजाब डिग्री 154/32-443/2014-पी.सी.आई. सी टी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, विलेज शाहपुर, पी.ओ. उद्धोपुर वाया जमशेर खास, डिस्ट्रिक्ट जालंधर - 144 020.	60	2016-2017	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी.रोड, लाडोवाली रोड़ जालंधर - 144 001
उत्तर प्रदेश डिग्री 155/32-125/2013-पी.सी.आई. डॉ० के.एन.मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, ऑपोजिट एस.बी.आई. मैन ब्रान्च, एच.एन. - 58, मोदी टैक्सटाईल मिल्स कम्पाउंड, मोदी नगर - 201 201 डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
हिमाचल प्रदेश डिप्लोमा 156/17-977/2012-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, मानव भारती यूनिवर्सिटी, विलेज लाङ्गो, विलेज पी.ओ. सुल्तान, कुमारहाडी डिस्ट्रिक्ट सोलन - 173 229.	60	2016-2017	कुलपति मानव भारती विश्वविद्यालय, गाँव लाङ्गो, गाँव व डाकघर सुल्तानपुर, कुमारहड़ी डिस्ट्रिक्ट सोलन - 173 229
हरियाणा डिप्लोमा 157/17-45/2002-पी.सी.आई. कल्पना चावला गवर्नमेंट पोलीटेक्निक फ़ॉर वूमैन, अम्बाला सिटी - 134 003.	45	2016-2017	सदस्य-सचिव राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, हरियाणा पंचकुला बेज नम्बर 7-12, सेक्टर-04 पंचकुला
उड़ीसा डिप्लोमा 159/17-384/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकलस साईंसिज, टमन्डो, भुवनेश्वर वाया-जालना, एट-पी ओ टमन्डो, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा - 752 054.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्चेस्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिप्लोमा 160/17-562/2014-पी.सी.आई. माँ मंगला कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, अंकुरा, करंजिया, डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज - 757 037.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
राजस्थान डिप्लोमा 162/17-770/2011-पी.सी.आई. महात्मा गाँधी स्कूल ऑफ फार्मेसी, नियर मोरड़ी टैक्सटाईल मिल, तातिया चौराहा, टिम्बा गम्बदी, पोस्ट-बदलिया बांसवाड़ा - 327 001.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, स्वाई रामसिंह रोड, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001.
तमिलनाडु डिप्लोमा 163/17-313/2002-पी.सी.आई. नादार महाजना संगम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मथार-थिरुवत्तर डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी-629 177.	120	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 164/32-1103/2013-पी.सी. आई. मदर टरेसा एजुकेशनल सोसायटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट	60	2010-2011 से 2013-2014 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा हैदराबाद - 533 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 165/32-1094/2012-पी.सी. आई. चेतन्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देवराजूगट्टू (वी), पेड्डारावीडू (एम डी), प्रकाशम (डिस्ट्रिक्ट)	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा - ईस्ट गोदावरी

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
हरियाणा डिग्री 166/32-1085/2013-पी.सी. आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (डीपर) बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलाँ, साउथ कैम्पस, भैसवाल कलाँ, सोनीपत	60	2016-2017	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलाँ, सोनीपत
हरियाणा डिग्री 167/32-1086/2012-पी.सी. आई. चौ० देवी लाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी भगवानगढ़, बुरईया रोड, जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक - 124 001.
हरियाणा डिग्री 168/32-296/2004-पी.सी.आई. राजेन्द्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड साईंसिज, 4 वां माईल्स स्टोन, हिसार रोड, बाजेकन, सिरसा कर्नाटक डिग्री 169/32-322/2010-पी.सी. आई. करावली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन.एच. - 13, वमनजूर, मंगलौर - 575 028.	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक - 124 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 171/32-232/2009-पी.सी. आई. "डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टैकनोलॉजी", मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैकनोलॉजी बाईपास, बागपत रोड क्रॉसिंग, मेरठ - 250 002.	100	2016-2017	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिग्री 172/32-276/2011-पी.सी. आई. आगरा पब्लिक फार्मसी कॉलेज, आर्टोनी, आगरा-282007 (यू.पी.) (पहले आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड कम्प्यूटर एजुकेशन, आर्टोनी आगरा, 10, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा - 282 007 के नाम से जाना जाता था)	60	2014-2015	निबंधक, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय (पहले उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय), सैक्टर - 62 नोएडा
उत्तर प्रदेश डिग्री 173/32-742/2013-पी.सी. आई. कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड फार्मसी, ए-1, यू.पी.एस.आई.डी.सी. इंडस्ट्रीयल एरिया, रुमा, कानपुर - 208 001.	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबंधक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (पहले उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021 के नाम से जाना जाता था).
उड़ीसा डिप्लोमा 174/17-196/2014-पी.सी.आई. सिद्धेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. अमारदा रोड, डिस्ट्रिक्ट बालासोर - 756 030.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्देश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
उड़ीसा डिप्लोमा 175/17-413/2006-पी.सी.आई. मयूरभंज मैडिकल अकैडमी, एट-इंदापाही, पी.ओ. लक्ष्मीपोसी बारीपदा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज-757 107.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्देश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
राजस्थान डिप्लोमा 176/17-643/2010-पी.सी.आई. जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी नारनाड़ी, झानवर रोड, जोधपुर (राजस्थान) (पहले जोधपुर फार्मेसी कॉलेज विलेज - नारनाड़ी, झानवर रोड, बोरानाडा जोधपुर के नाम से जाना जाता था)	60	2014-2015	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर- 17 प्रताप नगर टोंक मार्ग, जयपुर-302 003. (2007-2008 तक)
डिग्री 32-504/2012-पी.सी.आई. जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी नारनाड़ी, झानवर रोड, जोधपुर (राजस्थान) (पहले जोधपुर फार्मेसी कॉलेज विलेज - नारनाड़ी, झानवर रोड, बोरानाडा जोधपुर के नाम से जाना जाता था)	60	2014-2015	निबन्धक जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी नारनाड़ी, झानवर रोड, जोधपुर (2008 से) निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर- 17 प्रताप नगर टोंक मार्ग, जयपुर-302 001. (2007-2008 तक)
तमिलनाडु डिप्लोमा 177/17-421/2011-पी.सी.आई. मेयर राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 5/3, जज बंगला रोड, कुड्डलौर - 607 001.	60	2016-2017	निबन्धक जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी नारनाड़ी, झानवर रोड, जोधपुर (2008 से) निबन्धक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, राजस्थान पूनामल्ली हाई रोड, किल्पोक चेन्नई - 600 010.
तमिलनाडु डिप्लोमा 178/17-188/2010-पी.सी.आई. कोयम्बटूर मैडिकल फार्मेसी, कोयम्बटूर - 641 014.	60	2016-2017	निबन्धक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, राजस्थान पूनामल्ली हाई रोड, किल्पोक चेन्नई - 600 010.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 179/17-973/2013-पी.सी.आई. हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सांईसिज, नियर माइनर कैनल, सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग, फैजाबाद रोड, बाराबंकी	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांस मण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 180/17-956/2012-पी.सी.आई. दून पैरामैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल विलेज - गणेशपुर, पोस्ट-सुन्दरपुर डिस्ट्रिक्ट - सहारनपुर	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांस मण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 181/32-343/2013-पी.सी.आई. चालापाथी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, चालापाथी नगर, लैम, गुन्टूर - 522 034.	100	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर, गुन्टूर - 522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 182/32-547/2011-पी.सी.आई. भास्कर फार्मसी कॉलेज, येनकापल्ली, मोईनाबाद, आर.आर.(डिस्ट्रिक्ट) हैदराबाद	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 183/32-207/2013-पी.सी.आई. पी. रामी रेड्डी मैमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मसी, 1-35, प्रकृथी नगर, उत्तूर, कडापा - 516 003.	100 (2012-2013 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2016-2017 शैक्षणिक सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर - 515 002.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 184/32-765/2013-पी.सी.आई. चिलकुर बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आर.वी.एस. नगर, अजीज नगर (पोस्ट), मोईनाबाद रोड, नियर : ए पी पुलिस अकैडमी, हैदराबाद-500 075.	60	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 185/32-681/2012-पी.सी.आई. गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज एण्ड रिसर्च सेंटर, शादनगर, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट – 509 216.	60	2015-2016	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 186/32-607/2013-पी.सी.आई. श्री सिद्धार्थ फार्मेसी कॉलेज, अम्मावरोथाटा, नुजविद, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर गुन्टूर – 522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 187/32-792/2011-पी.सी.आई. सेन्ट एन्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौनीपल्ली (विलेज), वेटापलम (मण्डल), चेराला, प्रकाशम (डिस्ट्रिक्ट) – 523 187.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 533 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 188/32-671/2011-पी.सी.आई. गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सागर रोड, इब्राहिमपटनम, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट – 501 506.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिग्री 189/32-937/2014-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल टेक्नोलॉजी फार्मसी कॉलेज, साई बिहार, न्यू नाबाकालेबार रोड, गोपालपुर, पुरी - 752 002.	60	2015-2016	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैम्प एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर - 760 003.
कर्नाटक डिग्री 190/17-257/2011-पी.सी.आई. वी.ई.एस. कॉलेज ऑफ फार्मसी, सिद्धेश्वर नगर रानीबेनूर - 581 115.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
तमिलनाडु डिग्री 191/17-576/2011-पी.सी.आई. श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ फार्मसी, को - मंगलम विलेज, ताल्लुक विरुधाचलम डिस्ट्रिक्ट कुडलौर - 606 001.	60	2016-2017	निबन्धक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, राजस्थान पूनामल्ली हाई रोड, किल्पोक चेन्नई - 600 010.
उत्तर प्रदेश डिग्री 192/17-860/2010-पी.सी.आई. दून कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज एण्ड पोस्ट ऑफिस सुन्दरपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर-247662.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, चारबाग लखनऊ-226 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 193/17-974/2014-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड रिसर्च, महादेव कैम्पस, सोहरामाउ, ऑन लखनऊ-कानपुर हाईवे, उन्नाव - 209 859.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, चारबाग लखनऊ-226 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 194/32-523/2011-पी.सी. आई. साहस्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, पोस्ट वंगापहाद, मिडिल : हसनपार्थी, मुखगन रोड, नियर अय्याप्पा स्वामी टैम्पल, डिस्ट्रिक्ट वारंगल	60	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 195//32-532/2009-पी.सी. आई. निरमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इब्राहिमपट्टनम विजयवाड़ा, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट - 521 456 जुपूडी	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा - 533 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 196/32-604/2011-पी.सी. आई. सैन्ट पिटरस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मेन रोड, मैडिकोण्डा, वारंगल - 506 142.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 197/32-461/2013-पी.सी.आई. निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, देशमुखी (वी), पोचमपल्ली (एम), नियर रामोजी फिल्म सिटी, नालगोण्डा	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
उड़ीसा डिग्री 199/32-71/2011-पी.सी.आई. श्री जयदेव कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. नाहरकंटा-752 101 भुवनेश्वर	60	2016-2017	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैंप एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका भुवनेश्वर - 769 003.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिग्री 200/32-164/2012-पी.सी.आई. चेरांस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 521, सिखुवानी मेन रोड, तेलंगुपालायाम पीरीयू, कोयम्बटूर - 641 039	60	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश डिग्री 201/32-732/2014-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ बायो-मैडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी), मंगलायतन यूनिवर्सिटी, 33वां किलोमीटर माईल स्टोन, अलीगढ़-मथुरा हाईवे, पी.ओ. : बेसवन, अलीगढ़	60	2014-2015	निबंधक, मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डिड एन सी आर अलीगढ़ - मथुरा हाईवे बेसवन, अलीगढ़ - 202 145.
उत्तर प्रदेश डिग्री 202/32-854/2012-पी.सी. आई. अमेठी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ए-ब्लॉक, अमीति यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, सैक्टर - 125, नोएडा-201 303.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	उपनिबंधक, अमेठी विश्वविद्यालय, अमिति परिसर पोस्ट बॉक्स नम्बर 503, नोएडा गौतम बुद्ध नगर
उत्तराखण्ड डिग्री 203/32-484/2011-पी.सी.आई. जी.आर.डी. इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, 214, रायपुर रोड, देहरादून-248 009.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार लोअर, अधोईवाला पी.ओ. दलनवाला देहरादून
उत्तराखण्ड डिग्री 204/32-521/2010-पी.सी. आई. डी.आई.टी. - फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, मसूरी डाइवर्सन रोड, विलेज मक्कावाला, पी.ओ. भगवंतपुर, देहरादून	60	2016-2017	निबंधक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार, लोअर, अधोईवाला पी.ओ. दलनवाला देहरादून

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
हरियाणा डिप्लोमा 205/17-700/213-पी.सी.आई. स्वामी देवी दयाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, विलेज गोलापुर, तहसील बरवाला, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला	60	2014-2015	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर - 17-ए, चण्डीगढ़ - 160 017.
डिग्री 32-740/2011-पी.सी.आई. स्वामी देवी दयाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, विलेज गोलापुर, तहसील बरवाला, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला	60	2014-2015	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक -124 001.
कर्नाटक डिप्लोमा 206/17-109/2013-पी.सी.आई. पी.ई.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 50 फीट रोड, हनुमन्तनगर, बंगलौर - 560 050.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-68/2012-पी.सी.आई. पी.ई.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 50 फीट रोड, हनुमन्तनगर, बंगलौर - 560 050.	100	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
कर्नाटक डिप्लोमा 207/17-571/02-पी.सी.आई. रानी चेन्नमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, प्लॉट नम्बर 7/सी, बी.के. कंग्राली इंडस्ट्रीयल एरिया, बौक्साइट रोड, वैभव नगर, बैलगाम - 590 010.	60	2014-2015	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-452/2010-पी.सी.आई. रानी चेन्नमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, प्लॉट नम्बर 7/सी, बी.के. कंग्राली इंडस्ट्रीयल एरिया, बौक्साइट रोड, वैभव नगर, बैलगाम - 590 010.	60	2014-2015	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
पंजाब डिप्लोमा 208/17-748/2013-पी.सी.आई. एस. सुखजिन्दर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वी.पी.ओ. हयात नगर, हरदोछानी रोड, गुरदासपुर	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 209/17-651/2013-पी.सी. आई. ज्ञानी इन्द्र सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, मसूरी डाईवर्जन रोड, ऑपोजिट मालसी दीर पार्क, डाकघर सिनोला, देहरादून - 248 003.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, सामने शिव मन्दिर, रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
डिग्री 32-784/2013-पी.सी.आई. ज्ञानी इन्द्र सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, मसूरी डाईवर्जन रोड, ऑपोजिट मालसी दीर पार्क, डाकघर सिनोला, देहरादून - 248 003.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय), ए-12, सरस्वती विहार लोअर, अधोईवाला, डाकघर दलनवाला देहरादून
पश्चिम बंगाल डिप्लोमा 210/17-549/2010-पी.सी.आई. कूच बिहार पॉलीटेक्निक, गवर्नमेंट ऑफ वैस्ट बंगाल, कूच बिहार - 736 101.	40	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा पश्चिम बंगाल राज्य परिषद्, "कोलकाता कारीगोरी भवन" द्वितीय तल, 110 एस.एन. बनर्जी रोड कोलकाता-700013.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 211/32-202/2011-पी.सी.आई. सरोजिनी नायडू वनीता फार्मैसी, विश्वविद्यालय, कॉलेज फॉर वुमैन, मुकारामजाही रोड, एग्जिबिशन ग्राउण्डस, हैदराबाद - 500 001.	100	2016-2017	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 212/32-455/2013--पी.सी. आई. केअर कॉलेज ऑफ फार्मैसी, ओगलापुर (विलेज), आत्माकुर (मण्डल), डिस्ट्रिक्ट वारंगल - 506 006	100	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी हनमकोण्डा वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 213/32-641/2013-पी.सी.आई. ककातिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, कीट्स रोड, पैम्बारथी (वी), हसनपाथी (एम), वारंगल डिस्ट्रिक्ट - 506 371	60	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, हनमकोण्डा वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 214/32-718/2011-पी.सी.आई. एम.एल.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, डून्डिगल (विलेज), कथूबुल्लापुर (मण्डल) आर.आर. डिस्ट्रिक्ट - 500 043.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 215/32-256/2012-पी.सी.आई. भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी, मंगलपल्ली विलेज, इब्राहिमपट्टनम (मण्डल), डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी - 501 510.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015 शैक्षणिक सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली - 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 216/32-828/2011-पी.सी.आई. ज्योतिषमठी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पी.ओ. : तुरकापल्ली, शामीरपैठ (मण्डल), डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 217/32-799/2013-पी.सी.आई. मेडारमेतला अंजम्मा मस्तान राव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, केसनापल्ली, नरसारावपेट (मण्डल), गुन्टूर	100	2014-2015	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर –522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 218/32-495/2013-पी.सी.आई. ब्राउन्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्मापालेम (वी), नियर थानिकेल्ला, कोनीजेरला (एम), खामाम – 507 305	100	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल – 506 009.
हरियाणा डिग्री 219/32-964/2012-पी.सी.आई. सावित्री देवी मैमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पुंडरी रोड़ राजौंड, कैथल – 136 044	60	2016-2017	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक –124 001.
कर्नाटक डिग्री 220/32-118/2009-पी.सी.आई. दयानंद सागर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कुमारास्वामी लेआउट, बंगलौर	60	2016-2017	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर – 560 041.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक डिग्री 221/32-306/2011-पी.सी.आई. श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ब्लालचिल, फरंगीपेटे पोस्ट, मंगलौर - 574 143.	100	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
महाराष्ट्र डिग्री 222/32-901/2012-PCI श्री धनेश्वरी मानव विकास मण्डलस डॉ० वेदप्रकाश पाटिल फार्मेसी कॉलेज, जिओरी टांडा, पैठान रोड औरंगाबाद	60	2006-2007 से 2014-2015 तक	निबन्धक डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद - 431 004.
तमिलनाडु डिग्री 223/32-430/2010-पी.सी.आई. पी.जी.पी. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंस एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करूर मेन रोड, नामाक्कल - 637 207.	60	2015-2016	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 224/17-117/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, एम.जी.एम. सर्कल, के.एम.सी. (पोस्ट), वारंगल - 506 007.	60	2014-2015	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 225/17-29/2010-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, मसाब टैंक, हैदराबाद - 500 028.	60	2014-2015	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिप्लोमा 227/17-482/2012-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक प्लॉट नम्बर 1, चन्द्रशेखरपुर नियर जैवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर - 751 023.	60	2016-2017	परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण राज्य परिषद् ईकाई-VIII, समीप राज भवन भुवनेश्वर - 751 012.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 228/17-813/2011-पी.सी.आई. संजीवनी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसी किरातनपुर, पोस्ट टेंडवा बंसतपुर, डिस्ट्रिक्ट बाहरेच - 271 801.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांस मण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 229/17-822/2014-पी.सी.आई. कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मसी, नूरपुर रोड, बिजनौर	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांस मण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 230/32-714/2014-पी.सी.आई. जोगिनपल्ली बी.आर. फार्मसी कॉलेज, अम्डापुर "एक्स" रोड, येनकापल्ली, माईनाबाद मण्डल, पी.ओ. हिमायतनगर, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट	100 (2014-2015 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 231/32-24/2013-पी.सी.आई. सैन्ट पीटरस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, 2-4-1211/1, विद्यानगर हनमकोण्डा, वारंगल - 506 001.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2015-2016 शैक्षणिक सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 232/32-204/2013-पी.सी.आई. श्री विष्णु कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विष्णुपुर, भीमावरम - 534 202, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट	100	2016-2017	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्तेयर विशाखापट्टनम - 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 233/32-408/2007-पी.सी.आई. एम.एन.आर. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फसलवादी (वी), संगारेड्डी (एम) डिस्ट्रिक्ट मेडाक-502 294.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय आदिकमेट हैदराबाद - 500 007.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 234/32-171/2013-पी.सी.आई. बापातला कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुन्दूर डिस्ट्रिक्ट बापातला-522101.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2015-2016 शैक्षणिक सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
पंजाब डिप्लोमा 235/32-806/96-पी.सी.आई. गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ बी.फार्मेसी, डालेवाल भुंगा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर	60	2016-2017	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, पोस्ट बैग नम्बर 1, जालंधर - कपूरथला हाईवे नियर साईंस सिटी जालंधर
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 239/17-283/2010-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, हिन्दूपुर निज़ामाबाद - 503 002.	50	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर. के. आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद-500063.
छत्तीसगढ़ डिप्लोमा 240/17-785/2012-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी) सरगुजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा - 497 001, छत्तीसगढ़	60	2013-2014	निबन्धक गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, सरगुजा कैम्पस, जेल रोड, बाबू पारा, अम्बिकापुर - 497 001. (2009-2010 तक)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
(पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्म. सांईसिज गुरु घासी दास यूनिवर्सिटी, सरगुजा कैम्पस, जेल रोड, बाबू पारा, अम्बिकापुर - 497 001 छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था)			निबन्धक सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (2010-2011 से और आगे)
उड़ीसा डिप्लोमा 241/17-6/2014-पी.सी.आई. फार्मैसी विंग, एस.सी.बी. मैडिकल कॉलेज, कटक - 753 007.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर-751 017.
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 242/17-254/2010-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक, नरेन्द्र नगर - 249 175 (टेहरी-गढ़वाल)	40	2015-2016	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति, 137/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
पश्चिम बंगाल डिप्लोमा 243/17-543/98-पी.सी.आई. कोन्ताई पॉलीटेक्निक पी.ओ. दरुआ, पी.ओ. कोन्ताई, डिस्ट्रिक्ट पूरब मैदिनीपुर	60	2016-2017	सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् “कोलकाता कारिगोरी भवन” द्वितीय तल, 110, एस.एन. बनर्जी रोड, कोलकाता - 700 013.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 244/ 32-370/2012-पी.सी. आई. माला रेड्डी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, मैसाम्मागुडा, धूलापल्ली, पोस्ट वाया हकीमपैट, सिकन्दराबाद-500014.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 245/32-427/2013-पी.सी.आई. ए.एस.एन. फार्मैसी कॉलेज, बुरीपालेम रोड, तेनाली गुन्दूर डिस्ट्रिक्ट - 522 201.	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय नागार्जुना नगर गुन्दूर - 522 510.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 246/32-675/2013-पी.सी.आई. सर सी.आर. रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, सांथी नगर, इलुरु - 534 007 वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्तेअर विशाखापट्टनम - 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 247/32-918/2013-पी.सी.आई. नल्ला नरसिम्हा रेड्डी एजुकेशन सोसायटीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चौदरीगुन्डा, कोरीमुला (विलेज), घाटकेसर (एम), आर.आर. डिस्ट्रिक्ट - 500 088.	60	2009-2010 से 2015-2016 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
महाराष्ट्र डिग्री 249/32-569/2011-पी.सी.आई. पी.एस.पी.एस. इन्दिरा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ए/पी सदावली (देवरुख) ताल्लुक संगमेश्वर डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरि - 415 804.	60	2008-2009 से 2014-2015 तक	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, फोर्ट सांताक्रूज, (पू.), मुम्बई - 400 032.
उत्तर प्रदेश डिग्री 250/32-925/2013-पी.सी.आई. गोयल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एण्ड साइंसिज, विलेज - अनोरा, पोस्ट-परगना नियर इन्दिरा कैनल फैजाबाद रोड, लखनऊ	60	2014-2015 तक	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 255/17-932/2010-पी.सी.आई. के.एल.आर. फार्मेसी कॉलेज, बिहार्ड कॉन्ट्रेक्टरस कॉलोनी, पलोंचा - 507 115. (खमाम डिस्ट्रिक्ट)	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-463/2013-पी.सी.आई. के.एल.आर. फार्मैसी कॉलेज, बिहाईन्ड कॉन्ट्रेक्टरस कॉलोनी, पलौचा - 507 115. (खमाम डिस्ट्रिक्ट)	100	2016-2017	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
राजस्थान डिप्लोमा 257/17-886/2011-पी.सी.आई. जय नारायण व्यास स्कूल ऑफ फार्मैसी, एन एच - 15, जल्लीपा रोड, बाड़मेर - 344 001.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर-302003.
तमिलनाडु डिप्लोमा 258/17-470/2011-पी.सी.आई. कमलाक्शी पाण्डूरंगन कॉलेज ऑफ फार्मैसी, अय्यामपालयाम, तिरुवन्नामलाई - 606 603.	60	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-139/2011-पी.सी.आई. कमलाक्शी पाण्डूरंगन कॉलेज ऑफ फार्मैसी, अय्यामपालयाम, तिरुवन्नामलाई - 606 603.	60	2016-2017	निबन्धक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी. बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 259/32-823/2013-पी.सी.आई. भास्कर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, कोमातीपल्ली (वी), बोब्बिली (मण्डलम), विज़ियानग्रम डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम - 500 017.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 260/32-432/2013-पी.सी.आई. विकास कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, रवानीगुडेम(वी)-508 376, सूरयापैट-नालगोण्डा डिस्ट्रिक्ट	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय आदिकमेट हैदराबाद - 500 007.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 261/32-880/2012-पी.सी.आई. पाथफाईन्डर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एण्ड रिसर्च, ऑपोजिट वारंगल एयरपोर्ट, बिसाईड मामनूर कैम्प, खम्माम रोड, वारंगल - 506 166.	60	2015-2016	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 262/32-518/2012-पी.सी.आई. सारदा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, कोण्डाकावुरू, नरसारावपैट - 522 602, डिस्ट्रिक्ट गुन्टूर	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर - 522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 263/32-470/2012-पी.सी.आई. सैन्ट जोस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, येल्लापुर (विलेज), हसनपार्थी (एम), वारंगल - 506 371.	60	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 264/32-466/2011-पी.सी.आई. प्रियदर्शिनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, चौदरीगुडा (वी), घाटकसेर (एम), डिस्ट्रिक्ट आर.आर. - 501 301.	60	2016-2017	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 265/32-539/2010-पी.सी.आई. प्रियदर्शिनी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 5 वां मील, पुल्लादीगुन्टा, कोरनेपाडू (विलेज) वैट्टीचेरुकुरु (मण्डल) गुन्टूर - 522 017.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015 शैक्षणिक सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर - 522 512.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक डिग्री 266/32-94/2013-पी.सी.आई. ऑक्सब्रिज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 7 और 9, महादेश्वरा नगर एक्सटेंशन विश्वनीदम पोस्ट, मगदी रोड, बंगलौर - 91.	60	2014-2015	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 270/17-741/2011-पी.सी.आई. राव'ज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चेमुडुगुन्टा (पी.ओ), वेंकटचलम ;एमन्ड, नेलोर (डिस्ट्रिक्ट) - 524 320.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
डिग्री 32-510/2013-पी.सी.आई. राव'ज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चेमुडुगुन्टा (पी.ओ), वेंकटचलम (एम), नेलोर (डिस्ट्रिक्ट)-524320.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 271/17-984/2013-पी.सी.आई. श्रीनिवासा फार्मास्यूटिकल इन्स्टीट्यूट एण्ड सैन्टर फॉर रिसर्च, बुरगुपल्ली, विकाराबाद - 501 101 रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
डिग्री 32-684/2013-पी.सी.आई. श्रीनिवासा फार्मास्यूटिकल इन्स्टीट्यूट एण्ड सैन्टर फॉर रिसर्च, बुरगुपल्ली, विकाराबाद - 501 101 रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिप्लोमा 272/17-331/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, एट - बिदयानिकेतन, मारीव ड्राइव रोड, पी.ओ. बालीगौली, डिस्ट्रिक्ट पुरी - 757 002.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्देश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
डिग्री 32-682/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, एट - विद्यानिकेतन, मारीव ड्राइव रोड, पी.ओ. बालीगौली, डिस्ट्रिक्ट पुरी - 757 002.	60	2016-2017	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, यू.जी.आई.ई. कॉम्प्लैक्स, जेल रोड, राउरकेला - 769 004.
तमिलनाडु डिप्लोमा 273/17-501/2012-पी.सी.आई. पद्मावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पेरियानाहल्ली एण्ड पोस्ट, पलाकोड ताल्लुक, धर्मापुरी - 635 205.	60	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-137/2010-पी.सी.आई. पद्मावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पेरियानाहल्ली एण्ड पोस्ट, पलाकोड ताल्लुक, धर्मापुरी - 635 205.	60	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40),पी. बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
तमिलनाडु डिप्लोमा 274/17-319/2012-पी.सी.आई. एस.ए. राजा फार्मेसी कॉलेज, एस.ए. राजा नगर, वड़ाकांगुलम - 627 116, डिस्ट्रिक्ट तेरूनवैली	60	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-157/2009-पी.सी.आई. एस.ए. राजा फार्मसी कॉलेज, एस.ए. राजा नगर, वड़ाकांगुलम - 627 116, डिस्ट्रिक्ट तेरूनवैली	50	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी. बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
राजस्थान डिप्लोमा 275/17-900/2013-पी.सी.आई. कृष्णादेवी महेश्वरी फार्मसी कॉलेज, बागर झुनझुनू रोड, बागर डिस्ट्रिक्ट झुनझुनू - 333 023	60	2016-2017	निबन्धक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर - 302 033.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 276/32-209/2013-पी.सी.आई. तल्ला पद्मावती कॉलेज ऑफ फार्मसी, ओरस - करीमाबाद, वारंगल - 506 012.	100	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 277/32-674/2011-पी.सी.आई. तीगला राम रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मसी, # 4-202, मीरपैट, सरूरनगर (एम), हैदराबाद - 500 097.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 278/32-935/2013-पी.सी.आई. सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च नियर पोस्ट सिटी, काकुपल्ली विलेज नैलोर रूरल मण्डल नैलोर डिस्ट्रिक्ट - 524 346.	60	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 279/32-1003/2013(ए)-पी.सी. आई. अनुराग फार्मैसी कॉलेज अनंथागिरी (विलेज),कोडाड (एम), नालगोण्डा (डिस्ट्रिक्ट)-508 206.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 280/32-688/2012-पी.सी.आई. के.जी.आर.एल. कॉलेज ऑफ फार्मैसी, दिरुसुमारु रोड, भीमावरम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट-534 201.	100 (2012-2013 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्तेअर विशाखापत्तनम् - 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 281/32-562/2013-पी.सी.आई. रघु कॉलेज ऑफ फार्मैसी, दखमानी, भीमुनीपट्टनम (एम), विशाखापत्तनम् - 531 162.	100 (2012-2013 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम् - 530 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 282/32-1005/2013-पी.सी. आई. एम.आर.आर. कॉलेज ऑफ फार्मैसी, नियर डी एस पी ऑफिस, मधीरा रोड नंदीगामा, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट - 521 185.	60	2008-2009 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
हरियाणा डिप्लोमा 284/17-76/2013-पी.सी.आई. जनता कॉलेज ऑफ फार्मैसी, वी.पी.ओ. बुटाना तहसील गोहाना बुटाना - 131 302, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत	60	2016-2017	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति,हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर - 17-ए चण्डीगढ़ - 160 017

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिप्लोमा 285/17-710/2005-पी.सी.आई. गजपति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, केअर ऑफ टी.पी. एजुकेशनल ट्रस्ट, मेन रोड, एट-रानीपेनथा पारालाखीमुंडी - 761 200 डिस्ट्रिक्ट गजपति	40	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
पंजाब डिप्लोमा 286/17-825/2012-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी-आदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज एण्ड रिसर्च, बुचों खुर्द, बरनाला रोड, बठिंडा - 151 109.	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर-36-ए, चण्डीगढ़ 2011-2012 तक निबन्धक आदेश विश्वविद्यालय, एन एच-7 बरनाला रोड़ (बठिंडा) 2012-2013 से
पंजाब डिप्लोमा 287/17-772/2013-पी.सी.आई. गुरु गोबिन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायकोट (लुधियाना), ऑपोजिट रिलायंस पेट्रोल पम्प, बरनाला रोड, गोंडवाल, रायकोट, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर-36-ए, चण्डीगढ़
राजस्थान डिप्लोमा 289/17-201/2011-पी.सी.आई. भूपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड स्टेशन रोड, उदयपुर - 313 001.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर-302 003.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-56/2005-पी.सी.आई. भूपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड स्टेशन रोड, उदयपुर - 313 001.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर-302 003.
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 291/17-952/2014-पी.सी.आई. श्रीमती तारावती इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमैडिकल एण्ड अलाईड सांईसिंज, रुड़की कैम्पस : 60 किलोमीटर माईल्स स्टोन रुड़की-देहरादून हाईवे, सालीयार, रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति, 137/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रुड़की - 247 776. हरिद्वार
डिग्री 32-849/2010-पी.सी.आई. श्रीमती तारावती इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमैडिकल एण्ड अलाईड सांईसिंज, रुड़की कैम्पस : 60 किलोमीटर माईल्स स्टोन रुड़की-देहरादून हाईवे, सालीयार, रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार	60	2016-2017	सचिव उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार लोअर अधोईवाला पी.ओ. दलनवाला देहरादून
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 292/32-500/2012-पी.सी.आई. सैन्ट मैरीज कॉलेज ऑफ बी. फार्मेसी, एट सुरमपालेम, ए एन बी रोड, पेड्डापुरम - 533 437.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 293/32-643/2013-पी.सी.आई. श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आर.वी.एस. नगर, तिरुपति रोड, चित्तूर - 517 127.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर - 515 002.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
राजस्थान डिग्री 294/32-857/2011-पी.सी.आई. श्रीनाथजी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, उन्डपाली ओडेन, नाथद्वारा, डिस्ट्रिक्ट राजसमांड - 313 301.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी - 1, सवाई रामसिंह रोड, ऑपोजिट एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर - 302 001.
राजस्थान डिग्री 295/32-423/2012-पी.सी.आई. संजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जयपुर रोड, दौसा - 363 303.	60	2014-2015	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी - 1, सवाई रामसिंह रोड, ऑपोजिट एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर - 302 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 296/32-840/2012-पी.सी.आई. आई.आई.एम.टी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के.पी.-III, प्लॉट नम्बर 20, ग्रेटर नोयडा	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 297/32-829/2012-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आगरा ग्वालियर रोड रोहता की नेहर, जखोड़ा, आगरा	60	2016-2017	निबन्धक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 298/32-214/2010-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, एम.जे.पी. रोहिलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली - 243 006.	60	2016-2017	निबन्धक, एम.जे.पी. रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, पीलीभीत बाई-पास रोड, बरेली - 243 006.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 299/32-253/2011-पी.सी.आई. मालिनेनी लक्ष्म्याह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कनुमल्ला पोस्ट सिंगरायाकोण्डा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट – 523 101.	60	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर – 522 510.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 300/17-275/2006-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक फॉर वूमैन, निज़ामाबाद – 503 001.	30	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति,बी. आर.के.आर. भवन,7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद-500063.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 301/17-934/2013-पी.सी.आई. हार्डवर्डस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के. पेरूमल्लापुरम, थोन्डांगी मण्डल, वाया चेब्रोतू, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति,बी. आर.के.आर. भवन,7 वां तल,टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद – 500 063.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 302/17-26/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक कंचारापालेम, इंडस्ट्रीयल इस्टेट पी.ओ. विसाखापट्टनम – 530 007.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति,बी. आर.के.आर. भवन,7 वां तल,टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद – 500 063.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 303/17-731/2013-पी.सी.आई. कमला जयाराव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बुरुगुपुडी, कोरुकोण्डा (एम), राजमुन्द्री – 533 292.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति,बी. आर.के.आर. भवन,7 वां तल,टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद – 500 063.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक डिप्लोमा 305/17-44/2012-पी.सी.आई. नेशनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बलराज उर्स रोड, शिमोगा - 577 201.	100	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-67/2011-पी.सी.आई. नेशनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बलराज उर्स रोड, शिमोगा - 577 201.	60	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-560 041.
कर्नाटक डिप्लोमा 307/17-271/2009-पी.सी.आई. एस.ई.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बैलारी (डिस्ट्रिक्ट) सिरुगुप्पा - 583 121.	60	2014-2015	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक डिप्लोमा 308/17-48/2011-पी.सी.आई. एच के ई एस मातोश्री तारादेवी रामपुरे, इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुलबर्गा - 585 105.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-82/2010-पी.सी.आई. एच के ई एस मातोश्री तारादेवी रामपुरे, इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुलबर्गा - 585 105.	60	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
पंजाब डिप्लोमा 309/17-396/2012-पी.सी.आई. आदेश पॉलीटेक्निक कॉलेज, फिरोजपुर रोड, मुक्तसर - 152 026.	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 311/32-208/2013-पी.सी.आई. सुल्तान-उल-उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, “माउण्ट प्लैजैन्ट” 8-2-249, रोड़ नम्बर 3, बंजरा हिल्स, हैदराबाद - 500 034.	60	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 312/32-222/2013-पी.सी.आई. विश्व भारती कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एन.आर.टी. रोड, पीरेचेरला, गुन्टूर - 522 009.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकीनाड़ा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट - 500 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 313/32-951/2013-पी.सी.आई. गोकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी पीरीडी (विलेज), बोब्बिली फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एन.आर.टी. रोड, पीरेचेरला, गुन्टूर - 522 009.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकीनाड़ा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 314/32-789/2013-पी.सी.आई. ज्योतिषमठी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, रामाकृष्ण कॉलोनी, करीमनगर - 505 481.	60 100 इस शर्त पर की वर्ष 2010-2011 और	2011-2012 तक 2012-2013 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
	2011-2012 में हुए 38 अधिक दाखिलों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले तीन शैक्षणिक सत्रों में अनुमोदित दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।		
हरियाणा डिग्री 315/32-389/2009-पी.सी.आई. पी.डी.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सराई औरंगाबाद, बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर - 124 507.	60	2014-2015	निबन्धक पं० बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक - 124 001.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 316/17-592/2012-पी.सी.आई. श्री सरोजिनी रमूलम्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेशाद्रीनगर, महबूबनगर - 509 001.	60	2015-2016	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
डिग्री 32-223/2009-पी.सी.आई. श्री सरोजिनी रमूलम्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेशाद्रीनगर, महबूबनगर - 509 001.	60	2015-2016	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
कर्नाटक डिप्लोमा 317/17-268/2012-पी.सी.आई. के.वी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एम.जी. रोड, डिस्ट्रिक्ट कोलार, चिकबालापुर - 562 101.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर-560 027.
डिग्री 32-141/2012-पी.सी.आई. के.वी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एम.जी. रोड, डिस्ट्रिक्ट कोलार, चिकबालापुर - 562 101.	60	2016-2017	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक डिप्लोमा 318/17-241/2012-पी.सी.आई. डॉ. एच.एल. थिम्मोगोडा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कैंगल-चन्नापट्टनम - 571 502.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-59/2009-पी.सी.आई. डॉ. एच.एल. थिम्मोगोडा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कैंगल-चन्नापट्टनम - 571 502.	60	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 319/17-871/2011-पी.सी.आई. मातोश्री एजुकेशन सोसायटीज एम.ए.बी.डी. डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पोस्ट - बहुलगाँव डिस्ट्रिक्ट नासिक	60	2015-2016 इस शर्त पर की वर्ष 2011-2012 में हुए 56 अधिक दाखिलों को 2014-2015 और 2015-2016 शैक्षणिक सत्रों में अनुमोदित 60 दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई-400051.
राजस्थान डिप्लोमा 320/17-641/2011-पी.सी.आई. भूपाल नोबल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, ओल्ड स्टेशन रोड नियर बी.एन. इंस्टीट्यूशंस, सेवा श्रम चौराहा, उदयपुर - 313 002.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, एस.एम.एस अस्पताल के सामने जयपुर - 302 001.
डिग्री 32-414/2011-पी.सी.आई. भूपाल नोबल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, ओल्ड स्टेशन रोड नियर बी.एन. इंस्टीट्यूशंस, सेवा श्रम चौराहा, उदयपुर - 313 002.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, एस.एम.एस अस्पताल के सामने जयपुर - 302 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिप्लोमा 321/17-469/2012-पी.सी.आई. नंदा कॉलेज ऑफ फार्मसी कुरापाल्याम, पीरियू, पीचिदम्पाल्याम पोस्ट, इरोड़ - 638 052.	60	2016-2017	निबन्धक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, राजस्थान पूनामल्ली हाई रोड, किल्पोक चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-114/2012-पी.सी.आई. नंदा कॉलेज ऑफ फार्मसी कुरापाल्याम, "पीरियू", पीचिदम्पाल्याम पोस्ट, इरोड़ - 638 052.	60	2016-2017	निबन्धक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 322/17-804/2011-पी.सी.आई. श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साईस एण्ड टैकनोलॉजी, विलेज माझोन, पी. ओ. पोउन्धा, वाया - प्रेमनगर, देहरादून	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 776 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
डिग्री 32-827/2013-पी.सी.आई. श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साईस एण्ड टैकनोलॉजी, विलेज माझोन, पी.ओ. पोउन्धा, वाया - प्रेमनगर, देहरादून छत्तीसगढ़ डिग्री 324/32-634/2011-पी.सी.आई. सिद्धि विनायक इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड साईसिज, नियर दीनदयाल आवास योजना, उल्लासपुर, पी.ओ. मंगला, बिलासपुर	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय), ए-12, सरस्वती विहार लोअर, अधोईवाला, डाकघर दलनवाला देहरादून
छत्तीसगढ़ डिग्री 324/32-634/2011-पी.सी.आई. सिद्धि विनायक इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड साईसिज, नियर दीनदयाल आवास योजना, उल्लासपुर, पी.ओ. मंगला, बिलासपुर	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8 भिलाई - 490 009.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिग्री 325/32-478/2013-पी.सी.आई. राजर्षि रानांज्य सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराजा भगवान बक्श सिंह नगर, अमेठी, सुल्तानपुर	60	2016-2017	निबन्धक उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 326/32-615/2013-पी.सी.आई. एच आई एम टी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 08, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नॉलेज पार्क-I, ग्रेटर नोयडा, गौतम बुद्ध नगर – 201 306.	60	2016-2017	निबन्धक उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 327/32-622/2011-पी.सी.आई. एम एल आर श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी राम मूर्ति पुरम, 13 किलोमीटर बरेली – 243 202	60	2016-2017	निबन्धक उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226 021.
कर्नाटक डिप्लोमा 333/17-240/2011-पी.सी.आई. के.एल.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विद्यानगर, हुबली – 580 031.	80	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर – 560 027.
डिग्री 32-87/2011-पी.सी.आई. के.एल.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विद्यानगर, हुबली – 580 031.	60	2016-2017	निबन्धक, के.एल.ई. विश्वविद्यालय जे.एन.एम.सी. कैम्पस, नेहरू नगर बंगलौर-590 010.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 334/32-963/2012-पी.सी.आई. नारायण फार्मैसी कॉलेज, चिन्थारेड्डीपालेम, नेलोर – 524 002	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 335/32-815/2013-पी.सी.आई. मूनरे इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, रायकल (विलेज), शादनगर (मण्डल), फारुखनगर (ताल्लुक), महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट-509 216	60	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
उत्तर प्रदेश डिग्री 336/32-728/2012-पी.सी.आई. एच.आर.इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, 7 वां किलोमीटर स्टोन, दिल्ली-मेरठ, मोरठा गाज़ियाबाद	100 (2014-2015 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2015-2016	निबन्धक महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, सी – 22, सैक्टर – 62, नोएडा गौतम बुद्ध नगर – 201 301.
उत्तर प्रदेश डिग्री 337/32-801/2010-पी.सी.आई. महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, पहाड़पुर, जूनाबगंज, पी.ओ. बंधा, लखनऊ – 227 101.	60	2008-2009 से 2014-2015 तक	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ – 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 338/32-525/2013-पी.सी.आई. हाईजिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गाजीपुर बलराम, फैजुल्लाहगंज, घायला रोड, लखनऊ – 226 020.	60	2014-2015	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ – 226 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिग्री 339/32-497/2013-पी.सी.आई. आजाद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रिसर्च, आजादपुरम, पोस्ट: चन्द्रावल, बंगला बाजार रोड, लखनऊ - 226 002.	60	2014-2015	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 340/32-586/2013-पी.सी.आई. रामेश्वरम इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, गोविन्दपुरम, नियर सेवा हॉस्पिटल सीतापुर रोड लखनऊ	60	2014-2015	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 341/32-266/2010-पी.सी.आई. शिवदान सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, 10 किलोमीटर स्टोन अलीगढ़-मथुरा रोड, अलीगढ़ - 202 001.	60	2014-2015	निबन्धक महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, सी - 22, सैक्टर - 62, नोएडा गौतम बुद्ध नगर- 201 309.
उत्तर प्रदेश डिग्री 342/32-315/2013-पी.सी.आई. सरोज इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, अहिमामाऊ, पी.ओ. अरुणगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	60	2014-2015	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 343,588 और 687 50-241/2014-पी.सी.आई. डैकन स्कूल ऑफ फार्मेसी, दर-उस-सलाम, अगाहपुरा हैदराबाद - 500 001.	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा, हैदराबाद - 533 003. (2011-2012 तक)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
			निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 007. 2012-2013 से
कर्नाटक डिप्लोमा 349/17-110/2011-पी.सी.आई. विवेकानन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर राजकुमार रोड, राजाजीनगर II स्टेज, बंगलौर – 560 055.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर – 560 027.
डिग्री 32-167/2011-पी.सी.आई. विवेकानन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर राजकुमार रोड, राजाजीनगर II स्टेज, बंगलौर – 560 055.	60	2016-2017	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर – 560 041.
राजस्थान डिप्लोमा 350/17-759/2009-पी.सी.आई. चारभुजा कैमिस्ट कॉलेज, ऑफ कैम्पस/कोस्टीट्यूट यूनिट ऑफ इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडिज इन एजुकेशन, डीमड यूनिवर्सिटी, (पी ओ) मेड़ता – 341 510.	60	2016-2017	निबन्धक इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडिज इन एजुकेशन, (मानित विश्वविद्यालय) गाँधी विद्या मन्दिर सरदारशहर – 331 401.
राजस्थान डिप्लोमा 351/17-279/2012-पी.सी.आई. लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उडीया मार्ग, तिलक नगर, जयपुर – 302 004	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, एस.एम.एस अस्पताल के सामने जयपुर – 302 001 (राजस्थान)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-425/2011-पी.सी.आई. लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उडीया मार्ग, तिलक नगर, जयपुर - 302 004	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, एस.एम.एस अस्पताल के सामने जयपुर-302 001 (राजस्थान)
मध्य प्रदेश डिग्री 354/32-516/2013-पी.सी.आई. टी आई टी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन फ्रन्ट ऑफ हथवाईखेड़ा डैम, पोस्ट पिपलानी, पी.बी. नम्बर 24, भेल, भोपाल - 462 021.	60 इस शर्त पर की वर्ष 2010-2011, 2011-2012 और 2012-2013 में हुए 115 अधिक दाखिलों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले तीन शैक्षणिक सत्रों में 60 अनुमोदित दाखिलों के अन्दर समायोजित किया जाएगा।	2014-2015	सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
कर्नाटक डिप्लोमा 370/17-18/2012-पी.सी.आई. मनीपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मनीपाल यूनिवर्सिटी, माधव नगर, मनीपाल-576 104.	120	2016-2017	निबन्धक मनीपाल यूनिवर्सिटी, (मानित विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय भवन माधव नगर, मनीपाल-576 104.
उड़ीसा डिप्लोमा 374/17-330/2014-पी.सी.आई. गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गायत्री विहार, जमादारापाली, सम्बलपुर - 768 001.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
डिग्री 32-255/2014-पी.सी.आई. गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गायत्री विहार, जमादारापाली, सम्बलपुर - 768 001.	60	2016-2017	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, यू.जी.आई.ई. कॉम्प्लेक्स, राउरकेला-769014.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उड़ीसा डिप्लोमा 376/17-575/2014-पी.सी.आई. जेपोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पी.ओ. रोन्डापल्ली, जेपोर - 764 002, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
डिग्री 32-264/2014-पी.सी.आई. जेपोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पी.ओ. रोन्डापल्ली, जेपोर - 764 002, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट	60	2016-2017	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, यू.जी.आई.ई. कॉम्प्लैक्स, राउरकेला - 769 014.
पंजाब डिप्लोमा 377/17-327/2012-पी.सी.आई. अकाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टैकनीकल एजुकेशन, मस्तुआना डिस्ट्रिक्ट संगरूर - 148 001.	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
डिग्री 32-272/2009-पी.सी.आई. अकाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टैकनीकल एजुकेशन, मस्तुआना डिस्ट्रिक्ट संगरूर - 148 001.	60	2016-2017	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी.रोड, लाडोवाली रोड़ जालंधर - 144 001.
राजस्थान डिप्लोमा 378/17-619/2003-पी.सी.आई. जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई एस आई - 15, रीको इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर - 302 003.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-405/2007-पी.सी.आई. जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई एस आई - 15, रीको इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर - 302 003.
राजस्थान डिप्लोमा 379/17-608/2008-पी.सी.आई. मारवाड फार्मेसी कॉलेज, नियर न्यू बस स्टैंड लाडरिया रोड, मौलासर, नागौर - 341 506.	60	2016-2017	निबन्धक इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडिज इन ऐजुकेशन (मानित विश्वविद्यालय) गाँधी विद्या मन्दिर सरदारशहर - 331 401.
राजस्थान डिप्लोमा 380/17-983/2012-पी.सी.आई. श्रीनाथजी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी उपाली ओडन नथवाड़ा - 313 301.	60	2012-2013 से 2014-2015 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर - 302 003.
राजस्थान डिप्लोमा 381/17-348/2012-पी.सी.आई. महर्षि अरविन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बा बारी सर्कल, भारती पथ अम्बा बारी, जयपुर - 302 012.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, सामने एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001.
डिग्री 32-330/2011-पी.सी.आई. महर्षि अरविन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बा बारी सर्कल, भारती पथ अम्बा बारी, जयपुर - 302 012.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, सामने एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिप्लोमा 382/17-317/2012-पी.सी.आई. संकरलिंगम भुवनेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी 3/77 सी, अन्नाईकुट्टम रोड, अन्नाईकुट्टम (वाया) सिवाकासी - 626 130. विरूथूनगर डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, राजस्थान पूनामल्ली हाई रोड, किल्पोक चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-116/2009-पी.सी.आई. संकरलिंगम भुवनेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी 3/77 सी, अन्नाईकुट्टम रोड, अन्नाईकुट्टम (वाया) सिवाकासी - 626 130. विरूथूनगर डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 383/17-17/96-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एम.एल.एन. मैडिकल कॉलेज लोथर रोड इलाहाबाद-211 126.	60	2016-2017	सचिव, चिकित्सा संकाय उत्तर प्रदेश राज्य, 5, सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226 001.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 384/17-936/2012-पी.सी.आई. श्री आर.एल.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड टैकनोलॉजी, एन.एच 2, एकदिल (इटावा) - 206 126.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
डिग्री 32-832/2010-पी.सी.आई. श्री आर.एल.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड टैकनोलॉजी, एन.एच 2, एकदिल (इटावा) - 206 126.	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 385/17-827/2011-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मसी एण्ड रिसर्च रसोरा, सीतापुर - 261 440.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
डिग्री 32-858/2011-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मसी एण्ड रिसर्च रसोरा, सीतापुर - 261 440.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 386/17-303/2011-पी.सी.आई. जनता पॉलिटैकनिक, जहाँगीराबाद, पी.ओ. भाईपुर, के.एस.सी. मिल, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर - 202 391.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001. (2002-2003 तक)
			सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति, 137/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 776. हरिद्वार (2003-2004 तक)
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 387/17-614/2013-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकलस, 58, मैतियारी देवा रोड, चिन्हाट, लखनऊ - 226 019.	60	2016-2017	सचिव, चिकित्सा संकाय उत्तर प्रदेश राज्य, 5, सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 388/17-9/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, नेशनल हाईवे नम्बर 6, जिल्हा पेठ, जलगाँव - 425 001.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
पंजाब डिप्लोमा 389/17-19/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, सैक्टर 14-डी चण्डीगढ़	40	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 391/17-299/2011-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जगदीशपुर जौनपुर - 220 002.	40	2015-2016	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 392/17-991/2013-पी.सी.आई. कुनाल कॉलेज ऑफ फार्मसी, एन एच-3, तेहरा ग्वालियर रोड, आगरा	60	2012-2013 से 2015-2016 तक	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
हरियाणा डिग्री 393/32-1056/2011-पी.सी. आई. इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, विद्याग्राम, झुण्डपुर, सोनीपत -131 023.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक पं० भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिग्री 396/32-399/2014-पी.सी.आई. अमृतवाहिनी शेटी एण्ड शिक्षण विकास संस्थाज अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट-संगमनेर (एस.के.) - 422 608, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
उड़ीसा डिग्री 398/32-36/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, एट पी.ओ. मोहुदा डिस्ट्रिक्ट गंजम बेरहमपुर - 760 002.	60	2014-2015	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला कैम्प सी.ई.टी. कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर- 760 003.
राजस्थान डिप्लोमा 399/32-590/2013-पी.सी.आई. स्वामी केशवानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, भोजा रायसर, एनएच-11, जयपुर रोड, बीकानेर - 334 001.	60	2014-2015	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - 302 004. (2005-2006 तक) निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह मार्ग, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर-302001. (2006 से)
राजस्थान डिग्री 400/32-856/2012-पी.सी.आई. स्वामी केशवानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, रामनगरिया, जगतपुरा जयपुर - 302 025.	60	2014-2015	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर 18, प्रताप नगर, टोंक मार्ग, जयपुर- 302 033.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिग्री 401/32-735/2014-पी.सी.आई. एस एस एम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एस.एफ. नम्बर 834/1 और 2, चैनियामपालायाम पुधुर, जमबाई विलेज, भवानी ताल्लुक, ईरोड़ (डिस्ट्रिक्ट डी.टी.)-638312	60	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
तमिलनाडु डिग्री 402/32-159/2001-पी.सी.आई. के.एम.सी.एच. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोवाई इस्टेट, कलापाथी रोड, कोयम्बटूर - 641 035.	60	2018-2019	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश डिग्री 403/32-872/2011-पी.सी.आई. संजय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मथुरा दिल्ली रोड, एन एफ-2, पी.ओ. चौमुहा, मथुरा - 281 406.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 404/32-1082/2014-पी.सी. आई. ब्रह्मानंद ग्रुप इंस्टीट्यूशंस 195, बुलंदशहर-खुर्जा जी.टी. रोड, बुलंदशहर - 203 001.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबंधक, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय सैक्टर-62, सी-62, जी.बी. नगर नोएडा
उत्तर प्रदेश डिग्री 405/32-1036/2014-पी.सी. आई. एल.टी.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी कुराली धर्मशाला बागपत रोड़ डिस्ट्रिक्ट मेरठ	60	2015-2016	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश डिग्री 406/32-1076/2013-पी.सी. आई. अलीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 3 किलोमीटर फ़्रोम सासनी गेट अलीगढ़-मथुरा रोड़ अलीगढ़ - 202 001.	60	2015-2016	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021. (2010-2011 तक) निबंधक, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय सैक्टर-62, सी-62, जी.बी. नगर नोएडा - 201 301. (2011-2012 तक)
उत्तर प्रदेश डिग्री 407/32-928/2014-पी.सी.आई. शेयरवुड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेयरवुड एजुकेशनल कैम्पस, लखनऊ-फैजाबाद रोड़ एट 18 किलोमीटर नियर सैफ़दाबाद क्रोसिंग, बाराबंकी - 225 001.	60	2015-2016	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 408/32-457/2011-पी.सी.आई. वागेशरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिसाईड एल.एम.डी. पुलिस स्टेशन, रामाकृष्णा कॉलोनी, करीमनगर - 505 481.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 409/32-1063/2011-पी.सी. आई. विजय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मानिकभण्डार निज़ामाबाद - 503 003.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 413/32-657/2013-पी.सी.आई. के.जे.आर. कॉलेज ऑफ फार्मसी, बुरुगुपुडी, कोरुकोण्डा मण्डल ईस्ट गोदावरी	60	2014-2015	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्तेअर विशाखापत्तनम् – 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 414/32-25/2013-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, ककातिया यूनिवर्सिटी वारंगल – 506 009.	60	2018-2019	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल – 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 416/32-496/2013-पी.सी.आई. ट्रिनीटी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज पेड्डापल्ली, डिस्ट्रिक्ट करीमनगर – 505 172.	60	2016-2017	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल – 506 009. (2009-2010 तक)
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 420/32-677/2012-पी.सी.आई. वासवी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वासवी नगर, पेड्डापल्ली (वी) नियर भाकरपैट, रेलवे स्टेशन, सिद्धआउट (एम), कोडापा डिस्ट्रिक्ट – 516 247.	60	2014-2015	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक सातवाहन विश्वविद्यालय ज्योति नगर करीमनगर– 506 001. निबन्धक परीक्षा नियंत्रक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 421/32-989/2013-पी.सी.आई. श्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नायाकुलाहुन्डैम (विलेज), सुजातानगर (जी पी), कोथागुडेम (एम डी), खमाम डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी हनमकोण्डा – 506 009.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 422/32-797/2012-पी.सी.आई. श्री चैतन्य इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एल एम डी कॉलोनी करीमनगर	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 424/32-654/2011-पी.सी.आई. एस.एस.जे. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वी.एन. पल्ली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद – 500 075.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 425/32-818/2013-पी.सी.आई. धनवंतरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एच.नम्बर 7-119, सुजातानगर विलेज : कोथागुडेम, डिस्ट्रिक्ट खमाम	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 072.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 426/32-988/2013-पी.सी.आई. विश्वनाथा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मिन्धवानीपालेम, विलेज सोन्तायम (एस ओ) आनंदपुरम मण्डल विसाखापट्टनम – 531 173.	60	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा – 533 103.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 428/32-458/2008-पी.सी.आई. कोरिंगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोरिंगी विलेज – 533 461 तल्लारेवू (मण्डल), ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम् – 530 063.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 429/32-536/2012-पी.सी.आई. विग्नान फार्मेसी कॉलेज, वडलामुडी, चेन्नो लू मण्डल, गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट – 522 213.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा – 533 003.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 430/17-815/2012-पी.सी.आई. जनकल्याण विकास मण्डलस स्वर्गीय लीलावती सतीश अवार्ड डी.फार्मेसी कॉलेज, होकर्ण टांडा, कुखेड, डिस्ट्रिक्ट नानडेड	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई – 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 431/17-293/2011-पी.सी.आई. श्री नेमीनाथ जैन ब्रह्माचार्याश्रमस श्री दीपचंद फकीर चंद लोधा फार्मेसी कॉलेज, नेमीनगर, पी.ओ. एण्ड ताल्लुक, चंदवाड डिस्ट्रिक्ट नासिक – 423 101.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई – 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 432/17-180/2011-पी.सी.आई. डॉ० जे०जे० मगदुम फार्मेसी कॉलेज, शिरोल – वादी रोड, जयसिंहपुर – 416 101. डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई-400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 433/17-247/2011-पी.सी.आई. साहयाद्री शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (पॉलीटेक्निक) स्वारदे, ताल्लुक चिप्लून-415 606, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 434/17-975/2013-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मेसी, शिवम टेक्निकल कैम्पस जंकशन रोड़ खुर्जा डिस्ट्रिक्ट - 203 131 बुलंदशहर	60	2012-2013 से 2014-2015 तक	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001. (2002-03 तक)
उड़ीसा डिप्लोमा 435/17-152/2011-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, सालीपुर एट/पी.ओ. सालीपुर - 754 202 डिस्ट्रिक्ट कटक	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 776 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार (2003-2004 से)
डिग्री 32-170/2014-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, सालीपुर एट/पी.ओ. सालीपुर - 754 202 डिस्ट्रिक्ट कटक	60	2016-2017	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैम्प एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर - 760 003.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
राजस्थान डिप्लोमा 436/17-555/2012-पी.सी.आई. संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, खेतड़ी विलेज, राजोटा, डिस्ट्रिक्ट झुनझुनू	60	2016-2017	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
डिग्री 32-193/2009-पी.सी.आई. संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, खेतड़ी विलेज, राजोटा, डिस्ट्रिक्ट झुनझुनू	60	2016-2017	सदस्य सचिव स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह रोड, सामने एस.एम.एस.अस्पताल जयपुर - 302 001.
तमिलनाडु डिप्लोमा 437/17-519/2012-पी.सी.आई. थानथाई रोवर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, “रोवर कैम्पस” पैरमबलूर - 621 212.	60	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-190/2011-पी.सी.आई. थानथाई रोवर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, “रोवर कैम्पस” पैरमबलूर - 621 212.	60	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
कर्नाटक डिग्री 438/32-83/2006-पी.सी.आई. ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फर्स्ट फेज, जे.पी.नगर, सी.ए. साईट नम्बर 40, बंगलौर - 560 078.	100 (2013-2014 शै०सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-560041.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
राजस्थान डिग्री 439/32-734/2012-पी.सी.आई. जी.डी. मैमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी सैक्टर-4, कुडी-भागरासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर- 342 005.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, श्रीजीत चौराहा, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर सांगनेर जयपुर
केरल डिप्लोमा 440/17-996/2013-पी.सी.आई. त्रिवेणी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पी.ओ. इरानेलूर, केचेरी - 680 501 डिस्ट्रिक्ट त्रिचूर	60	2013-2014 से 2015-2016 तक	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम-695 011.
केरल डिप्लोमा 441/17-77/2011-पी.सी.आई. लीजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लीजी हॉस्पिटल, इर्नाकुलम कोची - 682 018.	60	2016-2017	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम-695 011.
केरल डिप्लोमा 442/17-225/2014-पी.सी.आई. जॉन इनोच कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेदुमाकोड़, करमना, थिरुवननथापुरम - 695 002.	100	2016-2017	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम-695 011.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 443/17-665/2011-पी.सी.आई. नेशनल सैन्टर फॉर रूरल डैवलपमेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्लॉट नम्बर 93, सैक्टर - 19, नेरूल (ई.), नवी मुम्बई - 400 706.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 444/17-600/2007-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डी.फार्म.), ए.पी. मायानी, ताल्लुक - खाटव, डिस्ट्रिक्ट सतारा - 415 102.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 445/17-197/2011-पी.सी.आई. एस.पी. मण्डलस श्रीमती कुसुमताई वानखेडे इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कैटोल - 441 302. डिस्ट्रिक्ट नागपुर	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 446/17-918/2011-पी.सी.आई. लेट महारुद्र (बाप्पा) मोटे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (डी.फार्म.) एट पोस्ट गिरवाली, ताल्लुक भूम डिस्ट्रिक्ट ओसमानाबाद	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 447/17-550/2014-पी.सी.आई. आदर्श शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पी.ओ. बॉक्स नम्बर 38, नगर रोड, बीड़ - 431 122.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 448/17-213/2011-पी.सी.आई. धूले चैरिटेबल सोसायटीज इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दयासागर एजुकेशन कैम्पस, सिटी सर्वे नम्बर 4259, दीओपुर धूले - 424 002.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 449/17-56/2010-पी.सी.आई. महात्मा गाँधी विद्या मन्दिरस फार्मैसी कॉलेज, मुम्बई आगरा रोड, पंचवटी नासिक - 422 003.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-93/2010-पी.सी.आई. महात्मा गाँधी विद्या मन्दिरस फार्मैसी कॉलेज, मुम्बई आगरा रोड, पंचवटी नासिक - 422 003.	60	2016-2017	निबंधक, पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
महाराष्ट्र डिग्री 450/32-468/2014-पी.सी.आई. दधीचि कॉलेज ऑफ फार्मैसी, विद्या-विहार, सुन्दरग्राम, डिस्ट्रिक्ट: कटक - 754 002.	60	2016-2017	निबंधक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 453/17-939/2014-पी.सी.आई. इन्नोवेटिव कॉलेज ऑफ फार्मैसी, नॉलीज पार्क-II, प्लॉट नम्बर 6, ग्रेटर नोएडा - 201 308.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ-226 001.
डिग्री 32-852/2011-पी.सी.आई. इन्नोवेटिव कॉलेज ऑफ फार्मैसी, नॉलीज पार्क-II, प्लॉट नम्बर 6, ग्रेटर नोएडा - 201 308.	60	2016-2017	निबंधक, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय सैक्टर-62, सी-22, गौतम बुद्ध नगर नोएडा - 201 301.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 454/17-821/2010-पी.सी.आई. फार्मैसी कॉलेज विलेज - इतौरा, पोस्ट चंदेश्वर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ - 276 138.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, उ०प्र० 1, बांसमण्डी, चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-258/2010-पी.सी.आई. फार्मैसी कॉलेज विलेज - इतौरा, पोस्ट चंदेश्वर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ - 276 138.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 455/17-962/2014-पी.सी.आई. वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मैसी, एन.एच.-58, दिल्ली-रूड़की बाईपास जटोली, मेरठ - 250 001.	60	2015-2016	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001
डिग्री 32-1009/2011-पी.सी.आई. वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मैसी, एन.एच.-58, दिल्ली-रूड़की बाईपास जटोली, मेरठ-250001.	60	2009-2010 से 2015-2016 तक	निबंधक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
छत्तीसगढ़ डिग्री 456/32-600/2014-पी.सी.आई. श्री शंकराचार्य टेकनिकल कैम्पस- श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस) जूनवानी, पी.ओ. नेहरू नगर, भिलाई-490020 (छत्तीसगढ़) (पहले श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जूनवानी, पी.ओ. नेहरू नगर, भिलाई - 490 020 (छत्तीसगढ़) के नाम से जाना जाता था) महाराष्ट्र डिग्री 458/32-560/2011-पी.सी.आई. राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ फार्मैसी एण्ड रिसर्च, ताथवाडे, मुम्बई-पुणे बाईपास हाईवे, पुणे	60	2016-2017	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नोर्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8, भिलाई - 490 009.
			निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिग्री 460/32-176/2013-पी.सी.आई. के.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के.आर.ए. कैम्पस, 1-161, संकरालू नगर रोड, गेरुगमबक्कम, चेन्नई - 602 101.	50	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश डिग्री 461/32-653/2014-पी.सी.आई. अमेटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, अमेटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ कैम्पस, विराज खण्ड - 5, गोमती नगर स्कीम, लखनऊ-226010.	60	2016-2017	निबंधक, परीक्षा नियंत्रक अमेटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश सैक्टर -125 नोएडा - 201 303.
उत्तर प्रदेश डिग्री 462/32-1058/2013-पी.सी. आई. कृष्णापिट इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्लॉट नम्बर 644, बिहाईन्ड त्रिवेनी ग्लास फैक्टरी, इरादतगंज पोस्ट घुरपुर, रीवा रोड, इलाहाबाद	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबंधक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 463/32-482/2012-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट (डिपार्टमेंट) ऑफ फार्मेसी, वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, शाहगंज रोड, जौनपुर - 222 001.	60	2016-2017	निबंधक, वी बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, शाहगंज रोड, जौनपुर - 222 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 464/32-971/2013-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ बी.फार्म. मालती मैमोरियल ट्रस्टस सी एम एस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस 8 माईल स्टोन, रीवा रोड इदादतगंज, घुरपुर इलाहाबाद - 212 110.	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी (पी.बी.) 470/50-370/2014-पी.सी.आई. माला रेड्डी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मसाईम्मागुडा, धूलापल्ली पोस्ट, वाया हकीमपैट, सिकन्दराबाद-500 014.	10	2011-2012 से 2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 481/17-605/2013-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमरावती रोड, कोरेटीपाडू, गुन्टूर - 522 002.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
डिग्री 32-231/2013-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमरावती रोड, कोरेटीपाडू, गुन्टूर - 522 002.	100	2016-2017	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुन्टूर - 522 510.
कर्नाटक डिप्लोमा 482/17-411/2011-पी.सी.आई. विद्या विकास ट्रस्ट्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौबाद बीदर - 585 403.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
कर्नाटक डिप्लोमा 483/17-459/2013-पी.सी.आई. अमृत एजुकेशनल एण्ड क्लचरल सोसायटीज, पवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंगलौर-चेन्नई बाई पास रोड पवन नगर, पी.सी. हल्ली एक्सटेंशन कोलार	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 484/17-206/2010-पी.सी.आई. जे.एस.पी. मण्डलस सुधाकर राव नायक इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, (डी. फार्म) (डिस्ट्रिक्ट यवातमल) पुसाद - 445 204.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 485/17-938/2012-पी.सी.आई. जलगाँव जिल्हा मैडिसिन डिलर्स सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मामुराबाद, पी.बी. नम्बर 157, गैट नम्बर 285 जलगाँव - 425 001.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-846/2012- पी.सी.आई. जलगाँव जिल्हा मैडिसिन डिलर्स सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मामुराबाद, पी.बी. नम्बर 157, गैट नम्बर 285 जलगाँव-425001.	60	2016-2017	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, उमावीनगर, पी.बी. संख्या 80 जलगाँव - 425 001.
राजस्थान डिप्लोमा 486/17-535/2011-पी.सी.आई. श्री बजरंग कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दीग (भरतपुर) भरतपुर - 321 203.	60	2016-2017	निबन्धक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर - 18, प्रताप नगर टोंक रोड, जयपुर-302 003
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 488/32-464/2013-पी.सी.आई. क्रिएटिव एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन एच-7, चिन्नाटेकुर, कुरनूल - 518 218.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर, हैदराबाद - 515 002.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 491/32-582/2013-पी.सी.आई. श्री दत्त इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिरीगुडा (वी), इब्राहिमपटनम (एम), आर.आर. (डिस्ट्रिक्ट) - 501 510.	100	2016-2017	निबन्धक जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 085.
छत्तीसगढ़ डिग्री 492/32-637/2014-पी.सी.आई. सृष्टि एजुकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी अपोलो कॉलेज, इन फ्रन्ट ऑफ वैटरनीटी कॉलेज, दुर्ग - 491 001.	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8 भिलाई - 490 009.
कर्नाटक फार्म.डी (पी.बी.) 498/50-185/2014-पी.सी.आई. बी.एल.डी.ई. एसोसिएशंस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 40, बी एल डी ई यूनिवर्सिटी कैम्पस, सोलापुर रोड, बीजापुर-586 103.	10	2011-2012 से 2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 514/17-713/2011-पी.सी.आई. महाराजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फूल बाग, विजयानगरम-534002.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
डिग्री 32-350/2011-पी.सी.आई. महाराजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फूल बाग, विजयानगरम - 534 002.	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेअर विशाखापत्तनम् - 530 063.
छत्तीसगढ़ डिप्लोमा 515/17-786/2011-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसी इंजिनियरिंग कॉलेज, लाल खदान, मस्तूरी रोड, बिलासपुर - 495 004.	60	2016-2017	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8 भिलाई - 490 009.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-449/2008-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसी इंजिनियरिंग कॉलेज, लाल खदान, मस्तूरी रोड, बिलासपुर - 495 004.	60	2016-2017	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8 भिलाई - 490 009.
कर्नाटक डिप्लोमा 517/17-38/2013-पी.सी.आई. विश्वेश्वरापुरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, 22 वां मेन, 24 वां क्रॉस, ऑपोजिट बी.डी.ए. कॉम्प्लैक्स बंगलौर - 560 070.	60	2018-2019	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-52/2010-पी.सी.आई. विश्वेश्वरापुरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, 22 वां मेन, 24 वां क्रॉस, ऑपोजिट बी.डी.ए. कॉम्प्लैक्स बंगलौर - 560 070.	60	2018-2019	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 519/17-400/2006-पी.सी.आई. रवि इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी देवी रोड, महादुला, कोराडी डिस्ट्रिक्ट नागपुर - 444 111.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 520/17-144/2011-पी.सी.आई. नंदूरबार ताल्लुक विधायक समितिज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, खोडाई माता रोड, नन्दूरबार, डिस्ट्रिक्ट धूले - 425 412.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 521/17-788/2011-पी.सी.आई. अभिनव एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डी.फार्म.), ए/पी नारहे, एस.नम्बर 23/3/3, नारहे ताल्लुक : हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 411 041.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग,बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-477/2011-पी.सी.आई. अभिनव एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म.), ए/पी नारहे, एस.नम्बर 23/3/3, नारहे ताल्लुक : हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 411 041.	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड रोड पुणे - 411 007.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 522/17-116/2011-पी.सी.आई. नगर युवक शिक्षण संस्थाज एडवोकेट वी.आर. मनोहर इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, (पहले इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी) वानाडोंगरी, हिंगना रोड, नागपुर - 144 110.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग,बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 523/17-212/2011-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, फैजपुर, ताल्लुक-यावत, डिस्ट्रिक्ट जलगाँव - 425 503.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग,बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 524/17-635/2011-पी.सी.आई. श्री जैन विद्या प्रसारक मण्डलस श्री फतेचन्द्र जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चिनचवाड़ टैलको रोड, डी-II, 60-61, चिनचवाड़ एम.आई.डी.सी., चिन्चवाड़, पुणे - 411 019.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग,बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 525/17-112/2011-पी.सी.आई. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कैमिस्ट्स एसोसिएशन इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एअर पोर्ट रोड उजालाईवादी, कोल्हापुर - 416 004.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
उड़ीसा डिप्लोमा 526/17-764/2014-पी.सी.आई. पैरादीप फार्मेसी कॉलेज तिरतोल, जगतसिंहपुर-754 137.	40	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्देश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 528/17-989/2010-पी.सी.आई. शिवमूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज-सैंडावा दुबन, पोस्ट-साहेबगंज, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ - 230137.	60	2013-2014 से 2014-2015 तक	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
उत्तर प्रदेश डिग्री 529/32-614/2010-पी.सी.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी चौमुहान, मथुरा - 281 406.	60	2014-2015	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 776 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 530/32-642/2013-पी.सी.आई. राजा बहादुर वेंकटरामा रेड्डी, वूमैनस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हैदराबाद	100	2016-2017	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
हिमाचल प्रदेश डिग्री 532/32-786/2012-पी.सी.आई. ट्रीम्ज कॉलेज ऑफ फार्मेसी विलेज खिलरा पी.ओ.मेरामासिट, दी सुन्दर नगर, डिस्ट्रिक्ट मण्डी – 175 036.	60	2016-2017	निबन्धक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक शाखा, समर हिल, शिमला – 171 005.
उत्तर प्रदेश डिग्री 535/32-580/2014-पी.सी.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, श्री हरिश् चन्द्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, भवन बीगा कैम्पस, बनियापुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी – 221 002.	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ – 260 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 536/32-924/2014-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, नारायणा विद्यापीठ ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट 1080 गंगा गंग पानकी, कानपुर- 208 020.	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ – 260 021.
कर्नाटक फार्म.डी (पी.बी.) 549/50-138/2014-पी.सी.आई. श्री आदिचुनचुनागिरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बी.जी. नगर – 571 448, नागेमंगाले ताल्लुक, माण्ड्या डिस्ट्रिक्ट	10	2014-2015 (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर – 560 041.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 551 और 686/50-372/2013- पी.सी.आई. मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसाम्मागुडा, धौलापल्ली पोस्ट, वाया हकीमपैट सिकन्दराबाद – 500 014.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 007.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
फार्म.डी (पी.बी.) 50-372/2014-पी.सी.आई. मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसाम्मागुडा, धौलापल्ली पोस्ट, वाया हकीमपैट सिकन्दराबाद – 500 014. आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी	10	2016-2017 तक फार्म.डी (पी.बी.) के लिए	
553 और 681/50-104/2014- पी.सी.आई. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माधापुर 86, हाई-टैक सिटी रोड, माधापुर – 500 081 हैदराबाद	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 007.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-104/2014-पी.सी.आई. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माधापुर 86, हाई-टैक सिटी रोड, माधापुर – 500 081 हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी	10	2014-2015 तक (फार्म.डी.(पी.बी.) के लिए)	
554 और 685/50-291/2013- पी.सी.आई. रघुवेन्द्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, साईग्राम कृष्णारेड्डीपल्ली क्रोस, चिय्येडू (पी.ओ.), अनंतपुर – 515 721.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी. के लिए)	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर – 515 002.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-291/2013-पी.सी.आई. रघुवेन्द्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, साईग्राम कृष्णारेड्डीपल्ली क्रोस, चिय्येडू (पी.ओ.), अनंतपुर – 515 721.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक फार्म.डी.(पी.बी.) 561/50-83/2014-पी.सी.आई. ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फर्स्ट फ़ेज, जे.पी. नगर, सी.ए. साईट नम्बर 40 बंगलौर - 560 078.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
कर्नाटक फार्म.डी 562 और 688/50-11/2014- पी.सी.आई. मनीपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, मनीपाल यूनिवर्सिटी, माधव नगर, मनीपाल - 576 104. उडिपि डिस्ट्रिक्ट	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	सचिव मनीपाल विश्वविद्यालय, (मानित विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय भवन माधव नगर, मनीपाल - 576 104.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-11/2014-पी.सी.आई. मनीपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, मनीपाल यूनिवर्सिटी, माधव नगर, मनीपाल-576 104. उडिपि डिस्ट्रिक्ट	10	2018-2019 तक (फार्म.डी पी.बी. के लिए)	
कर्नाटक फार्म.डी 564 और 691/50-88/2014- पी.सी.आई. श्री जगद्गुरु मल्लिकार्जुन मुखधराजेन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एस जे एम आई टी कैम्पस, एन एच - 4, चित्रदुर्ग-577502.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-88/2014-पी.सी.आई. श्री जगद्गुरु मल्लिकार्जुन मुखधराजेन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एस जे एम आई टी कैम्पस, एन एच - 4, चित्रदुर्ग-577 502.	10	2011-2012 से 2016-2017 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक फार्म.डी. 565 और 690/50-82/2013- पी.सी.आई. एच.के.ई.एस. मातोश्री तारादेवी रामपुरे, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुलबर्गा - 585 105.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
फार्म.डी.(पी.बी.) 50-82/2013-पी.सी.आई. एच.के.ई.एस. मातोश्री तारादेवी रामपुरे, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुलबर्गा - 585 105.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
तमिलनाडु फार्म.डी. 566 और 692/50- 49/2013-पी.सी.आई. जे.एस.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रॉकलैंडस पी.ओ. बॉक्स नम्बर 20 उटकामंड - 643 001.	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	निबंधक, जे.एस.एस. विश्वविद्यालय, श्री शिवरात्रिश्वर नगर, मैसूर - 570 015
फार्म.डी (पी.बी.) 50-49/2013-पी.सी.आई. जे.एस.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रॉकलैंडस पी.ओ. बॉक्स नम्बर 20 उटकामंड - 643 001.	10	2018-2019 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
कर्नाटक डिप्लोमा 570/17-295/2012-पी.सी.आई. यू.वी.के. गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सुल्तानपाल्या आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर - 560 032	60	2016-2017	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-120/2009-पी.सी.आई. यू.वी.के. गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सुल्तानपाल्या आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर - 560 032.	60	2016-2017	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041
महाराष्ट्र डिप्लोमा 572/17-163/98-पी.सी.आई. ए.एस.पी.मण्डलस डी. फार्मेसी इन्स्टीट्यूट, पोस्ट बॉक्स नम्बर 39, केशव नगर, घाटन गिरी रोड, ओसमानाबाद - 413 501.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 573/17-662/2011-पी.सी.आई. अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भण्डारा रोड़ रेलवे स्टेशन, वार्धी, तहसील मोहादी, डिस्ट्रिक्ट भण्डारा - 441 905.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 574/17-896/2009-पी.सी.आई. श्री बाबासाहेब घरफालकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गादगे, नचनगाँव, (पुलगाँव), डिस्ट्रिक्ट वर्धा	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 575/17-624/2010-पी.सी.आई. खानडेश एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी पोस्ट बॉक्स नम्बर 28, नियर रेलवे स्टेशन, अमालनेर - 425 401.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 576/17-63/2014-पी.सी.आई. एम.ए. एजुकेशन सोसायटीज कमला नेहरू पॉलीटैक्निक (फार्मेसी) कॉलेज ऑफ फार्मेसी पी.बी. नम्बर 65, रोजा बाग, औरंगाबाद - 431 001.	120	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 577/17-807/2011-पी.सी.आई. डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज, जनता हाई स्कूल कैम्पस, नेगाँव (बी जेड), ताल्लुक नेगाँव (के एच), नानडेड	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 578/17-634/2011-पी.सी.आई. किसान ज्ञानोदय मण्डल गूधे संचालित इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नियर औरंगाबाद बाई पास, धूले रोड, चालीसगाँव, डिस्ट्रिक्ट जलगाँव - 424 101.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 582 और 682/50-24/2013- पी.सी.आई. सैन्ट पीटरस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, विद्यानगर, हनमकोण्डा-506 001.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-24/2013-पी.सी.आई. सैन्ट पीटरस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, विद्यानगर, हनमकोण्डा - 506 001.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 583 और 684/50-207/2014- पी.सी.आई. पी. रामी रेड्डी मैमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 1-35/1, प्रकृति नगर, उटुकुर कडापा - 516 003.	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर - 515 002.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-207/2014-पी.सी.आई. पी. रामी रेड्डी मैमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 1-35/1, प्रकृति नगर, उटुकुर कडापा - 516 003.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
कर्नाटक फार्म.डी (पी.बी.) 590/50-191/2013-पी.सी.आई. आचार्य एण्ड बी.एम. रेड्डी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सोलादेवनहल्ली, हेसारगट्टा रोड, चिक्काबनावरा पोस्ट, बंगलौर - 560 090.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
कर्नाटक फार्म.डी (पी.बी.) 591/50-68/2014-पी.सी.आई. पी.ई.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 50, फीट रोड हनुमंथानगर बंगलौर - 560 050.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 593 और 689/50-46/2014- पी.सी.आई. जे.एस.एस. महाविद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री शिवरात्रिश्वरा नगर, मैसूर - 570 015.	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक जे.एस.एस. विश्वविद्यालय श्री शिवरात्रिश्वरा नगर, मैसूर - 570 015.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
फार्म.डी (पी.बी.) 50-46/2014-पी.सी.आई. जे.एस.एस. महाविद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री शिवरात्रिश्वरा नगर, मैसूर - 570 015. तमिलनाडु	10	2018-2019 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
फार्म.डी 595 और 693/50-61/2014- पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाईनगर - 608 002.	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक परीक्षा नियंत्रक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाईनगर - 608 002.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-46/2014-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाईनगर - 608 002.	30	2008-2009	
	10	2009-2010	
	05	2010-2011 से 2013-2014 तक	
	10	2014-2015 से 2018-2019 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
हिमाचल प्रदेश डिप्लोमा 615/17-965/2012-पी.सी.आई. के.सी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वी.पी. ओ. पान्डोगा, उपराला, तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट उना - 177 207.	60	2014-2015	सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, सिविल लाईन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा - 176 057.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-1024/2011-पी.सी.आई. के.सी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वी.पी. ओ. पान्डोगा, उपराला, तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट उना - 177 207.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक हमीरपुर
केरल डिप्लोमा 616/17-97/2002-पी.सी.आई. कैरिटास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, थिल्लाकोम पी.ओ, कोट्टायाम - 686 030.	60	2016-2017	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम-695 011.
केरल डिप्लोमा 617/17-228/2010-पी.सी.आई. ए.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ववाकायू पोस्ट, करुणागापल्ली कोलाम - 690 528.	90	2016-2017	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम-695 011.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 618/17-849/2010-पी.सी.आई. शिवनेरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एट/पोस्ट-खानापुर, ताल्लुक जूनार, डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2017-2018	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 619/17-959/2012-पी.सी.आई. शारदा रूरल मैडिकल सोशल वैलफेअर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट्स साहाकार महर्षि किसानराव वारल पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डी.फार्मेसी), ए/पी निघोज, ताल्लुक पारनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 620/17-486/2011-पी.सी.आई. श्रीमती एस.पी.शिक्षण संस्था, श्रीमती शांताबाई पाटिल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, बिहाईन्ड रेलवे स्टेशन न्यू कामप्टी, कामप्टी - 414 002, डिस्ट्रिक्ट नागपुर	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 621/17-120/2011-पी.सी.आई. ए.आई.टी.ज इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 123, सर्वे नम्बर 100, फार्मेसी नगर, मालेगाँव नासिक- 423 203.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
गुजरात डिग्री 623/32-1013/2012-पी.सी. आई. एस.एम.शाह फार्मेसी कॉलेज, एट एण्ड पी.ओ. अमासरन, ताल्लुक मेहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा - 387 130.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015.
केरल डिग्री 624/32-448/2014-पी.सी.आई. राजीव गाँधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मीलीयत (पी.ओ.), ट्रीकारीपुर, कसारगॉड (डिस्ट्रिक्ट)-671 310.	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थ्रिसूर - 680 596.
केरल डिग्री 625/32-892/2014-पी.सी.आई. करुणा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इरिनकित्तौर, पी.ओ. थिरुमिट्टाकोडे, पलाक्कड डिस्ट्रिक्ट - 679 533.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थ्रिसूर - 680 596.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
केरल डिग्री 626/32-958/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कन्नूर मैडिकल कॉलेज, पोस्ट अंजाराकांडी, कन्नूर - 670 612.	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थ्रिसूर - 680 596.
केरल डिग्री 627/32-284/2013-पी.सी.आई. ग्रेस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट : कोण्डूनथिरापुल्ली- 678 004 पलाक्कड (डिस्ट्रिक्ट)	60	2016-2017	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थ्रिसूर - 680 596.
महाराष्ट्र डिग्री 628/32-743/2011-पी.सी.आई. अरविन्द गवाली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जैतापुर सतारा, एस.एन. 261 एट : जैतपुर पोस्ट: चिनचानेर वंदन ताल्लुक/डिस्ट्रिक्ट सतारा - 415 004.	60	2016-2017	निबन्धक शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416 001.
महाराष्ट्र डिग्री 629/32-236/02-पी.सी.आई. प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी सैक्टर 21, यमुना नगर, निगदी, पुणे - 411 044.	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
महाराष्ट्र डिग्री 630/32-355/06-पी.सी.आई. यश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 968, बजार्ज नगर, वलूज, औरंगाबाद - 431 004.	60	2016-2017	निबन्धक डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर औरंगाबाद - 431 004.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिग्री 631/32-134/2014-पी.सी.आई. भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी सैक्टर-8, सी.बी.डी. नवी मुम्बई - 400 614.	60	2018-2019	निबंधक, मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज (ई.), फोर्ट, मुम्बई - 400 032.
उत्तराखण्ड डिग्री 632/32-984/2014-पी.सी.आई. ओम बायो-साईंस एण्ड फार्मा कॉलेज, ऑनवर्ड रूड़की 01 किलोमीटर फ्रोम पातंजलि योगपीठ, नियर क्रिस्टल वर्ल्ड, एन.एच.-58, पंचायनपुर, पी.ओ. दुदालतपुर, रूड़की	60	2015-2016	निबंधक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय), ए-12, सरस्वती विहार लोअर, अधोईवाला, डाकघर दलनवाला देहरादून
महाराष्ट्र डिप्लोमा 633/17-476/2011-पी.सी.आई. सीताबाई थीटे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शीखर (घोदनाड़ी) - 412 210. डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-270/2011-पी.सी.आई. सीताबाई थीटे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शीखर (घोदनाड़ी) - 412 210. डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2016-2017	निबंधक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 634/17-209/2005-पी.सी.आई. विद्याभारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कैम्प, अमरावती - 444 602.	60	2017-2018	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-153/2010-पी.सी.आई. विद्याभारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सी.के. नायडू कैम्प, अमरावती - 444 602.	60	2017-2018	निबंधक संत गादगे अमरावती विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मार्ग अमरावती - 444 602.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
केरल डिप्लोमा 635/17-59/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज, गाँधी नगर, पी.ओ. कोट्टायाम-686 008.	30	2014-2015	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवननथापुरम- 695 011.
डिग्री 32-1019/2014-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज, गाँधी नगर, पी.ओ. कोट्टायाम-686 008.	60	2014-2015	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थ्रिसूर - 680 596.
कर्नाटक डिप्लोमा 636/17-445/2011-पी.सी.आई. बासवेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शांतिनिकेतन एजुकेशनल कैम्पस, कामथाटना रोड, चिड्री, डिस्ट्रिक्ट बीदर - 585 403.	60	2014-2015	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
डिग्री 32-1048/2012-पी.सी.आई. बासवेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शांतिनिकेतन एजुकेशनल कैम्पस, कामथाटना रोड, चिड्री, डिस्ट्रिक्ट बीदर - 585 403.	60	2006-2007 से 2014-2015 तक	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
उत्तराप्रदेश डिप्लोमा 637/17-829/2010-पी.सी.आई. नन्दिनी नगर महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फार्मेसी विलेज टरकौली पोस्ट नबाबगंज, डिस्ट्रिक्ट गोण्डा - 271 303.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-263/2010-पी.सी.आई. नन्दिनी नगर महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फार्मेसी विलेज टरकौलीए पोस्ट नबाबगंज, डिस्ट्रिक्ट गोण्डा - 271 303.	60	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 639/32-973/2013-पी.सी.आई. मदर टरेसा फार्मेसी कॉलेज संकेतिका नगर, साथुपल्ली - 507 303.	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
महाराष्ट्र डिग्री 641/32-424/2014-पी.सी.आई. संजीवनी रूरल एजुकेशन सोसायटीज संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एट : सहजानंदनगर, पोस्ट : शिंगनापुर ताल्लुक : कोपरगाँव, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर-423 603.	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
महाराष्ट्र डिग्री 642/32-186/2012-पी.सी.आई. पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मण्डलस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शाहदा, डिस्ट्रिक्ट नंदूरबार-425 409	40	2016-2017	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, एन.एम.यू. नगर, पोस्ट बॉक्स नम्बर 80, जलगाँव - 425 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिग्री 643/32-526/2009-पी.सी.आई. गहलौत इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्लॉट नम्बर 59, सैक्टर - 14, कोपर खेराने नवी मुम्बई-400 709.	60	2014-2015	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज, (पू.), फोर्ड, मुम्बई - 400 032.
गुजरात डिग्री 644/32-998/2012-पी.सी.आई. श्री मुकुंदलाल विठ्ठलदास शाह फार्मेसी कॉलेज, एट गजन ताल्लुक मोदासा, डिस्ट्रिक्ट सबरकंठ	60	2009-2010 से 2014-2015 तक	निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015.
पंजाब डिग्री 646/32-281/2004-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, पी.ओ. रायान एण्ड सिल्क मिल्स अमृतसर - 143 104.	30	2016-2017	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी.रोड, लाडोवाली रोड जालंधर - 144 001.
पुडुचेरी डिग्री 647/32-219/2007-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी मदर टरेसा इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसिज, ए गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी इंस्टीट्यूशन इन्दिरा नगर पुडुचेरी - 605 006.	60	2016-2017	उपनिबन्धक पांडीचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कालापैट पुडुचेरी - 605 014.
केरल डिग्री 648/32-1029/2013-पी.सी.आई. के वी एम कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोकोथामंगलम पी.ओ. चेरथला - 688 524 अलापूझा डिस्ट्रिक्ट	60	2010-2011 से 2014-2015 तक	निबन्धक, स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थ्रिसूर - 680 596.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
केरल डिप्लोमा 649/17-711/2005-पी.सी.आई. इझुथाचन कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मारायामुट्टम, नेयाटिनकारा, थिरुवन्नथापुरम - 695 131.	60	2016-2017	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवनन्थापुरम-695 011.
डिग्री 32-299/2005-पी.सी.आई. इझुथाचन कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मारायामुट्टम, नेयाटिनकारा, थिरुवन्नथापुरम - 695 131.	60	2016-2017	निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान केरल विश्वविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थ्रिसूर - 680 596.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 650/17-797/2011-पी.सी.आई. आईडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी 21/11, आदर्श विद्या नगरी, एट-भाल, पी.ओ. द्वारली, वाया कल्याण, ताल्लुक अम्बेरनाथ, डिस्ट्रिक्ट थाणे - 421 301.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 651/17-607/2011-पी.सी.आई. अग्निहोत्री इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज, बापूजी वादी, सिन्दी (मेघे) वर्धा - 442 001.	60	2014-2015	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-275/2014-पी.सी.आई. अग्निहोत्री इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज, बापूजी वादी, सिन्दी (मेघे) वर्धा - 442 001.	60	2014-2015	निबंधक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय, नागपुर महाराजा बाग, अमरावती मार्ग नागपुर

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र डिप्लोमा 652/17-156/2014-पी.सी.आई. महाराष्ट्र पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट (डी.फार्मेसी) एट पी.ओ. निलंगा डिस्ट्रिक्ट लातूर - 413 521	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-69/2011-पी.सी.आई. एम.एस.एस. महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट पी.ओ. निलंगा डिस्ट्रिक्ट लातूर - 413 521.	60	2016-2017	निबन्धक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, ज्ञानतीर्थ विष्णुपुरी, नानडेड - 431 606
महाराष्ट्र डिप्लोमा 653/17-429/2012-पी.सी.आई. नवयुग विद्यापीठ ट्रस्टस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लाडवाली, महाद रेगाद - 402 301.	60	2017-2018	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन, तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 654/17-277/1997-पी.सी.आई. श्री लक्ष्मणराव मंकर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, आमगाँव - 441 902 डिस्ट्रिक्ट गोंडिया	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई-400 051.
महाराष्ट्र डिप्लोमा 655/17-787/2011-पी.सी.आई. महात्मा बासवेश्वर एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर वोमैस पॉलीटेक्निक बर्सी रोड, लातूर - 413 531.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन, तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई-400051.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
पंजाब डिप्लोमा 656/17-260/2011-पी.सी.आई. एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बरनाला - 148 101.	60	2016-2017	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं०1-ए, सैक्टर-36-ए, चण्डीगढ़
डिग्री 32-287/2009-पी.सी.आई. एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बरनाला - 148 101.	40	2016-2017	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी.रोड, लाडोवाली रोड जालंधर - 144 001.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 657/17-547/2011-पी.सी.आई. आचार्य नरेन्द्र दिओ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बभनान-गोन्डा - 272 161.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001
			सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
डिग्री 32-197/2000-पी.सी.आई. आचार्य नरेन्द्र दिओ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बभनान-गोन्डा - 272 161.	60	2016-2017	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 658/17-933/2014-पी.सी.आई. प्रसाद पॉलीटेक्निक पंच-हाटिया जौनपुर - 222 001.	60	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-787/2010-पी.सी.आई. प्रसाद पॉलीटेक्निक ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.फार्म), पंच-हाटिया जौनपुर - 222 001.	60	2014-2015	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 659/17-910/2013-पी.सी.आई. श्री मदनलाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा - 206 001.	60	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226 001. सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
डिग्री 32-616/2009-पी.सी.आई. श्री मदनलाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा - 206 001.	60	2014-2015	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021
महाराष्ट्र डिग्री 662/32-172/2014-पी.सी.आई. एम.सी.ई. सोसायटीज आलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 2390-बी, के.बी. हिदायतुला रोड, आजम कैम्पस, पुणे - 411 001.	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
मध्य प्रदेश डिग्री 663/32-1093/2014-पी.सी. आई. श्री सत्य साई स्कूल ऑफ फार्मेसी, एस.एच-18, ऑपोजिट ऑयलफैड प्लॉन्ट, पचामा भोपाल इन्दौर सेहोरे	60	2007-2008 से 2014-2015 तक	सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तराखण्ड			
664/32-328/2012-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी (कुमायूँ यूनिवर्सिटी), ब्लॉक रोड, भीमताल, नैनीताल	30	2016-2017	निबन्धक कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल - 263 001.
आन्ध्र प्रदेश			
फार्म.डी 673/50-210/2013-पी.सी.आई. वाग्देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच.नम्बर 2-2-457/ए, श्रामनगर, हनमकोण्डा, वारंगल - 506 001	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय विद्यारन्यापुरी वारंगल - 506 009.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-210/2013-पी.सी.आई. वाग्देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच.नम्बर 2-2-457/ए, रामनगर, हनमकोण्डा, वारंगल - 506 001.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी.) के लिए)	
महाराष्ट्र			
डिप्लोमा 694/17-953/2010-पी.सी.आई. डॉ० डी.बी.के.एस. संस्थाज उत्तमराव देशमुख इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ए./पी. धर्मापुरी, डिस्ट्रिक्ट परभानी	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन, तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
उड़ीसा			
डिप्लोमा 696/17-363/2014-पी.सी.आई. इन्दिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर - 751 015.	60	2016-2017	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-188/2014-पी.सी.आई. इन्दिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर - 751 015. उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 697/17-556/2011-पी.सी.आई. श्री गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, अहेरा, बागपत - 250 609.	60	2016-2017	निबन्धक उत्कल विश्वविद्यालय वाणी विहार, भुवनेश्वर - 751 004.
डिग्री 32-217/2010-पी.सी.आई. श्री गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, अहेरा, बागपत - 250 609. उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 698/17-889/2010-पी.सी.आई. श्री साई इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, लक्ष्मणगढ़ी, खेर, अलीगढ़ - 202 001.	60	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226 001. सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
डिग्री 32-217/2010-पी.सी.आई. श्री गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, अहेरा, बागपत - 250 609. उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 698/17-889/2010-पी.सी.आई. श्री साई इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, लक्ष्मणगढ़ी, खेर, अलीगढ़ - 202 001.	60	2014-2015	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021
डिग्री 32-217/2010-पी.सी.आई. श्री गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, अहेरा, बागपत - 250 609. उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 698/17-889/2010-पी.सी.आई. श्री साई इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, लक्ष्मणगढ़ी, खेर, अलीगढ़ - 202 001.	60	2016-2017	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226 001. सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तरांचल समिति 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तराखण्ड डिप्लोमा 699/17-106/2012-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, गोचर (चमोली)	40	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, सामने शिव मन्दिर, रूड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
महाराष्ट्र डिप्लोमा 701/32-565/2010-पी.सी.आई. जयवंतराव शिक्षण प्रसारक मण्डलस जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च, एस. नम्बर 58, जे.एस.पी. मण्डल कैम्पस, हांडेवाली रोड, हडपसर, पुणे - 411 028.	60	2016-2017	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड रोड, पुणे - 411 007.
कर्नाटक फार्म.डी. 706/50-112/2014-पी.सी.आई. एन.ई.टी. फार्मेसी कॉलेज, नवोदया नगर, मंत्रालयम रोड, रायचूर - 584 103.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी. के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
फार्म.डी.(पी.बी.) 50-112/2014-पी.सी.आई. एन.ई.टी. फार्मेसी कॉलेज, नवोदया नगर, मंत्रालयम रोड, रायचूर - 584 103.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	
तमिलनाडु फार्म.डी.(पी.बी.) 708/50-76/2013-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्सेसी, श्री रामकृष्ण इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकल सांईसिज, 395, सरोजिनी नायडू रोड, कोय्यंबटूर - 641 044.	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, म्यून्डी, चेन्नई - 600 032.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
फार्म.डी.(पी.बी.) 50-76/2013-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री रामकृष्ण इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकल साईंसिज, 395, सरोजिनी नायडू रोड, कोयंबटूर - 641 044.	10	2018-2019 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	
महाराष्ट्र डिप्लोमा 710/17-640/2014-पी.सी.आई. जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डी.फार्मेसी) मोगली रोड, ताल्लुक अक्कासकुआ, डिस्ट्रिक्ट नन्दूरबार - 425 415.	60	2016-2017	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग,बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
डिग्री 32-745/2010-पी.सी.आई. अलि-आलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मेसी), मोगली रोड, ताल्लुक अक्कासकुआ, डिस्ट्रिक्ट नन्दूरबार - 425 415.	60	2016-2017	निबन्धक, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, एन एम यू नगर, पी.बी. नम्बर 80 जलगाँव-425 001.
राजस्थान डिप्लोमा 711/17-902/2010-पी.सी.आई. वरुण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज : चवनडिया, तहसील जमवरमगढ़, जयपुर - 303 301.	60	2014-2015	निबन्धक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, श्रीजीत सर्कल, कुम्भा मार्ग सैक्टर-18, प्रताप नगर, टोंक रोड़ जयपुर
महाराष्ट्र डिग्री 714/32-727/2014-पी.सी.आई. एच.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच.के. बिल्डिंग, प्रतिका नगर, ओशिवाड़ा जोगेश्वरी मुम्बई	60	2015-2016	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई - 400 032.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 715/32-627/2013-पी.सी.आई. श्री साई आदित्या इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज एण्ड रिसर्च, आदित्य नगर, सुरमपलीम ए.डी.बी. रोड, पेड्डापुरम, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गोदावरी-533 437.	60	2016-2017	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम् - 530 003.
उत्तर प्रदेश डिग्री 716/32-1074/2014-पी.सी. आई. वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी विलेज-सराई टाक्की, पी.ओ.रमाई पट्टी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी	60	2016-2017	निबंधक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 226 021.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 722/50-375/2014-पी.सी.आई. जी आई ई टी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन एच-5, चेतन्य नगर, राजमुन्द्री - 533 294, ई जी डिस्ट्रिक्ट	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्तेअर विशाखापत्तनम् - 530 063.
कर्नाटक फार्म.डी.(पी.बी.) 723/50-95/20134-पी.सी.आई. कृपानिधि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चिक्काबेलंदूर, कारमेलाराम पोस्ट वारथूर, होबली, बंगलौर - 560 035	10	2014-2015 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
तमिलनाडु फार्म.डी. 725/50-140/2014-पी.सी.आई. श्री रामचन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी श्री रामचन्द्र यूनिवर्सिटी 1, रामचन्द्र नगर, पोन्नूर, चेन्नई - 600 116.	30	2008-2009 से 2018-2019 तक (फार्म.डी के लिए)	निबन्धक श्री रामचन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्वेषण संस्थान, (मानित विश्वविद्यालय) 1, रामचन्द्र नगर, पोन्नूर, चेन्नई - 600 116.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
फार्म.डी.(पी.बी.) 50-140/2014-पी.सी.आई. श्री रामचन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी श्री रामचन्द्र यूनिवर्सिटी 1, रामचन्द्र नगर, पोरूर, चेन्नई - 600 116. आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 728/17-581/2013-पी.सी.आई. रधवेन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अनंतपुर	10	2018-2019 तक (फार्म.डी (पीबी) के लिए)	
डिग्री 32-291/2011-पी.सी.आई. रधवेन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अनंतपुर आन्ध्र प्रदेश डिप्लोमा 729/17-541/2012-पी.सी.आई. नालंदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (पी.ओ.) चारलापल्ली, हैदराबाद रोड, नालगोण्डा - 508 001.	100	2016-2017	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद-500063.
डिग्री 32-166/2009-पी.सी.आई. नालंदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पी.ओ. चारलापल्ली, हैदराबाद रोड, नालगोण्डा - 508 001.	100	2015-2016	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
हरियाणा डिग्री 730/32-436/2007-पी.सी.आई. आर.के.एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बाला रोड, कैथल - 136 027.	60	2015-2016	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी. आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
	60	2016-2017	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
	60	2016-2017	निबन्धक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र - 136 119.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिप्लोमा 731/17-563/2012-पी.सी.आई. इदायाथानगुडी जी.एस. पिल्लै कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नागौर रोड, नागापट्टीनम - 611 002.	60	2016-2017	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड किल्पोक, चेन्नई - 600 010.
डिग्री 32-242/2010-पी.सी.आई. इदायाथानगुडी जी.एस. पिल्लै कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नागौर रोड, नागापट्टीनम - 611 002.	60	2016-2017	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40),पी. बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 733/17-958/2014-पी.सी.आई. शक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज-दुल्हनपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर - 271 201.	60	2017-2018	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226 001.
डिग्री 32-451/2014-पी.सी.आई. शक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज-दुल्हनपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर - 271 201.	60	2017-2018	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ-226021.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 734/17-987/2014 - पी.सी. आई. स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत,दिल्ली रोड़ (एन एच-24), मुरादाबाद - 244 102.	60	2011-2012 से 2014-2015 तक	निबन्धक आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, मुरादाबाद लोधीपुर-राजपुर, दिल्ली रोड़ (एन एच-24), मुरादाबाद - 244 102.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
डिग्री 32-218/2012-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल सांईसिज, आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड़ (एन एच-24), मुरादाबाद - 244 102.	100	2014-2015 सत्र तक पहले से ही अनुमोदित	निबन्धक आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, मुरादाबाद लोधीपुर-राजपुर, दिल्ली रोड़ (एन एच-24), मुरादाबाद - 244 102.
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 735/17-551/2010-पी.सी.आई. गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटैकनिक, रसूलाबाद क्रोसिंग तेलियारगंज, इलाहाबाद - 211 004.	40	2014-2015	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चौराहा, लखनऊ - 226 001.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 736/32-700/2013-पी.सी.आई. डॉ० के०वी० सुभा रेड्डी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ऑपोजिट डूपाडू रेलवे स्टेशन, एन एच - 7, लक्ष्मीपुरम पोस्ट, कुरनूल - 518 218.	60	2015-2016	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर हैदराबाद - 515 002.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 737/32-793/2013(ए)-पी.सी. आई. सम्स्कृति कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोण्डापुर (वी), घाटकेसर (एम) आर.आर. डिस्ट्रिक्ट	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर हैदराबाद - 500 085
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 738/32-492/2013-पी.सी.आई. श्री इन्दु इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शेरीगुडा विलेज इब्राहिमपट्टनम मण्डल रंगा रेड्डी	100	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 740/32-676/2012-पी.सी.आई. ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी सर्वे नम्बर 179/195, चिलकूर (वी), मोईनाबाद (एम) आर.आर. डिस्ट्रिक्ट	60	2007-2008 से 2014-2015 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 085.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 741/32-493/2012-पी.सी.आई. अवनथी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, चेरुकपल्ली (वी) भोगापुरम (एम) विजियाग्राम (डिस्ट्रिक्ट)	100	2016-2017	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकिनाडा – 533 003.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 742/32-817/2013-पी.सी.आई. प्रिंसटोन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोरेमुला (वी) घाटकेशर (एम), आर.आर. डिस्ट्रिक्ट – 501 301.	100	2014-2015	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद – 500 085
उत्तर प्रदेश डिग्री 745/32-274/2014-पी.सी.आई. एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड वोकेशनल स्टैडिज, भोपा रोड, मुज़फ्फरनगर – 251 001.	60	2014-2015	निबन्धक, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (पहले उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय), आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ – 260 021.
उत्तर प्रदेश डिग्री 746/32-237/2014-पी.सी.आई. रमेश-ईश इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एण्ड टैकनीकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट, 3, नॉलीज पार्क-I, कासना रोड, ग्रेटर नोयडा, गौतम बुद्ध नगर – 201 306.	100	2014-2015	निबन्धक, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, सी – 22, सैक्टर – 62, नोएडा – 201 301.
आन्ध्र प्रदेश डिग्री 748/32-685/2013-पी.सी.आई. ओमेगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सर्वे नम्बर नम्बर 7, इडुलाबाद विलेज, घाटकेसर मण्डल, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट – 501 301.	60	2014-2015	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडु डिग्री 749/32-429/2011-पी.सी.आई. आदि भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी रंथम विलेज, चैय्यार टू आर्कोट रोड, चैय्यार ताल्लुक, थिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट-604407.	60	2014-2015	निबंधक, दी तमिलनाडु डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40),पी. बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
आन्ध्र प्रदेश फार्म.डी 751/50-256/2014-पी.सी.आई. भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी, मंगलपल्ली (वी), इब्राहिमपट्टनम (मण्डल), रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट - 501510.	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी.के लिए)	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-256/2014-पी.सी.आई. भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी, मंगलपल्ली (वी), इब्राहिमपट्टनम (मण्डल), रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट - 501 510.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी (पी.बी) के लिए)	
कर्नाटक फार्म.डी. 752/50-121/2014-पी.सी.आई. बी.वी.वी.एस. हंगल श्री कुमारेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बागलकोट एण्ड बी.वी. वी.एस. ओल्ड कैम्पस, बागलकोट - 587 101.	30	2008-2009 से 2014-2015 तक (फार्म.डी. के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
फार्म.डी.(पी.बी.) 50-121/2014-पी.सी.आई. बी.वी.वी.एस. हंगल श्री कुमारेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बागलकोट एण्ड बी.वी. वी.एस. ओल्ड कैम्पस, बागलकोट - 587 101.	10	2014-2015 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक फार्म.डी. 753/50-52/2014-पी.सी.आई. विश्वेश्वरापुरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, 22 मेन, 24 क्रॉस, ऑपोजिट बी.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, बी.एस.के. सेकण्ड स्टेज, बंगलौर - 560 070.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी. के लिए)	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
फार्म.डी.(पी.बी.) विश्वेश्वरापुरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, 22 मेन, 24 क्रॉस, ऑपोजिट बी.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, बी.एस.के. सेकण्ड स्टेज, बंगलौर - 560 070.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	
तमिलनाडु फार्म.डी. 754/50-89/2013-पी.सी.आई. वेल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, टैकनोलॉजी एण्ड एडवांस्ड स्टैडिज (वी.आई.एस.टी.ए.एस.), वेलान नगर, पी.वी. वैथियालिंगम रोड, पल्लावरम, चेन्नई - 600 117.	30	2008-2009 से 2016-2017 तक (फार्म.डी. के लिए)	निबंधक, वेल्स विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ फार्म. साइंस, वेलान नगर, पी.वी. वैथियालिंगम रोड, पल्लावरम, चेन्नई - 600 117.
फार्म.डी (पी.बी.) 50-89/2013-पी.सी.आई. वेल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, टैकनोलॉजी एण्ड एडवांस्ड स्टैडिज (वी.आई.एस.टी.ए.एस.), वेलान नगर, पी.वी. वैथियालिंगम रोड, पल्लावरम, चेन्नई - 600 117.	10	2016-2017 तक (फार्म.डी. (पी.बी.) के लिए)	

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा, डिग्री एवं फार्म.डी (पी.बी.) परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

अर्चना मुदगल
निबन्धक-एवं-सचिव

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
New Delhi – 110 002, the 9th July 2014

Ref.No.17-1/2014-PCI/19558—727—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its –

– 95th Central Council meeting held on 12th & 13th May, 2014.

DIPLOMA, DEGREE, PHARM.D AND PHARM.D(PB) IN PHARMACY

Resolution No.95/PCI/1426

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma, Degree, Pharm.D and Pharm.D (PB) course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma, Degree, Pharm.D and Pharm.D (PB) course in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:—

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited To	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-7 Diploma IR No. 12th (Sept.,2013)	GUJARAT 17-199/2012-PCI Dr. Dayaram Patel Pharmacy College, Sarder Baug, Bardoli-394601 Dist. Surat.	60	2015-2016	The Registrar Gujarat Technological University, L.D. College of Engineering Campus, 2nd Floor, ACPC Building, Navrangpura, Ahmedabad - 380 015
Item No.-9 Diploma IR No.9th (Sept.,2013)	TAMIL NADU 17-554/2011-PCI Venkateswara College of Pharmacy, Chennai Main Road, Anaikaral – 612 502 Thanjavur Disst.	60	2015-2016	The Director Dte. of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk, Chennai – 600 010.
Item No.-10 Diploma IR No.13th (Sept.,2013)	TAMIL NADU 17-310/2006-PCI C.S. Jain College of Pharmacy,Chidambaram Road, Thethampet- Srimushnam, Cuddalore Dt.	60	2014-2015	The Director Dte. of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk, Chennai – 600 010.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited To	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-11 Diploma IR No.22nd (Sept.,2013)	UTTAR PRADESH 17-13/2012-PCI G.S.V.M. Medical College, Swaroop Nagar, P.O. Kanpur - 208 002.	60	2014-2015	The Secretary, U.P. State Medical Faculty, 5 Sarvapally Mall Avenue Road Lucknow - 226 001.
Item No.-14 Degree IR No.3rd Surprise (Aug.,2013)	GUJARAT 32-914/2012-PCI R.H. Patel College of Pharmacy, R.H. Patel Education Campus, Christipura, At & P.O. Dahemi, Ta. Borsad, Distt. Anand	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Gujarat Technological University, L.D. College of Engineering Campus, 2nd Floor, ACPC Building, Navrangpura, Ahmedabad - 380 015
Item No.-20 Diploma IR No.16th (Aug.,2013)	MAHARASHTRA 17-208/2010-PCI S.P.Mandal 's Institute of Pharmacy, Wani L.T.M.V. Campus, Wani - 445 304, Distt. Yavatmal.	60	2015-2016	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Item No.-23 Degree IR No.2nd Surprise (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-972/2011-PCI Bellamkonda Institute of Technology & Sciences B. Pharmacy College, Village: Kambhalapadu, Mandal Podili - 523 240 Distt. Prakasam.	60	From 2008-2009 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, Hyderabad - 533 003.
Item No.-24 Degree IR No.2nd (Aug.,2013)	HARYANA 32-1071/2013-PCI Manav Institute of Pharmacy. VPO Jevra Barwala Road Hissar.	60	From 2007-2008 to 2014-2015	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak.
Item No.-27 Degree IR No.7th (Aug.,2013)	MADHYA PRADESH 32-286/2013-PCI GRY Institute of Pharmacy, Vidya Vihar, Borawan, Khargone - 451 228.	100	2014-2015	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited To	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-28 Degree IR No.7th (Sept.,2013)	PUNJAB 32-357/2013-PCI Shivalik College of Pharmacy, Nangal, Distt. Ropar – 140 126.	60 (Raise in admissions from 40 to 60 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2014-2015 a.s.	The Registrar Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Byepass, G.T. Road, Ladowali Road, Jalandhar – 144 001.
Item No.-29 Degree IR No.2nd Surprise (Aug.,2013)	RAJASTHAN 32-1077/2013-PCI Siddhi Vinayak College of Science & Hr. Education (Pharmacy Division), E-1, B-1, M.I.A. (Ext.), Alwar – 301 030.	60	From 2008-2009 to 2014-2015	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur – 302 033.
Item No.-32 Diploma IR No.4th (Aug.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-870/2012-PCI Balaji Institute of Pharmacy, Lakhnepally (V), Narsampet (M), Warangal – 506 331.	60	2014-2015	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.3rd (Aug.,2013)	32-584/2012-PCI Balaji Institute of Pharmacy, Lakhnepally (V), Narsampet (M), Warangal – 506 331.	60	2014-2015	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri–506 009.
Item No.-33 and 744 Diploma IR No.2nd (Aug.,2013) And 3rd visit dt.Nov/Dec.,2013 of inspectors in degree course.	RAJASTHAN 17-980/2012-PCI Faculty of Pharmaceutical Sciences Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Vedant Gyan Vally, Village-Jharna, Mahala-Jobner Link Road, NH-8, Jaipur – 303 007.	60	For 2012-2013 admitted batch only (diploma course closed from 2013-2014 a.s.)	The Controller of Examination Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Vedant Gyan Vally, Village-Jharna, Mahala-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way NH-8, Jaipur – 303 007.
Item No.-34 & 713 Degree IR No.3rd (Aug., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-763/2013-PCI Geethanjali College of Pharmacy, Sy. No. 31, Cheeryal (V), Keesar (M), RR Distt. – 501 301.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-35 & 660 Degree IR No.5th (Feb-March, 2014)	GUJARAT 32-724/2011-PCI R.B. Patel Mahila Pharmacy College Kailashnagar, Atkot- 360 040 Tal: Jasdan, Distt. Rajkot.	60	2014-2015	The Registrar Gujarat Technological University, L.D. College of Engineering Campus, 2nd Floor, ACPC Building, Navrangpura, Ahmedabad - 380 015.
Item No.-37 Degree IR No.2nd (Aug.,2013)	ORISSA 32-933/2010-PCI Hi-Tech College of Pharmacy, Hi-Tech Medical College & Hospital Campus, At- Pandara, Po-Rasulgarh, Bhubaneswar.	60	From 2009- 2010 to 2014-2015	The Registrar Biju Patnaik University of Technology Rourkela – 769 014.
Item No.-40 Degree IR No.2nd Surprise (Aug.,2013)	UTTAR PRADESH 32-1052/2011-PCI The Saraswati Higher Education & Technical College of Pharmacy, Varanasi, Vill-Gahani, P.O. Ayer Varanasi.	60	From 2007- 2008 to 2014-2015	The Registrar Gautam Buddha University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 260 021.
Item No.-41 Degree IR No.4th (Sept.,2013)	UTTARAKHAND 32-730/2013-PCI Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Ayurved and Medical Sciences, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya Haridwar – 249 404.	60	2015-2016	The Registrar Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar – 249 404
Item No.-45 Diploma IR No.15th (Aug. & Sept.,2013)	MAHARASHTRA 17-98/2011-PCI Geetadevi Khandelwal Institute of Pharmacy Godbole Plots Dabki Road, Akola – 444 002.	60	2014-2015	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-46 Diploma IR No.14th (Aug.,2013)	MAHARASHTRA 17-186/2011-PCI Institute of Pharmaceutical Education and Research, Borgaon (Meghe), Wardha – 442 001.	60	2014-2015	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Degree IR No.7th (Aug.,2013)	32-32/2005-PCI Institute of Pharmaceutical Education and Research, Borgaon (Meghe), Wardha – 442 001.	60	2014-2015	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj Administrative Premises Ravindranath Tagore Marg, Nagpur – 440 106.
Item No.-48 Degree IR No.3rd Surprise (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-678/2013-PCI Sri Sarada College of Pharmacy, Anantharam (V), Bhongir (M) - 508 116.	60	From 2007- 2008 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad– 500 085.
Item No.-50 Degree IR No.4th (Oct.,2013)	GUJARAT 32-431/2012-PCI Ramanbhai Patel College of Pharmacy, (Charotar Institute of Pharmacy), At & Post : Changa – 388 421, Ta : Petlad, Distt. Anand.	100	2015-2016	The Registrar Gujarat Technological University 2nd Floor, ACPC Building L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura, Ahmedabad – 380 015. (upto 2011-2012) The Registrar Charotar University of Science and Technology Charusat Campus At & Post : Change-388421 Ta : Petlad, Distt. Anand, (from -13.9.2012 onwards)
Item No.-53 Degree IR No.6th Surprise (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-485/2012-PCI Safa College of Pharmacy B.Tandrapadu, KNL-NDL Highway, Kurnool - 518 002.	45	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad– 500 072.

tem No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-54 Degree IR No.3rd (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-548/2012-PCI Nova College of Pharmacy, Vegavaram, Jangareddiguden Mandal, W.G. Distt- 534 447	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.-55 Degree IR No.4th (Feb.,2013)	KARNATAKA 32-489/2013-PCI Mallige College of Pharmacy, # 71, Silvepura, Chikkabanavara Post, Bangalore – 560 090.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-64 Diploma IR No.5th (Oct.,2013)	PUNJAB 17-717/2012-PCI Lala Lajpat Rai College of Pharmacy Moga-Ferozepur G.T. Road Near P.S. Sadar, Moga – 142 001	60	2014-2015	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial training Plot No.1 – A, Sector 36-A, Chandigarh
Degree IR No.3rd (Oct.,2013)	32-702/2012-PCI Lala Lajpat Rai College of Pharmacy Moga-Ferozepur G.T. Road Near P.S. Sadar, Moga – 142 001	60	2014-2015	The Registrar Punjab Technical University Jalandhar-Kapurthala Highway Near Science City Kapurthala.
Item No.-65 Degree IR No.3rd Surprise (Sept.,2013)	MADHYA PRADESH 32-820/2013-PCI Shri Ram Institute of Pharmacy, ITI Madhotal Jabalpur.	60	From 2009- 2010 to 2014-2015	The Secretary, Rajiv Gandhi Proudtyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
Item No.-66 Degree IR No.3rd Surprise (Sept.,2013)	MADHYA PRADESH 32-795/2013-PCI Shri Ram Group of Institution Faculty of Pharmacy Near – ITI Madhotal, Jabalpur – 482 002.	60	From 2009- 2010 to 2014-2015	The Secretary, Rajiv Gandhi Proudtyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-67 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	HIMACHAL PRADESH 32-630/2013-PCI Laureate Institute of Pharmacy, V.P.O. Kathog, Teh. Dehra, Distt. Kangra.	60	2015-2016	The Registrar (Academics) Himachal Pradesh Technical University Gandhi Chowk, Hamirpur Distt. Hamirpur – 177 001.
Item No.-68 Degree IR No.4th (Oct., 2013)	UTTAR PRADESH 32-367/2012-PCI KIET School of Pharmacy, 13 KM stone, Ghaziabad- Meerut Road, Ghaziabad- 201 006	60 100 Subject to neutralization of 38 excess admissions made during 2010-2011 in maximum next three academic sessions within the approved intake	Upto 2011- 2012 From 2012- 2013 to 2014- 2015	The Registrar Gautam Buddha University (Formerly known as) Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 260 021.
Item No.-73 Degree IR No.4th Surprise (Oct.,2013)	RAJASTHAN 32-585/2013(A)-PCI Vidyasthali Institute of Technology Sciences and Management, Prithviraj Nagar, Maharani Farm, Durgapura Jaipur – 302 018.	60	2014-2015	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-18 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003
Item No.-83 Diploma IR No.10th (Nov., 2013)	HIMACHAL PRADESH 17-301/2013-PCI Govt. Polytechnic College, Rohru, Distt. Shimla – 173 215	40	2015-2016	The Registrar H.P. Takniki Shiksha Board, 287 – Civil Lines, Dharmshala Distt. Kangra – 176 215.
Item No.-84 Diploma IR No.7th (Nov.,2013)	PUNJAB 17-12/2013-PCI Dept. of Pharmacy, Govt. Medical College Patiala - 147 001.	60	2015-2016	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial training Plot No.1 – A, Sector 36-A, Chandigarh
Item No.-86 Degree IR No.3rd Surprise (Oct.,2013)	HIMACHAL PRADESH 32-633/2013-PCI Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, P.O. Dumehar Bani Kandaghat, Distt. Solan – 173 215.	60	From 2008- 2009 to 2013-2014	The Vice Chancellor Jaypee University of Information Technology Waknaghat, P.O. Dumehar Bani Kandaghat Distt. Solan – 173 215.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session				Name of the Examining Authority
Item No.-93 Diploma	DELHI 17-526/2009- PCI Aditya Institute of Technology, 107/9 Krishangarh, Vasant Kiraj, Kunj, New Delhi-110070	-	It was decided to grant approval to the D.Pharm course and examination u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948 for 2008-2009 & 2009-2010 academic session admitted batch only without citing a precedence for the under mentioned students - Session 2008-2009				The Registrar Board of Technical Education Govt. of Delhi Muni Maya Ram Marg Prem Bari Pul Near Pitam Pura T.V. Tower Delhi-110088.
		13 for 2008- 2009 admitted batch	S.No	NAME	FATHER’S NAME	REGD. NO.	
			1	Ajay Kumar	Sh. Radhey Shyam Sharma	289850	
			2	Arun Kumar	Sh. Rajdeo Ray	289851	
			3	Charu Chandra	Sh. Ishwari Datt	289852	
			4	Deepak Sharma	Sh. Sudish Sharma	289853	
			5	Dinesh Rawat	Sh. Prithvi Pal Singh Rawat	289854	
			6	Kuldeep Singh Lodhi	Sh. Jawahar Singh Lodhi	289857	
			7	Manoj Rawat	Sh. Gopal Singh Rawat	289859	
			8	Mukesh Kumar Saini	Sh. Jai Prakash Saini	289860	
			9	Pradeep Singh Bisht	Sh. Dabbal Singh	289861	
			10	Shaivi Parashare	Sh. Braham Dutt Parashares	289863	
			11	Shashank Sharma	Sh. Shyam Sharma	289864	
			12	Sumer Singh	Sh. Ganpat Ram	289865	
			13	Pitamber Pandey	Sh. Vrbadutt	289862	
			Session 2009-2010				
		8 for 2009-2010 admitted batch	S.No	NAME	FATHER’S NAME	REGD. NO.	
			1	Arun Kumar Yadav	Sh. Naresh Kumar Yadav	299850	
			2	Dheerendra Singh	Sh. Sachchidanand Singh	299851	
			3	Naveen	Sh. Krishan	299853	
			4	Nishara	Sh. Sirajuddin	299854	
			5	Rahul Kumar Verma	Sh. Satish Kr. Verma	299855	
			6	Sachin Pandey	Sh. Sh. Ravish Pandey	299856	
			7	Shabuddin	Sh. Nizamuddin	299857	
			8	Swarandeep Singh	Sh. Balwant Kour	299858	
* Subject to clarification from the Board of Technical Education and institution regarding Father’s name.							

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-97 Degree IR No.4th (April,2013)	HARYANA 32-335/2013-PCI B.S. Anangpuria Institute of Pharmacy Alampur, Ballabgarh-Sohna Road Faridabad – 121 004	60 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2015-2016 a.s.	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak – 124 001
Item No.-98 Degree IR No.3rd surprise (Nov,2013)	MADHYA PRADESH 32-991/2011-PCI Nagaji Institute of Pharmaceutical Science, Thakur Baba Campus, Jhansi Road, Gwalior	60	From 2006- 2007 to 2013- 2014	The Secretary, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
Item No.- 102 Diploma IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-705/2011-PCI K. Chandrakala & Beelam Konda Venkateswarlu, College of Pharmacy, Burripalem Road, Nelapadu, Tenali- 522 201.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.- 103 Diploma IR No.16th (Nov.,2013)	HARYANA 17-233/2011-PCI Gandhi College of Pharmacy G.T. Road Bye Pass Karnal - 132 001.	120	2016-2017	The Director State Board of Technical Education Haryana, SDO No.38-39 Sector 17-A Chandigarh – 160 017.
Item No.- 104 Degree IR No.4th (Nov.,2012)	ANDHRA PRADESH 32-800/2012-PCI Sri Sivani College of Pharmacy, Chilakapalem jn. Etcherla (M), Srikakulam Distt. —532 402.	60	2014-2015 subject to neutralization of 27 excess admissions made during 2010-2011 and 2012-2013 academic session within sanctioned intake of 60 admissions during 2014-2015 academic session.	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 105 Degree IR No.3rd (Sept., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-809/2013-PCI Gland Institute of Pharmaceutical Sciences, Shangri-La, Kothapet, Sy. No.551, Sivampet (M), Medak (Dist).	60 100 Subject to neutralization of 22 excess admissions made during 2012-2013 in maximum three future academic sessions within the approved intake.	Upto 2012- 2013 From 2013-2014 to 2014- 2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 106 Degree IR No.6th (Nov., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-391/2013-PCI Srikrupa Institute of Pharmaceutical Sciences, Vill; Velkatta; Mdl: Kondapak; Siddipet; Distt. Medak – 502 277.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Osmania University Adikmet Hyderabad – 500 007.
Item No.- 107 Degree IR No.3rd (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-1040/2013-PCI Prathap Narender Reddy College of Pharmacy, H.No - 1-117 & 1-118, Peddashapur (Vill, Shamashabad (Mandal) Rangareddy Distt-509-325.	60	From 2007- 2008 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 108 Degree IR No.3rd (July, 2013)	KARNATAKA 32-561/2010-PCI East Point College of Pharmacy, # 147, Bidarahalli, Virgonagar Post, Bangalore – 560 049.	60	2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 110 Diploma IR No.5th (Dec.,2013)	HARYANA 17-701/2010-PCI Bharat Institute of Pharmacy, VPO, Pehladpur, Babain, Kurukshetra.	60	2015-2016	The Registrar State Board of Tech. Education, S.C.O No. 38-39 Sector- 17-A Chandigarh – 160 017

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-111 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	HARYANA 17-901/2010-PCI Tiruati College of Polytechnic and Pharmacy, Ratia-Sardulgarh Road, Near Govt. K.T. College Distt. Fatehabad Ratia – 125 051.	60	2016-2017	The Registrar State Board of Tech. Education, Haryana, S.C.O No. 38-39 Sector- 17-A Chandigarh – 160 017
Item No.-112 Diploma IR No.8th (Nov.,2013)	HARYANA 17-579/2011-PCI Shri Sanatan Dharam Institute of Pharmacy & Medical Technology, Near Gaushala, Jhajjar – 124 103.	60	2016-2017	The Director State Board of Tech. Education, Haryana, S.C.O No. 38-39 Sector- 17-A Chandigarh – 160 017
Item No.-113 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-930 /2010-PCI Jan Kalyan Institute of Technical Education, E-100, 101, UPSIDC Area, Near Umra Tiraha, Kursi Road, Lucknow.	60	2014-2015	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg Lucknow – 226 001.
Item No.-114 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-937 /2010-PCI Billah College of Pharmacy Managed by Fiza Education Society (Regd) Mohan Kuti, Maman Road, Bulandshahr – 203 001.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg Lucknow – 226 001.
Item No.-115 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTARAKHAND 17-914/2009-PCI Sunrise Academy Management Society Opp. Deal, Raipur Road, Dehradun – 248 001.	60	2016-2017	The Secretary Uttarakhand Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 776. Haridwar.
Item No.- 116 Degree IR No.2nd Surprise (July, 2013)	ANDHRA PRADESH 32-970/2012-PCI SVS Institute of Pharmacy, Bheemaram (V) Hasanparthy (M), Warangal.	60	For 2008-2009 and 2009-2010	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Hanamkonda - 506 009.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 117 Degree IR No.3rd (May, 2013)	ANDHRA PRADESH 32-812/2012(A)-PCI Swami Ramananda Tirtha Institute of Pharmaceutical Science, Nalgonda, Ramananda Nagar, Cherla Gowraram (V), SLBC (Post), Nalgonda.	60 100 Subject to neutralization of 41 excess admissions made during 2010-2011 & 2011-2012 in maximum three future academic sessions within the approved intake.	Upto 2011- 2012 From 2012-2013 to 2014- 2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 118 Degree IR No.5th (Nov.,2013)	HIMACHAL PRADESH 32-339/2010-PCI Govt. College of Pharmacy, Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla – 171 207.	60	2014-2015	The Registrar Himachal Pradesh Technical University Hamirpur Shimla – 177 001.
Item No.- 119 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-437/2013-PCI University Institute of Pharmacy, C.S.J.M. University, Kalyanpur, Kanpur.	60	2014-2015	The Registrar Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kalyanpur Kanpur – 208 024.
Item No.- 120 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-403/2010-PCI Pranveer Singh Institute of Technology, 548, Bhauti, Kalpi Road, Kanpur – 208 005.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.- 121 Diploma IR No.18th (Nov.,2013)	HARYANA 17-81/2011-PCI Hindu College of Pharmacy Gohana Road, Near Panchayat Bhawan, Sonapat – 131 001.	60	2016-2017	The Director State Board of Tech. Education, Haryana, S.C.O No. 38-39 Sector- 17-A Chandigarh – 160 017
Degree IR No.7th (Nov.,2013)	32-184/2010-PCI Hindu College of Pharmacy Gohana Road, Near Panchayat Bhawan, Sonapat – 131 001.	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 122 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-1002/2012-PCI Seshachala College of Pharmacy, Tirupati – Chennai Highway, Puttur – 517 583 Chittoor Distt.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 123 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-691/2013-PCI Venkateshwara Institute of Pharmaceutical Sciences, Vill. and Post: Charlapally, Mandal and Distt. Nalgonda 508 001.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 124 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-628/2011-PCI Victoria College of Pharmacy, Ankireddypalem (Village), Chaliavaripalem (Panchayat), Guntur Rural, Guntur – 522 005.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 125 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-538/2012-PCI Anwarul Uloom College of Pharmacy, 11-3-918, New Mallepally, Hyderabad – 500 001.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 515 002.
Item No.- 126 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-545/2013-PCI SIMS College of Pharmacy, Mangaladas Nagar, Guntur – 522 001.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 129 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-808/2011-PCI Lydia College of Pharmacy, NH – 5, Ethakota, Ravulapalem.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 063.
Item No.- 131 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-537/2011-PCI St Ann's College of Pharmacy, Cantonment, Vizianagaram - 535 003.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 003.
Item No.- 132 Degree IR No.6th (Nov.,2013)	HARYANA 32-401/2013-PCI Jan Nayak Ch. Devi Lal Memorial College of Pharmacy, Post Box No.81, Barnala Road, Sirsa – 125 055.	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.- 133 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	HARYANA 32-803/2013-PCI PDM School of Pharmacy, Vill. Karsindhu, Safidon, Distt. Jind – 126 112.	60	2016-2017	The Registrar Kurukshetra University Kurukshetra – 136 119.
Item No.- 134 Degree IR No.6th (Nov.,2013)	HARYANA 32-177/2009-PCI Department of Pharmaceutical Science, Maharshi Dayanand University, Rohtak – 124 001.	60	2016-2017	The Registrar Maharshi Dayanand University Rohtak – 124 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 135 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	HARYANA 32-748/2013-PCI Advanced Institute of Pharmacy, 70km., Delhi-Mathura, Village Aurangabad, Palwal – 121 105.	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.- 136 Diploma IR No.20th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-93/2011-PCI K.R.E. Society's M.H. Goel Institute of Pharmacy, P.B. No. 53, Manhalli Road, Bidar - 585 403.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 137 Diploma IR No.6th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-242/2011-PCI Sri Subramanya Swamy College of Pharmacy, # 20, 20th Cross, 60 Ft. Main Road, Malagala, Nagrabhavi 2nd Stage, Vishwaneedam (Post), Bangalore- 560 091.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 138 Diploma IR No.11th (Nov., 2013)	KARNATAKA 17-356/2010-PCI Tipu Sultan College of Pharmacy Millat Nagar, Ring Road, P.B.No.99 Gulbarga – 585 104.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 139 Diploma IR No.8th (Nov.-Dec., 2013)	KARNATAKA 17-431/2012-PCI S.B.D. Institute of Pharmacy, I Cross, Hanumanthanagar – 560 019.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 140 Diploma IR No.5th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-763/2006-PCI Mayur College of Pharmacy, Behind Sadhana Building, R.T. Nagar, Tumkur – 572 101	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 141 Diploma IR No.8th (Nov., 2013)	KARNATAKA 17-440/2012-PCI East West College of Pharmacy, #63, 1 Phase, B.E.L. Layout, Bharathnagar, Vishwaneedam Post, Off Magadi Road, Bangalore – 560 091.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 142 Diploma IR No.9th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-454/2009-PCI S.G. Education Trust's, G.M. College of Pharmacy, Widia Nagar Town Ship, Neelamangala Bye-Pass Road, Bangalore – 562 123.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 143 Diploma IR No.8th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-457/2012-PCI Sye Society' Sri Siddalingeshwar College of Pharmacy, Naubad, Bidar – 585 402.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 144 Diploma IR No.11th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-321/2012-PCI National College of Pharmacy, M.T.H. Road, Thiruninravur - 602 024.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 145 Diploma IR No.7th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-566/2011-PCI Sri Ramachandra College of Pharmacy, Somanathar Kovil St. Vedaraniam – 614 810 Distt. Nagapattinam.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 146 Diploma IR No.9th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-415/2012-PCI College of Allied Medical Sciences 3, Jagajeevan Ram Street, Shenoy Nagar, Madurai – 625 020.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 147 Diploma IR No.16th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-312/2011-PCI K.M.R. College of Pharmacy, Post Box No. 25 Erode Road, Perundurai - 638 052 Erode.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 148 Diploma IR No.13th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-316/2002-PCI Antarctica College of Pharmacy, High Ground Road Palayamkottai Tirunelveli – 627 002.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 149 Diploma IR No.15th (Dec., 2013)	UTTARAKHAND 17-114/2011-PCI Govt. Polytechnic, Shimla by pass Road, Pithowala, Dehradun – 248 001.	40	2016-2017	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Haridwar.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 150 Diploma IR No.3rd (Nov.,2013)	UTTARAKHAND 17-950/2012-PCI Siddhartha Institute of Pharmacy, Dobachi Danda-Khudanewala Near-I.T. Park, Shastradhara Road, Dehradun – 248 001.	60	2016-2017	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 137/3, Civil Lines, Roorkee – 247 667
Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	32-939/2010-PCI Siddhartha Institute of Pharmacy, Dobachi Danda-Khudanewala Near-I.T. Park, Shastradhara Road, Dehradun – 248 001.	60	2016-2017	The Registrar Uttarakhand Technical University Govt. Girls Polytechnic, Sudho Wala via Prem Nagar Dehradun – 248 001.
Item No.- 151 Degree IR No.2nd (Dec.,2013)	HIMACHAL PRADESH 32-1098/2013-PCI Himachal Institute of Pharmaceutical Education & Research, (HIPER), V.P.O. Bela, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur–177 033.	60	From 2008- 2009 to 2014- 2015	The Registrar Himachal Pradesh University Summer Hills Shimla – 177 005. The Registrar Himachal Pradesh Technology University, Gandhi Chowk,Hamirpur, Himachal Pradesh.
Item No.- 152 Degree IR No.5th (March, 2013)	KARNATAKA 32-302/2013-PCI T. John College of Pharmacy, 88/1, Gottigere, P.O. Bannerghatta Road, Bangalore - 560 083.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2012-2013 a.s.)	2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 153 Degree IR No.3rd (Nov., 2013)	KARNATAKA 32-665/2013-PCI Sri Raghavendra College of Pharmacy No 57, Chimny Hills, Chikkabanawara Post Hesaragatta Main Road Bangalore – 560 090.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-154 Degree IR No.4th (Dec., 2013)	PUNJAB 32-443/2014-PCI CT Institute of Pharmaceutical Sciences, Village Shahpur, P.O. Udopur, Via Jamsher Khas, Distt. Jalandhar-144 020.	60	2016-2017	The Registrar Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Byepass, G.T. Road, Ladowali Road, Jalandhar – 144 001
Item No.-155 Degree IR No.7th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-125/2013-PCI Dr. K.N. Modi Institute of Pharmaceutical Education & Research, Opp. S.B.I. Main Branch, N.H-58 Modi Textile Mills Compound, Modinagar - 201 201 Distt. Ghaziabad.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-156 Diploma IR No.3rd (Nov.,2013)	HIMACHAL PRADESH 17-977/2012-PCI Department of Pharmacy, Manav Bharti University, Village Laddo, V.P.O. Sultanpur, Kumarhatti, Distt.Solan - 173 229.	60	2016-2017	The Vice Chancellor Manav Bharti University Village Laddo, VPO Sultanpur Kumarhatti Distt. Solan - 173 229.
Item No.-157 Diploma IR No.20th (Dec.,2012)	HARYANA 17-45/2002-PCI Kalpana Chawla Govt. Polytechnic for Women, Ambala City - 134 003.	45	2016-2017	The Member Secretary State Board of Technical Education, Haryana Panchkula Bays No.7-12, Sector – 04 Panchkula.
Item No.-159 Diploma IR No.10th (Nov.,2013)	ORISSA 17-384/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, Tamando, Bhubaneswar, Via – Janla, At : PO Tamando, Distt. Khurda - 752054.	60	2016-2017	The Member- Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-160 Diploma IR No.6th (Dec.,2013)	ORISSA 17-562/2014-PCI Maa Mangala College of Pharmaceutical Sciences, Ankura, Karanjia Distt.Mayurbhanj- 757 037.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Item No.-162 Diploma IR No.4th (Dec.,2013)	RAJASTHAN 17-770/2011-PCI Mahatma Gandhi School of Pharmacy, Near Mordī Textil Mill, Fatiya Chouraya, Timba Gambdi, Post – Badliya Banswara - 327 001.	60	2016-2017	The Member Secretary Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Item No.-163 Diploma IR No.15th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-313/2002-PCI Nadar Mahajana Sangam College of Pharmacy Mathar- Thiruvattar Distt. Kanyakumari – 529 177.	120	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.-164 Degree IR No.2nd Surprise (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-1103/2013-PCI Mother Theresa Educational Society Group of Institutions, Krishna Distt.	60	From 2010-2011 to 2013-2014	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada - 533 003.
Item No.-165 Degree IR No.2nd (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-1094/2012-PCI Chaitanya College of Pharmacy, Devarajugattu (V), Peddaraveedu (MD) Prakasam (Distt.)	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada – East Godavari.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-166 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	HARYANA 32-1085/2013-PCI Department of Pharmaceutical Education & Research (DPER) BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, South Campus, Bhainswal Kalan, Sonapat.	60	2016-2017	The Registrar Controller of Examination BPS Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Sonipat.
Item No.-167 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	HARYANA 32-1086/2013-PCI CH. Devi Lal College of Pharmacy, Bhagwargarh, Buria Road, Jagadhri Distt. Yamuna Nagar.	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.-168 Degree IR No.6th (Nov.,2013)	HARYANA 32-296/2004-PCI Rajendra Institute of Technology and Sciences 4th Mile Stone, Hisar Road, Bajekan, Sirsa.	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.-169 Degree IR No.5th (Nov., 2013)	KARNATAKA 32-322/2014-PCI Karavali College of Pharmacy, NH-13, Vamanjoor, Mangalore - 575 028.	100	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-171 Degree IR No.6th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-232/2013-PCI Department of Pharmaceutical Technology Meerut Institute of Engineering & Technology, Meerut Bypass, Baghpat Road Crossing, Meerut – 250 002.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-172 Degree IR No.4th (Oct.,2012)	UTTAR PRADESH 32-276/2011-PCI Agra Public Pharmacy College, Artoni, Agra – 282 007 (U.P.) (formerly known as Agra Public Institute of Technology & Computer Education, Artoni, Agra,10, Old Vijay Nagar Colony, Agra – 282 007)	60	2014-2015	The Registrar Mahamaya Technical University (Formerly - Uttar Pradesh Technical University), Sector – 62 Noida.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 173 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-742/2013-PCI Kanpur Institute of Technology & Pharmacy, A-1, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur – 208 001	60	From 2009- 2010 to 2014-2015	The Registrar, Gautam Buddh University (Formerly known as) Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.- 174 Diploma IR No.19th (Nov.,2013)	ORISSA 17-196/2014-PCI Siddeshwar College of Pharmaceutical Sciences, At/P.O. Amarda Road, Dist. Balasore – 756 030.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Item No.- 175 Diploma IR No.8th (Dec.,2013)	ORISSA 17-413/2006-PCI Mayurbhanj Medical Academy, At-Indapahi, P.O. Laxmiposi Baripada Distt. Mayurbhanj – 757107.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Item No.- 176 Diploma IR No.5th (Aug.,2013)	RAJASTHAN 17-643/2010-PCI Jodhpur National University Narnadi, Jhanwar Road, Jodhpur (Rajasthan) (formerly known as Jodhpur Pharmacy College) Vill – Narnadi Jhanwar Road, Boranada Jodhpur. 32-504/2012-PCI Jodhpur National University Narnadi, Jhanwar Road, Jodhpur (Rajasthan) (formerly known as Jodhpur Pharmacy College) Vill – Narnadi Jhanwar Road, Boranada Jodhpur.	60	2014-2015	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-17 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003 (Upto 2007-2008)
Degree IR No.3rd (Aug.,2013)		60	2014-2015	The Registrar Jodhpur National University Narnadi, Jhanwar Road Jodhpur. (Since 2008) The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-17 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003. (Upto 2007-2008) The Registrar Jodhpur National University Narnadi, Jhanwar Road Jodhpur. (Since 2008)

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 177 Diploma IR No.8th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-421/2011 PCI Mayor Radhakrishnan College of Pharmacy 5/3, Judge Bungalow Road, Cuddalore – 607 001.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 178 Diploma IR No.7th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-188/2010-PCI Coimbatore Medical College, Coimbatore - 641 014.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.- 179 Diploma IR No.3rd (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 17-973/2013-PCI Hind Institute of Medical Sciences, Near Minor Canal, Safedabad Railway Crossing, Faizabad Road, Barabanki.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Item No.- 180 Diploma IR No.2nd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-956/2012-PCI Doon Paramedical College & Hospital Vill-Ganeshpur, Post- Sunderpur Distt-Saharanpur.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Item No.- 181 Degree IR No.8th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-343/2013-PCI Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences, Chalapathi Nagar, Lam, Guntur - 522 034.	100	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 182 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-547/2011-PCI Bhaskar Pharmacy College, Yenkapally, Moinabad, R.R (Distt.) Hyderabad.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 183 Degree IR No.6th (May, 2013)	ANDHRA PRADESH 32-207/2013-PCI P. Rami Reddy Memorial College of Pharmacy, 1-35, Prakruthi Nagar, Kadapa – 516 003.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2012-2013 a.s.)	Already approved upto 2016-2017 a.s.	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur – 515 002.
Item No.- 184 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-765/2013-PCI Chilkur Balaji College of Pharmacy, R.V.S. Nagar, Aziz Nagar (Post), Moinabad Road, Near : AP Police Academy, Hyderabad – 500 075.	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 185 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-681/2012-PCI Gayatri Institute of Pharmaceutical Sciences and Research Center, Shadnagar, Mahabub Nagar Distt. 509 216.	60	2015-2016	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 186 Degree IR No.3rd (Dec., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-607/2013-PCI Sri Siddhartha Pharmacy College, Ammavarithota, Nuzvid, Krishna Distt.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 187 Degree IR No.3rd (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-792/2011-PCI St. ANN's College of Pharmacy, Naunipalli (Village), Vetapalam (Mandal) Chirala, Prakasam (Dist.)–523 187.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada – 533 003.
Item No.- 188 Degree IR No.4th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-671/2011-PCI Guru Nanak Institute of Pharmacy, Sagar Road, Ibrahimpatanam, R.R. Distt. – 501 506.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-189 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ORISSA 32-937/2014-PCI Institute of Medical Technology Pharmacy College, Sai Bihar, New Nabakalebar Road, Gopalpur, Puri – 752 002.	60	2015-2016	The Registrar Biju Pattanaik University of Technology Rourkela Camp at CET Kalinga Nagar Near Ghatika Berhampur – 760 003.
Item No.-190 Diploma IR No.15th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-257/2011-PCI V.E.S. College of Pharmacy Siddeswara Nagara: Ranebennur – 581 115.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.-191 Diploma IR No.7th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 17-576/2011-PCI Sree Krishna College of Pharmacy, Ko-Mangalam Village, Virudhachalam-Taluk Distt. Cuddalore-606 001.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Item No.-192 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-860/2010 PCI Doon College of Education, Village & P.O. Sunderpur, Dist. Saharanpur-247 662.	60	2016-2017	The Director Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Item No.-193 Diploma IR No.2nd (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 17-974/2014-PCI Institute of Paramedical Sciences & Research, Mahadev Campus, Sohramau, On Lucknow-Kanpur Highway, Unnao – 209 859.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-194 Degree IR No.3rd (Nov, 2013)	ANDHRA PRADESH 32-523/2011-PCI Sahasra Institute of Pharmaceutical Sciences, Post Vangapahad, Mdl: Hasanparthy, Mulugn Road, Near Ayyappa Swamy Temple, Distt. Warangal.	60	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyaपुरी Hanamkonda Warangal - 506 009.
Item No.-195 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-532/2012-PCI Nimra College of Pharmacy, Ibrahimpattam Vijayawada, Krishna Distt. 521456 Jupudi.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada - 533 003.
Item No.196 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-604/2011-PCI St. Peter's College of Pharmacy, Main Road, Madikonda, Warangal – 506 142.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-197 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-461/2013-PCI Nizam Institute of Pharmacy, Deshmukhi (V), Pochampally (M), Near – Ramoji Film City, Nalagonda.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-199 Degree IR No.9th (Dec.,2013)	ORISSA 32-71/2011-PCI Sri Jayadev College of Pharmaceutical Sciences AT/P.O. Naharkanta - 752 101 Bhubaneswar.	60	2016-2017	The Registrar Biju Patnaik University of Technology Rourkela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika Berhampur – 769 003.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 200 Degree IR No.8th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 32-164/2012-PCI Cherraan's College of Pharmacy, 521, Siruvani Main Road, Telungupalayam Pirivu, Coimbatore - 641 039.	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.- 201 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-732/2014-PCI Institute of Bio-Medical Education & Research (Deptt. of Pharmacy), Mangalayatan University, 33th Km Mile Stone, Aligarh-Mathura Highway, P.O.: Beswan, Aligarh.	60	2014-2015	The Registrar Mangalayatan University Extended NCR Aligarh – Mathura Highway Beswan Aligarh – 202 145.
Item No.- 202 Degree IR No.4th (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-854/2012-PCI Amity Institute of Pharmacy A-Block, Amity University, Uttar Pradesh, Sector - 125, Noida - 201 303.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Deputy Registrar Amity University, Amity Campus Post Box No.503, Noida Gautam Buddha Nagar.
Item No.- 203 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	UTTARAKHAND 32-484/2011-PCI GRD Institute of Management & Technology, 214, Raipur Road, Dehradun – 248 009.	60	2016-2017	The Registrar Uttarakhand Technology University A-12, Sarashwati Vihar Lower, Adhoiwala, P.O. Dalanwala Dehradun.
Item No.- 204 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTARAKHAND 32-521/2010-PCI DIT-Faculty of Pharmacy Mussoorie Diversion Road, Vill: Makkawala, P.O.: Bhagwantur, Dehradun.	60	2016-2017	The Registrar Uttarakhand Technology University A-12, Sarashwati Vihar Lower, Adhoiwala, P.O. Dalanwala Dehradun.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 205 Diploma IR No.5th (Dec.,2013) Degree	HARYANA 17-700/2013-PCI Swamy Devi Dayal Institute of Pharmacy, Village Gollpura, Tehsil Barwala Distt. Panchkula	60	2014-2015	The Secretary State Board of Tech. Education, Haryana, S.C.O No. 38-39 Sector- 17-A Chandigarh – 160 017
IR No.3rd (Dec.,2013)	32-740/2011-PCI Swamy Devi Dayal Institute of Pharmacy, Village Gollpura, Tehsil Barwala Distt. Panchkula	60	2014-2015	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.- 206 Diploma IR No.20th Surprise (Dec.,2013) Degree	KARNATAKA 17-109/2013-PCI PES College of Pharmacy, 50 Feet Road, Hanumanthanagar, Bangalore – 560 050	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
IR No.11th Surprise (Dec.,2013)	32-68/2012-PCI PES College of Pharmacy, 50 Feet Road, Hanumanthanagar, Bangalore – 560 050	100	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 207 Diploma IR No.5th (Dec.,2013)	KARNATAKA 17-571/2012-PCI Rani Chennamma College of Pharmacy Plot No.7/C, B.K. Kangrali Indsutrial Area, Bauxite Road, Vaibhav Nagar Belgaum – 590 010	60	2014-2015	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.5th (Dec.,2013)	32-452/2010-PCI Rani Chennamma College of Pharmacy Plot No.7/C, B.K. Kangrali Indsutrial Area, Bauxite Road, Vaibhav Nagar Belgaum – 590 010	60	2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 208 Diploma IR No.5th (Dec.,2013)	PUNJAB 17-748/2013-PCI S. Sukhjinder Singh College of Pharmacy, V.P.O. Hayat Nagar, Hardochhani Road, Gurdaspur, (Dec.,2013)	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh.
Item No.- 209 Diploma IR No.9th (Dec.,2013)	UTTARAKHAND 17-651/2013-PCI Gyani Inder Singh Institute of Professional Studies, Mussoorie Diversion Road, Opp. Malsi Deer Park, P.O. Sinola, Dehradun – 248 003.	60	2016-2017	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667. Haridwar.
Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	32-784/2013-PCI Gyani Inder Singh Institute of Professional Studies, Mussoorie Diversion Road, Opp. Malsi Deer Park, P.O. Sinola, Dehradun – 248 003.	60	2016-2017	The Registrar Uttarakhand Technical University A-12, Saraswati Vihar Lower Adhoiwala P.O. Dalanwala Dehradun.
Item No.- 210 Diploma IR No.7th (Jan., 2014)	WEST BENGAL 17-549/2010-PCI Cooch Behar Polytechnic Keshab Road, P.O & Cooch Behar – 736 101.	40	2016-2017	The Secretary West Bengal State Council for Tech. Education “Kolkata Karigori Bhavan” 2nd Floor, 110, S.N. Banerjee Road Kolkata – 700 013.
Item No.- 211 Degree IR No.5th (Dec., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-202/2011-PCI Sarojini Naidu Vanita Pharmacy Maha Vidyalaya, College for Women, Mukarramjahi Road, Exhibition Grounds, Hyderabad-500 001.	100	2016-2017	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 212 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-455/2013-PCI Care College of Pharmacy, Oglapur (V), Atmakur (M), Warangal Distt. – 506 006	100	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Hanamkonda Warangal - 506 009.
Item No.- 213 Degree IR No.5th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-641/2013-PCI Kakatiya Institute of Pharmaceutical Sciences, KITS Road, Pembarthy (V), Hasanpathy (M), Warangal Distt. – 506 371	60	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Hanamkonda Warangal - 506 009.
Item No.- 214 Degree IR No.4th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-718/2011-PCI MLR Institute of Pharmacy, Dundigal (V), Qthubullapur (Mandel) R.R. (Distt) - 500 043.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 215 Degree IR No.7th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-256/2012-PCI Bharat Institute of Technology, Mangalpalli Village, Ibrahimpatnam (Mandal), Distt. Ranga Reddy – 501 510	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 216 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-828/2011-PCI Jyothishmathi College of Pharmacy, P.O.: Turkapally, Shameerpet (M), Ranga Reddy District.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 217 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-799/2013-PCI Medarmetla Anjamma Mastan Rao College of Pharmacy, Kesanapalli, Narasaraopet (Mdl.), Guntur	100	2014-2015	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 218 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-495/2013-PCI Brown's College of Pharmacy, Ammapalem (V), Near Thanikella, Konijerla (M),Khammam-507305	100	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyapuri Warangal - 506 009.
Item No.- 219 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	HARYANA 32-964/2012-PCI Savitri Devi Memorial College of Pharmacy, Pundri Road Rajound, Kaithal – 136 044	60	2016-2017	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.- 220 Degree IR No.16th (Dec.,2013)	KARNATAKA 32-118/2009-PCI Dayananda Sagar, College of Pharmacy, Kumaraswamy Layout, Bangalore.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 221 Degree IR No.6th (Dec.,2013)	KARNATAKA 32-306/2011-PCI Srinivas College of Pharmacy, Valachil, Faragipete Post, Mangalore – 574 143	100	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-222 Degree IR No.2nd Surprise (Dec.,2013)	MAHARASHTRA 32-901/2012-PCI Shri Dhaneshwari Manav Vikas Mandal's Dr. Vedprakash Patil Pharmacy College, Geori Tanda, Paithan Road, Aurangabad.	60	From 2006- 2007 to 2014-2015	The Registrar Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, University Campus Aurangabad – 431 004.
Item No.-223 Degree IR No.5th (Dec., 2013)	TAMIL NADU 32-430/2010-PCI PGP College of Pharmaceutical Science & Research Institute, Karur Main Road, Namakkal – 637 207	60	2015-2016	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-224 Diploma IR No.16th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-117/2011-PCI Government Polytechnic for Women, MGM Circle, K.M.C. (Post), Warangal - 506 007.	60	2014-2015	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.-225 Diploma IR No.22nd (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-29/2010-PCI Govt. Polytechnic, Masab Tank, Hyderabad – 500 028.	60	2014-2015	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.-227 Diploma IR No.9th (Dec.,2013)	ORISSA 17-482/2012-PCI Government Polytechnic Plot No. 1, Chandrasekharapur Near Xavier Institute of Management Bhubaneswar - 751 023.	60	2016-2017	The Controller of Examination State Council for Technical Education & Vocational Training Unit – VIII, Near Raj Bhawan Bhubaneswar – 751 012.
Item No.-228 Diploma IR No.4th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-813/2011-PCI Sanjivnie Institute of Technology & Management College of Pharmacy Kiratanpur, Post Tendwa Basantpur, Distt. Baahraich – 271 801	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi, Chauraha Charbagh Lucknow - 226 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-229 Diploma IR No.4th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 17-822/2014-PCI Krishna College of Pharmacy, Noorpur Road, Bijnor.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi, Chauraha Charbagh Lucknow - 226 001.
Item No.-230 Degree IR No.4th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-714/2014-PCI Joginpally B. R. Pharmacy College, Amdapur "X" Road, Yenkapally, Moinabad Mandal, P.O. Himayathnagar, R.R. Distt.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2014-2015 a.s.)	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 075.
Item No.-231 Degree IR No.7th (Dec., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-24/2013-PCI St. Peter's Institute of Pharmaceutical Sciences, 2- 4-1211/1, Vidyanagar Hanamkonda, Warangal – 506 001.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2015-2016 a.s.	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyaपुरi, Hanamkonda Warangal - 506 009.
Item No.-232 Degree IR No.6th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-204/2013-PCI Shri Vishnu College of Pharmacy, Vishnupur, Bhimavaram – 534 202, West Godavari Distt.	100	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 063.
Item No.-233 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-408/2013-PCI MNR College of Pharmacy, MNR Educational Trust Campus, Fasalwadi (V), Sangareddy (M) Distt. Medak – 502 294	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Osmania University Adikmet Hyderabad – 500 007.
Item No.-234 Degree IR No.7th (Dec., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-171/2013-PCI Baptala College of Pharmacy, Guntur Distt. Baptala – 522 101.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2015-2016 a.s.	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 235 Degree IR No.3rd (Dec., 2013)	PUNJAB 32-806/2014-PCI Guru Nank Institute of B.Pharmacy, Dalewal Bhunga, Distt. Hoshiyarpur.	60	2016-2017	The Registrar Punjab Technical University Post Bag No.1 Jalandhar – Kapurthala Highway Near Science City Jalandhar.
Item No.- 239 Diploma IR No.13th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-283/2010-PCI Govt. Polytechnic for Women, Hindupur, Nizamabad - 503 002.	50	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.- 240 Diploma IR No.4th (July,2013)	CHHATTISGARH 17-785/2012-PCI University Teaching Deptt. (Deptt. of Pharmacy) Sarguja University, Ambikapur, Distt. Sarguja - 497 001, Chhattisgarh (formerly known as Deptt. Of Pharm. Sciences, Guru Ghasi Das University, Sarguja Campus, Jail Road, Babu Para, Ambikapur,- 497 001 (Chhattisgarh)	60	2013-2014	The Registrar Guru Ghasi Das University Sarguja Campus, Jail Road Babu Para Ambikapur – 497 001. (Upto 2009-2010) The Registrar Sarguja University Ambikapur (From 2010-2011 onwards)
Item No.- 241 Diploma IR No.23rd (Jan.,2014)	ORISSA 17-6/2014-PCI Pharmacy Wing, S.C.B. Medical College, Cuttack – 753 007	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Item No.- 242 Diploma IR No.8th (Aug.,2013)	UTTARAKHAND 17-254/2010-PCI Govt. Polytechnic, Narendra Nagar – 249 175 (Tehri – Garhwal).	40	2015-2016	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667.Haridwar.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 243 Diploma IR No.7th (Dec., 2013 & Jan.,2014)	WEST BENGAL 17-543/2012-PCI Contai Polytechnic P.O. Darua, P.S. Contai Distt. Purba Medinipur.	60	2016-2017	The Secretary West Bengal State Council for Tech. Education “Kolkata Karigori Bhavan” 2nd Floor, 110, S.N. Banerjee Road Kolkata – 700 013.
Item No.- 244 Degree IR No.6th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-370/2012(A)-PCI Malla Reddy Institute of Pharmaceutical Sciences, Maisammaguda, Dhulapally, Post Via Hakimpet, Secunderabad - 500 014.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 245 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-427/2013-PCI A.S.N. Pharmacy College Burripalem Road, Tenali, Guntur Distt. - 522 201.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 246 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-675/2013-PCI Sir C.R. Reddy College of Pharmaceutical Sciences, Santhi Nagar, Eluru – 534 007 W.G. Dt.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Waltair Visakhapatnam – 530 063.
Item No.- 247 Degree IR No.2nd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-918/2013-PCI Nalla Narasimha Reddy Education Society's Group of Institutions Chowdarigunda, Korremula (Vill), Ghatkesar (M), R.R. Dist – 500 088.	60	From 2009- 2010 to 2015-2016	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-249 Degree IR No.3rd Surprise (Sept. & Oct.,2013)	MAHARASHTRA 32-569/2011-PCI P.S.P.S.'s Indira Institute of Pharmacy A/P Sadavali (Devrukh) Tal. Sangameshwar Distt. Ratnagiri – 415 804.	60	From 2008-2009 to 2014-2015	The Registrar University of Mumbai Fort Santa Cruz (East) Mumbai – 400 032
Item No.-250 Degree IR No.3rd Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-925/2013-PCI Goel Institute of Pharmacy & Sciences, Vill.-Anora, Post-Pargana Near Indira Canal Faizabad Raod, Lucknow.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 260 021.
Item No.-255 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-932/2010-PCI KLR Pharmacy College, Behind Contractor's Colony, Paloncha, Khammam – 507 115	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.4th (Dec.,2013)	32-463/2013-PCI KLR Pharmacy College, Behind Contractor's Colony, Paloncha, Khammam – 507 115	100	2016-2017	The Registrar Controller of Examinations Kakatiya University Vidyananyapuri, Warangal - 506 009.
Item No.-257 Diploma IR No.4th (Dec.,2013)	RAJASTHAN 17-886/2012-PCI Jai Narayan Vyas School of Pharmacy, NH-15, Jallipa Road, Barmer – 344 001.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-17 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Item No.-258 Diploma IR No.8th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-470/2011-PCI Kamalakshi Pandurangan College of Pharmacy, Ayyampalayam, Tiruvannamalai – 606603	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.7th (Jan.,2014)	32-139/2011-PCI Kamalakshi Pandurangan College of Pharmacy, Ayyampalayam, Tiruvannamalai – 606603	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 259 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-823/2013-PCI Bhaskara Institute of Pharmacy, Komatipalli (V), Bobbili (Mandalam), Vizianagaram Distt.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 500 017.
Item No.- 260 Degree IR No.4th (Feb.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-432/2013-PCI Vikas College of Pharmaceutical Sciences Ravanigudem (V)-508376 Suryapet – Nalgonda Distt.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
Item No.- 261 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-880/2012-PCI Pathfinder Institute of Pharmacy Education & Research, Opp. Warangal Airport, Beside Mamnoor Camp, Khammam Road, Warangal-506 166.	60	2015-2016	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyapuri Warangal - 506 009.
Item No.- 262 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-518/2012-PCI Sarada College of Pharmaceutical Sciences, Kondakavuru, Narasaraopet – 522 602, Distt. Guntur.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 263 Degree IR No.5th (Nov.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-470/2012-PCI St. John College of Pharmacy, Yellapur (V), Hasanparthy (M), Warangal – 506 371.	60	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyapuri Warangal - 506 009.
Item No.- 264 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-466/2011-PCI Priya Darshini College of Pharmaceutical Science, Chowdaryguda (V), Ghatkesar (M), R.R. Distt. – 501 301.	60	2016-2017	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-265 Degree IR No.4th (Feb.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-539/2013-PCI Priyadarshini Institute of Pharmaceutical Education and Research, 5th Mile, Pulladigunta, Kornepadu (V) Vatticherukuru (M) Guntur – 522 017.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	Already approved upto 2014-2015 a.s.	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 512.
Item No.-266 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	KARNATAKA 32-94/2013-PCI Oxbridge College of Pharmacy, No. 7 & 9, Mahadeshwara Nagar Extn. Vishwaneedam Post, Magadi Road, Bangalore – 91.	60	2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-270 Diploma IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-741/2011-PCI Rao's College of Pharmacy Chemudugunta Post & Village Venkata Chalam Mandal Nellore Dist.- 524 320	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	32-510/2013-PCI Rao's College of Pharmacy Chemudugunta Post & Village Venkata Chalam Mandal Nellore Dist.- 524 320	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.-271 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-984/2013-PCI Srinivasa Pharmaceutical Institute and Centre for Research, Burgupally, Vikarabad – 501 101 Ranga Reddy Distt.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.5th (Dec.,2013)	32-684/2013-PCI Srinivasa Pharmaceutical Institute and Centre for Research, Burgupally, Vikarabad – 501 101 Ranga Reddy Distt.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 272 Diploma IR No.14th (Jan.,2014)	ORISSA 17-331/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, At.- Bidyaniketan, Marive Drive Road, P.O. Baliguali, Distt. Puri- 757 002	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	32-682/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, At.- Bidyaniketan, Marive Drive Road, P.O. Baliguali, Distt. Puri- 757 002	60	2016-2017	The Registrar Biju Patnaik University of Technology U.G.I.E. Complex, Jail Road Rourkela – 769 004.
Item No.- 273 Diploma IR No.10th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-501/2012-PCI Padmavathi College of Pharmacy, Krishnagiri Main Road, PeriyanaHalli Post, Dharmapuri	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.9th (Jan.,2014)	32-137/2010-PCI Padmavathi College of Pharmacy, Krishnagiri Main Road, PeriyanaHalli Post, Dharmapuri	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.- 274 Diploma IR No.17th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-319/2012-PCI S.A. Raja Pharmacy College, Raja Nagar, Vadakangulam – 627 116 Tirunelveli Distt.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education, 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.9th (Jan.,2014)	32-157/2009-PCI S.A. Raja Pharmacy College, Raja Nagar, Vadakangulam – 627 116 Tirunelveli Distt.	50	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 275 Diploma IR No.3rd (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-900/2013-PCI Krishnadevi Maheshwari Pharmacy College, Bagar Jhunjhunu Road, Bagar Distt. Jhunjhunu – 333 023	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-18 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Item No.- 276 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-209/2013-PCI Talla Padmavathi College of Pharmacy, Orus- Kareemabad, Warangal - 506 012	100	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Warangal – 506 009.
Item No.- 277 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-674/2013-PCI Teegla Ram Reddy College of Pharmacy, # 4-202, Meerpet, Saroornagar (M), Hyderabad – 500 097	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 278 Degree IR No.3rd (Dec,2013)	ANDHRA PRADESH 32-935/2013-PCI Sun Institute of Pharmaceutical Education and Research Near Port City, Kakupalli Village Nellore Rural Mandal Nellore Distt. – 524 346.	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 279 Degree IR No.3rd (June,2013)	ANDHRA PRADESH 32-1003/2013(A)-PCI Anurag Pharmacy College Ananthagiri (V), Kodad (M), Nalgonda (Dt.) - 508 206.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 280 Degree IR No.4th (Dec.,2012)	ANDHRA PRADESH 32-688/2012-PCI K.G.R.L. College of Pharmacy, Dirusumarru Raod, Bhimavaram, West Godavari Distt.–534 201	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2012-2013 a.s.)	2014-2015	The Registrar Andhra University Waltair Visakhapatnam – 530 063.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 281 Degree IR No.6th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-562/2013-PCI Raghu College of Pharmacy, Dakamarri, Bheemunipatnam (M), Visakhapatnam – 531 162.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2012-2013 a.s.)	2014-2015	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 003.
Item No.- 282 Degree IR No.2nd Surprise (August., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-1005/2013-PCI MRR College of Pharmacy Near DSP Office, Madhira Road Nandigama, Krishna Distt. 521 1185.	60	From 2008- 2009 to 2014- 2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 533 003.
Item No.- 284 Diploma IR No. 6th (Nov.,2013)	HARYANA 17-76/ 2013-PCI Janta College of Pharmacy, VPO Butana Teh. Gohana Distt. Sonipat – 131 302 .	60	2016-2017	The Director State Board of Technical Education Haryana, SCO No.38-39 Sector 17-A Chandigarh – 160 017
Item No.- 285 Diploma IR No.4th (Jan.,2014)	ORISSA 17-710/2005-PCI Gajapati College of Pharmacy C/o T.P. Educational Trust Main Road, At-Ranipentha Paralakhemundi – 761 200 Distt. Gajapati.	40	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 286 Diploma IR No.3rd (Jan.,2014)	PUNJAB 17-825/2012-PCI College of Pharmacy – Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Buchon Khurd, Barnal Road, Bathinda – 151 109.	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh. Upto 2011-2012 The Registrar Adesh University NH- 7 Barnala Road (Bathinda) From 2012-2013
Item No.- 287 Diploma IR No.5th (Jan.,2014)	PUNJAB 17-772/2013-PCI Guru Hargobind College of Pharmacy, Raikot (LDH), Opp. Reliance Petrol Pump, Barnala Road, Gondwal, Raikot, Distt. Ludhiana.	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh.
Item No.- 289 Diploma IR No.13th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-201/2011-PCI Bhupal Noble's College of Pharmacy, Old Station Road, Udaipur – 313 001.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-17 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Degree IR No.10th (Jan.,2014)	32-56/2005-PCI Bhupal Noble's College of Pharmacy, Old Station Road, Udaipur – 313 001.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-17 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Item No.- 291 Diploma IR No. 2nd (Nov.,2013)	UTTARAKHAND 17-952/2014-PCI Smt. Tarawati Institute of Biomedical & Allied Sciences, Roorkee Campus: 60th Km. Mile Stone Roorkee-Dehradun Highway, Saliyar, Roorkee, Distt. Haridwar	60	2016-2017	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 776. Haridwar.
Degree IR No.2nd (Nov.,2013)	32-849/2010-PCI Smt. Tarawati Institute of Biomedical & Allied Sciences, Roorkee Campus: 60th Km. Mile Stone Roorkee-Dehradun Highway, Saliyar, Roorkee, Distt. Haridwar	60	2016-2017	The Registrar Uttakhand Technical University A-12, Saraswati Vihar Lower Adhoiwala P.O. Dalanwala Dehradun.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For Admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 292 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-500/2012-PCI St. Mary's College of B.Pharmacy, At. Surampalem, ANB Road, Peddapuram – 533 437.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 293 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-643/2013-PCI Sri Venkateswara College of Pharmacy, R.V.S. Nagar, Tirupathi Road, Chittoor – 517 127	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur – 515 002.
Item No.- 294 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	RAJASTHAN 32-857/2011-PCI Shrinathji Institute of Pharmacy Upali Oden, Nathdwara, Distt. Rajasmand – 313 301.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Item No.- 295 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	RAJASTHAN 32-423/2012-PCI Sanjeevan College of Pharmacy, Jaipur Road, Dausa – 363 303.	60	2014-2015	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Item No.- 296 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 32-840/2012-PCI IIMT College of Pharmacy, KP-III, Plot No.20, Greater Noida.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.- 297 Degree IR No 3rd (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 32-829/2012-PCI College of Pharmacy Agra Gwalior Road, Rohta Ki Neher, Jakhoda, Agra.	60	2016-2017	The Registrar Gautam Buddha Tech. University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 260 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 298 Degree IR No. 6th (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 32-214/2010-PCI Deptt. of Pharmacy, Institute of Engineering & Tech., M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly- 243006.	60	2016-2017	The Registrar Deptt. of Pharmacy, M.J.P. Rohilkhand University, Pilibhit By-Pass Road Bareilly- 243 006.
Item No.- 299 Degree IR No.7th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-253/2011-PCI Malineni Lakshmaiah College of Pharmacy, Kanumalla Post. Singarayakonda Prakasam Distt. 523 101.	60	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.- 300 Diploma IR No.11th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-275/2006-PCI Govt. Polytechnic for Women, Nizamabad-503 001.	30	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.- 301 Diploma IR No.3rd (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-934/2013-PCI Harvards College of Pharmacy, K. Perumallapuram, Thondangi Mandal, Via Chebrolu, East Godavari Distt.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.- 302 Diploma IR No.19th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-26/2011-PCI Govt. Polytechnic Kancharapalem, Industrial Estate P.O. Visakhapatnam- 530 007.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Item No.- 303 Diploma IR No.6th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-731/2013-PCI Kamala Jayarao College of Pharmacy, Burugupudi, Korukonda (M), Rajahmundry - 533 292.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 305 Diploma IR No.25th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-44/2012-PCI National College of Pharmacy, Balaraja Urs Road, Shimoga - 577 201.	100	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.10th (Jan.,2014)	32-67/2011-PCI National College of Pharmacy, Balaraja Urs Road, Shimoga - 577 201.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 307 Diploma IR No.18th (Dec., 2013)	KARNATAKA 17-271/2009-PCI SES College of Pharmacy, Bellary (Distt.) Siruguppa – 583 121.	60	2014-2015	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.- 308 Diploma IR No.20th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-48/2011-PCI HKES's Matoshree Taradevi Rampure, Institute of Pharmaceutical Sciences, Gulbarga – 585 105.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.8th (Jan.,2014)	32-82/2010-PCI HKES's Matoshree Taradevi Rampure, Institute of Pharmaceutical Sciences, Gulbarga – 585 105.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 309 Diploma IR No.11th (Jan., 2014)	PUNJAB 17-396/2012-PCI Adesh Polytechnic College, Ferozepur Road, Muktsar – 152 026.	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 311 Degree IR No.5th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-208/2013-PCI Sultan-UI-Uloom College of Pharmacy “Mount Pleasant” 8-2-249, Road No. 3, Baanjara Hills, Hyderabad - 500 034.	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 312 Degree IR No.8th (July.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-222/2013-PCI Vishwa Bharathi College of Pharmaceutical Sciences, N.R.T. Road, Perecherla, Guntur – 522 009.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada E.G. Distt. – 533 003.
Item No.- 313 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-951/2013-PCI Gokul College of Pharmacy Piridi (V), Bobbili (M) Vizianagaram (Dist.).	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada East Godavari.
Item No.- 314 Degree IR No.3rd (Aug., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-789/2013-PCI Jyothishmathi Institute of Pharmaceutical Science, Ramakrishna Colony, Karimnagar- 505 481	60 100 Subject to neutralization of 38 excess admissions made during 2010-2011 & 2011-2012 in maximum three future academic sessions within the approved intake.	Upto 2011-2012 From 2012-2013 to 2014- 2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 315 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	HARYANA 32-389/2009-PCI PDM College of Pharmacy, Sarai Aurangabad, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar – 124 507	60	2014-2015	The Registrar Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-316 Diploma IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-592/2012-PCI Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy, Sheshadrinagar, Mahbubnagar – 509 001.	60	2015-2016	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.7th (Jan.,2014)	32-223/2009-PCI Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy, Sheshadrinagar, Mahbubnagar – 509 001.	60	2015-2016	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
Item No.-317 Diploma IR No.18th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-268/2012-PCI K.V. College of Pharmacy, M.G. Road, Distt. Kolar, Chickballapur – 562 101.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.9th (Jan.,2014)	32-141/2012-PCI K.V. College of Pharmacy, M.G. Road, Distt. Kolar, Chickballapur – 562 101.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-318 Diploma IR No.18th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-241/2012-PCI Dr. H.L. Thimmegowda College of Pharmacy, Kengal–Channapatna – 571 502.	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.6th (Jan.,2014)	32-59/2009-PCI Dr. H.L. Thimmegowda College of Pharmacy, Kengal–Channapatna – 571 502.	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 319 Diploma IR No.3rd (July, 2012)	MAHARASHTRA 17-871/2011-PCI Matoshri Education Society's M.A.B.D. Diploma College of Pharmacy, At./Post – Babhulgaon Distt. Nashik.	60	2015-2016 subject to neutralization of 56 excess admissions made during 2011-2012 academic session within sanctioned intake of 60 admissions during 2014- 2015 and 2015-2016 academic sessions.	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-320 Diploma IR No.6th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-641/2011-PCI Bhupal Noble's Institute of Pharmaceutical Sciences, Old Station Road Near B.N. Institutions, Seva Shram Chouraya, Udaipur – 313 002.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Degree IR No.4th (Jan.,2014)	32-414/2011-PCI Bhupal Noble's Institute of Pharmaceutical Sciences, Old Station Road Near B.N. Institutions, Seva Shram Chouraya, Udaipur – 313 002.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Item No.-321 Diploma IR No.9th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-469/2012-PCI Nandha College of Pharmacy, Koorapalayam, “Pirivu”, Pitchandampalayam Post, Erode-638 052.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road, Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.7th (Jan.,2014)	32-114/2012-PCI Nandha College of Pharmacy, Koorapalayam, “Pirivu”, Pitchandampalayam Post, Erode-638 052.	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-322 Diploma IR No.5th (Nov.,2013)	UTTARAKHAND 17-804/2011-PCI Shree Dev Bhoomi Institute of Education, Science & Technology, Village Mazhon, P.O. Poundha, Via – Premnagar, Dehradun.	60	2016-2017	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 776. Haridwar.
Degree IR No.4th (Nov.,2013)	32-827/2013-PCI Shree Dev Bhoomi Institute of Education, Science & Technology, Village Mazhon, P.O. Poundha, Via – Premnagar, Dehradun.	60	2016-2017	The Registrar Uttarakhand Technical University A-12, Saraswati Vihar Lower Adhoiwala P.O. Dalanwala Dehradun.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For dmns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-324 Degree IR No.5th Surprise (Jan.,2013)	CHHATTISGARH 32-634/2011-PCI Siddhi Vinayaka Institute of Technology & Sciences, Near Deendayal Awasth Yojana, Uslapur, P.O. Mangla, Bilaspur.	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University North Park Avenue Sector – 8 Bhilai – 490 009.
Item No.-325 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-478/2013-PCI Rajarshi Rananjay Singh College of Pharmacy, Maharaja Bhagwan Baksh Singh Nagar, Amethi, Sultanpur.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-326 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 32-615/2013-PCI HIMT College of Pharmacy 08, Institutional Area, Knowledge Park-I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar – 201 306.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-327 Degree IR No.3rd (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-622/2011-PCI MLR Shri Ram Murti Smarak College of Engineering & Technology Ram Murti Puram, 13 K.M., Bareilly – 243 202.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-333 Diploma IR No.12th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-240/2011-PCI K.L.E. Society's College of Pharmacy, Vidyanagar, Hubli-580031.	80	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
 Degree IR No.8th (Jan.,2014)	32-87/2011-PCI K.L.E. Society's College of Pharmacy, Vidyanagar, Hubli-580031.	60	2016-2017	The Registrar K.L.E. University J.N.M.C. Campus, Nehru Nagar Bangalore – 590 010.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-334 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-963/2012-PCI Narayana Pharmacy College Chinthareddypalem, Nellore – 524 002.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-335 Degree IR No.3rd Surprise (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-815/2013-PCI Moonray Institute of Pharmaceutical Sciences Raikal (Vill), Shadnagar (Mdl), Farooknagar (taluk), Mahaboobnagar Dist. – 509 216	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.336 Degree IR No.4th Surprise (Dec.,2013)	UTTAR PRADESH 32-728/2012-PCI H.R. Institute of Pharmacy, 7th Km Stone, Delhi – Meerut, Merta, Ghaziabad.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2014-2015 a.s.)	2015-2016	The Registrar Mahamaya Technical University, C-22, Sector – 62, Noida Gautam Budh Nagar – 201 301.
Item No.-337 Degree IR No.2nd Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-801/2010-PCI Mahatma Gandhi Institute of Pharmacy, Paharpur, Junabganj, P.O. Banthra, Lucknow-227 101	60	From 2008-2009 to 2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 260 021.
Item No.-338 Degree IR No.4th Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-525/2013-PCI Hygia Institute of Pharmaceutical Education & Research, Ghazipur Balram, Faizullahganj, Ghaila Road, Lucknow – 226 020.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.
Item No.-339 Degree IR No.3rd Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-497/2013-PCI Azad Institute of Pharmacy & Research, Azadpuram, Post: Chandrawal, Bangla Bazar Road, Lucknow – 226 002.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-340 Degree IR No.4th Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-586/2013-PCI Rameshwaram Institute of Technology and Management, Govindpuram, Near Sewa Hospital, Sitapur Road Lucknow.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.
Item No.-341 Degree IR No.4th Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-266/2010-PCI Shivdan Singh Institute of Technology & Management, 10 Km. Stone Aligarh-Mathura Road, Aligarh -202 001.	60	2014-2015	The Registrar Mahamaya Technical University, C-22, Sector – 62 Noida – 201 309.
Item No.-342 Degree IR No.4th Surprise (Nov.,2013)	UTTAR PRADESH 32-315/2013-PCI Saroj Institute of Technology & Management, Ahimamau, P.O. Arjunanj, Sultanpur Road, Lucknow.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.
Item No.- 343, 588 and 687 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.5th (March,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-241/2014-PCI Deccan School of Pharmacy, Dar-us- Salam, Aghapura Hyderabad-500 001.	30	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.)	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, Hyderabad - 533 003. (Upto 2011-2012) The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007. w.e.f. 2012-2013
Item No.-349 Diploma IR No.16th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-110/2011-PCI Vivekananda College of Pharmacy Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar II Stage Bangalore – 560 055	60	2016-2017	The Member Secretary Office of the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.7th (Jan.,2014)	32-167/2011-PCI Vivekananda College of Pharmacy Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar II Stage Bangalore – 560 055	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-350 Diploma IR No.5th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-759/2009-PCI Charbhuj Chemist College, Off Campus Constituent Unit of IASE Deemed University, (PO) Merta – 341 510.	60	2016-2017	The Registrar Institute of Advance Studies in Education (Deemed University) Gandhi Vidya Mandir Sardarshahr – 331 401.
Item No.-351 Diploma IR No.12th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-279/2012-PCI Lal Bahadur Shastri College of Pharmacy, Udia Marg, Tilak Nagar, Jaipur – 302 004	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences B-1, Swami Ramsingh Road Opp SMS Hospital Jaipur – 302 001 (Rajasthan)
Degree IR No.5th (Jan.,2014)	32-425/2011-PCI Lal Bahadur Shastri College of Pharmacy, Udia Marg, Tilak Nagar, Jaipur – 302 004	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences B-1, Swami Ramsingh Road Opp SMS Hospital Jaipur – 302 001 (Rajasthan)
Item No.-354 Degree IR No.3rd (Aug., 2013)	MADHYA PRADESH 32-516/2013-PCI TIT College of Pharmacy, Infront of Hathaikheda Dam, Post Piplani, P.B. No. -24, BHEL, Bhopal-462 021	60 Subject to neutralization of 115 excess admissions made during 2010-2011, 2011-2012 & 2012-2013 academic session within sanctioned intake of 60 admissions in maximum three future academic sessions within the approved intake.	2014-2015	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
Item No.-370 Diploma IR No.18th (Jan.,2014)	KARNATAKA 17-18/2012-PCI Manipal College of Pharmaceutical Sciences Manipal University, Madava Nagar, Manipal – 576 104.	120	2016-2017	The Registrar Manipal University (Deemed University) University Building Madava Nagar, Manipal – 576 104.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-374 Diploma IR No.15th (Jan.,2014)	ORISSA 17-330/2014-PCI Gayatri College of Pharmacy, Gayatri Vihar, Jamadarapali, Sambalpur - 768 001.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Degree				
IR No.6th (Jan.,2014)	32-255/2014-PCI Gayatri College of Pharmacy, Gayatri Vihar, Jamadarapali, Sambalpur - 768 001.	60	2016-2017	The Registrar Biju Patnaik University of Technology, Rourkela, UGIE Complex Rourkela – 769 014.
Item No.-376 Diploma IR No.6th (Jan.,2014)	ORISSA 17-575/2014-PCI Jeypore College of Pharmacy, At/P.O. Rondapali, Jeypore –764 002, Distt. Kaoraput.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
Degree				
IR No.7th (Jan.,2014)	32-264/2014-PCI Jeypore College of Pharmacy, At/P.O. Rondapali, Jeypore –764 002, Distt. Kaoraput	60	2016-2017	The Registrar Biju Patnaik University of Technology, UGIE Complex Rourkela – 769 014.
Item No.-377 Diploma IR No.4th (Jan.,2014)	PUNJAB 17-327/2012-PCI Akai College of Pharmacy, Technical Education, Mastuana Distt. Sangrur- 148 001.	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh.
Degree				
IR No.6th (Jan.,2014)	32-272/2009-PCI Akai College of Pharmacy, Technical Education, Mastuana Distt. Sangrur- 148 001.	60	2016-2017	The Registrar Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Bypass, G.T. Road, Ladowali Road, Jalandhar – 144 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-378 Diploma IR No.9th (Sept.,2012) Degree	RAJASTHAN 17-619/2012-PCI Jaipur College of Pharmacy ISI-15, RIICO Institutional Area Sitapur, Tonk Road Jaipur.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Shrijit Circle, Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur.
IR No.5th (Sept.,2012)	32-405/2007-PCI Jaipur College of Pharmacy ISI-15, RIICO Institutional Area, Sitapur, Tonk Road Jaipur.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Shrijit Circle, Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur.
Item No.-379 Diploma IR No.5th (Feb.,2014)	RAJASTHAN 17-608/2008-PCI Marwar Pharmacy College Near New Bus Stand Ladariya Road, Maulasar Nagour - 341 506.	60	2016-2017	The Registrar Institute of Advance Studies in Education (Deemed University) Gandhi Vidya Mandir Sardarshahr – 331 401.
Item No.-380 Diploma IR No.2nd (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-983/2012-PCI Shrinathji Institute of Pharmacy Upali Oden Nathdwara – 313 301.	60	From 2012- 2013 to 2014-2015	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Item No.-381 Diploma IR No.13th (Jan, 2014) Degree IR No.5th (Jan, 2014)	RAJASTHAN 17-348/2013-PCI Maharishi Arvind College of Pharmacy, Amba Bari Circle, Bharti Path Amba Bari, Jaipur- 302 012. 32-330/2011-PCI Maharishi Arvind College of Pharmacy, Amba Bari Circle, Bharti Path Amba Bari, Jaipur- 302 012.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Secretary Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001. The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-382 Diploma IR No.7th (Jan-Feb,2014)	TAMIL NADU 17-317/2012-PCI Sankaralingam Bhuvaneshwari College of Pharmacy, 3/77-C, Annaikuttam Road, Annaikuttam (Via) Sivakasi – 626 130.	60	2016-2017	The Director Directorate of Medical Education, 162, Poonamallee High Road Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.13th (Jan-Feb,2014)	32-116/2009-PCI Sankaralingam Bhuvaneshwari College of Pharmacy, 3/77- C, Annaikuttam Road, Annaikuttam (Via) Sivakasi – 626 130.	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-383 Diploma IR No.6th (Jan-Feb,2014)	UTTAR PRADESH 17-17/96-PCI Department of Pharmacy M.L.N. Medical College Lowther Road Allahabad – 211 002.	60	2016-2017	The Secretary U.P. State Medical Faculty 5, Sarvpally Mall Avenue Road Lucknow - 226 001.
Item No.-384 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-936/2012-PCI Shri RLT Institute of Pharmaceutical Science & Technology, NH2, Ekdil (Etawah) – 206 126.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	32-832/2010-PCI Shri RLT Institute of Pharmaceutical Science & Technology, NH2, Ekdil (Etawah) – 206 126.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-385 Diploma IR No.4th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-827/2011-PCI School of Pharmacy & Research, Rsora, Sitapur – 261 440.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	32-858/2011-PCI School of Pharmacy & Research, Rsora, Sitapur – 261 440.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-386 Diploma IR No.6th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-303/2011-PCI Janta Polytechnic, Jahangirabad, P.O. Bhaipur, K.S.C. Mill, Distt. Bulandshahr-202 391.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001. (Upto 2002-2003) The Secretary Uttarakhand Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 776. Distt. Haridwar. (From 2003-2004)
Item No.-387 Diploma IR No.5th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-614/2013-PCI Institute of Paramedicals 56, Matiyari Deva Road, Chinhath, Lucknow - 226 019.	60	2016-2017	The Registrar U.P. State Medical Faculty 5, Sarvpally Mall Avenue Road Lucknow - 226 001.
Item No.-388 Diploma IR No.20th (Jan.,Feb,2014)	MAHARASHTRA 17-9/2011-PCI Government Polytechnic, National Highway No.6, Jilha Peth, Jalgaon – 425 001.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg,Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-389 Diploma IR No.22nd (Feb.,2014)	PUNJAB 17-19/2011-PCI Govt.Polytechnic for Women, Sector 10-D Chandigarh.	40	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training, Plot No.1-A, Sector 36-A Chandigarh.
Item No.-391 Diploma IR No.7th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-299/2011-PCI Govt. Polytechnic, Jagdishpur, Jaunpur – 220 002.	40	2015-2016	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-392 Diploma IR No.2nd Surprise (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-991/2013-PCI Kunal College of Pharmacy, NH-3, Tehra Gwalior Road, Agra.	60	From 2012- 2013 to 2015-2016	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
Item No.-393 Degree IR No.2nd Surprise (Feb.,2014)	HARYANA 32-1056/2011-PCI International Institute of Pharmaceutical Sciences, Vidyagram, Jhundpur, Sonapat - 131 023.	60	From 2010- 2011 to 2014-2015	The Registrar Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak – 124 001.
Item No.-396 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	MAHARASHTRA 32-399/2014-PCI Amrutvahini Sheti & Shikshan Vikas Sanstha's Amrutvahini College of Pharmacy, Post – Sangamner (S.K.) – 422 608, Tal – Sangamner, Distt.Ahmednagar.	60	2016-2017	The Registrar University of Pune Ganeshkhind Road Pune – 411 007.
Item No.-398 Degree IR No.12th (Jan., 2014)	ORISSA 32-36/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, At. P.O Mohuda, Distt. Ganjam, Berhampur - 760 002	60	2014-2015	The Registrar Biju Patnaik University of Technology Rourkela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika Berhampur – 760 003.
Item No.-399 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	RAJASTHAN 32-590/2013-PCI Swami Keshvanand Institute of Pharmacy, Bhoja Raisar, NH – 11, Jaipur Road, Bikaner – 334 001.	60	2014-2015	The Registrar University of Rajasthan Jaipur – 302 004 (Upto 2005-2006) The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001. (From 2006)

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-400 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 32-856/2012-PCI Swami Keshvanand Institute of Pharmacy, Ramnagar, Jagatpura Jaipur – 302025.	60	2014-2015	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur – 302 033.
Item No.-401 Degree IR No.4th (Feb.,2014)	TAMIL NADU 32-735/2014-PCI SSM College of Pharmacy, S.F. No. 834/1&2, Chiniyampalayam Pudhur, Jambai Village, Bhavani Taluk, Erode (D.T.) – 638 312	60	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-402 Degree IR No.6th (Feb.,2014)	TAMIL NADU 32-159/2011-PCI K.M.C.H. College of Pharmacy Kovai Estate, Kalapathi Road, Coimbatore – 641 035.	60	2018-2019	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-403 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-872/2011-PCI Sanjay College of Pharmacy, Mathura Delhi Road, NF-2, P.O. Chaumuha, Mathura – 281 406.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-404 Degree IR No.3rd (Jan-Feb,2014)	UTTAR PRADESH 32-1082/2014-PCI Brahmanand Group Institutions 195, Bulandshahr- Khurja G.T. Road, Bulandshahr- 203 001.	60	From 2010- 2011 to 2014-2015	The Registrar Mahamaya Technical University Sector – 62, C-22, G.B. Nagar Noida.
Item No.-405 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-1036/2014-PCI L.T.R. Institute of Technology Kurali Dharamshala Baghpat Road Distt. Meerut.	60	2015-2016	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-406 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-1076/2013-PCI Aligarh College of Pharmacy, 3 km. from Sasni Gate, Aligarh-Mathura Road, Aligarh – 202 001.	60	2015-2016	The Registrar Gautam Buddh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021. (Upto 2010-2011) The Registrar Mahamaya Technical University C-22, Sec-62 Noida – 201 301. (From 2011-2012)
Item No.-407 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-928/2014-PCI Sherwood College of Pharmacy, Sherwood Educational Campus Lucknow Faizabad Road at 18 km. Near Safedabad Crossing, Barabanki – 225 001.	60	2015-2016	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-408 Degree IR No.5th (Jan., 2014)	ANDHRA PRADESH 32-457/2013-PCI Vaageshwari College of Pharmacy, Beside L.M.D. Police Station, Ramakrishna Colony, Karimnagar – 505 481.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.-409 Degree IR No.2nd Surprise (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-1063/2013-PCI Vijay College of Pharmacy, Manikbhandar, Nizamabad – 503 003.	60	From 2010- 2011 to 2014- 2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.-413 Degree IR No.5th (Jan., 2014)	ANDHRA PRADESH 32-657/2013-PCI KJR College of Pharmacy, Burugupudi, Korukonda Mandal, E.G. Distt.	60	2014-2015	The Registrar Andhra University, Waltair Visakhapatnam – 530 063.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-414 Degree IR No.11th (Feb., 2014)	ANDHRA PRADESH 32-25/2013-PCI University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal – 506 009.	60	2018-2019	The Registrar Controller of Examinations Kakatiya University Vidyananyapuri Warangal - 506 009.
Item No.-416 Degree IR No.4th (Jan-Feb,2014)	ANDHRA PRADESH 32-496/2013-PCI Trinity College of Pharmaceutical Sciences, Peddapalli, Distt. Karimnagar- 505 172.	60	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Warangal - 506 009. (upto 2009-2010) The Registrar Controller of Exams., Satavahana University, Jyoti Nagar Karimnagar – 505 001.
Item No.-420 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-677/2012-PCI Vasavi Institute of Pharmaceutical Sciences, Vasavi Nagar, Peddapalli (V), Near Bhakarpet, Railway Station, Sidhout (M), Kadapa Distt.- 516 247.	60	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-421 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-989/2013-PCI Sree College of Pharmacy, Nayakulahundem (Vil), Sujathanagar (GP), Kothagudem (MD) Khammam Dist.	60	2016-2017	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Hanamkonda - 506 009.
Item No.-422 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-797/2012-PCI Sree Chaitanya Institute of Pharmaceutical Sciences, LMD Colony Karimnagar.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-424 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-654/2011-PCI S.S.J. College of Pharmacy, V.N. Pally, R.R. Distt. Hyderabad – 500 075.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-425 Degree IR No.3rd Surprise (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-818/2013-PCI Dhanvanthari Institute of Pharmaceutical Science H.No. 7-119, Ssujathanagar, Village: Kothagudem, Distt. Khammam.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-426 Degree IR No.4th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-988/2013-PCI Viswanadha Institute of Pharmaceutical Sciences, Mindhvanipalem, Vill. Sontyam (SO) Anandapuram Mandal Visakhapatnam – 531 173.	60	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada – 533 103.
Item No.-428 Degree IR No.4th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-458/2008-PCI Koringa College of Pharmacy, Koringa Villlagae-533 461 Tallarevu (Mandal), E.G.Distt.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 063.
Item No.-429 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-536/2012-PCI Vignan Pharmacy College, Vadlamudi, Chebrolu Mandal, Guntur District - 522 213.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada – 533 003.
Item No.-430 Diploma IR No.4th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-815/2012-PCI Jankalyan Vikas Mandal's Swargiya Lilawati Satish Award D.Pharmacy College, Hokarna Tanda, Kukhed, Distt. Nanded.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-431 Diploma IR No.10th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-293/2011-PCI Shri Neminath Jain Brahmacharyaashram's Shri Deepchand Fakir Chand Lodha Pharmacy College, Neminagar, P.O. & Taluka, Chandwad Distt. Nashik – 423 101.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-432 Diploma IR No.8th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-180/2011-PCI Dr. J. J. Magdum Pharmacy College, Shirol – Wadi Road Jaysingpur – 416 101 Distt. Kolhapur.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-433 Diploma IR No.15th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-247/2011-PCI Sahyadri Shikshan Sanstha's College of Pharmacy (Polytechnic) Sawarde Tal. Chiplun - 415 606. Distt. Ratnagiri.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-434 Diploma IR No.2nd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-975/2013-PCI School of Pharmacy Shivam Technical Campus Junction Road Khurja Distt. – 203 131 Bulandshar.	60	From 2012-2013 to 2014-2015	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001. (Upto 2002-03) The Secretary Uttarakhand Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667. Distt. Haridwar. (From 2003-2004)

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-435 Diploma IR No.17th (Feb.,2014) Degree IR No.7th (Feb.,2014)	ORISSA 17-152/2011-PCI Institute of Pharmacy & Technology, Salipur At./P.O. Salipur – 754 202 Distt. Cuttack. 32-170/2014-PCI Institute of Pharmacy & Technology, Salipur At./P.O. Salipur – 754 202 Distt. Cuttack.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017. The Registrar Biju Patnaik University of Technology, Rourkela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika Berhampur – 760 003.
Item No.-436 Diploma IR No.8th (Jan.,2014) Degree IR No.11th (Jan.,2014)	RAJASTHAN 17-555/2012-PCI Sanjivani College of Pharmaceutical Sciences Khetri Vill, Rajota, Distt. Jhunjhunu. 32-193/2009-PCI Sanjivani College of Pharmaceutical Sciences Khetri Vill, Rajota, Distt. Jhunjhunu.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Registrar University of Rajasthan Jaipur. The Member Secretary Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S Hospital Jaipur – 302 001.
Item No.-437 Diploma IR No.7th (Jan.,2014) Degree IR No.6th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-519/2012-PCI Thanthai Roever College of Pharmacy, “Roever Campus” Perambalur – 621212. 32-190/2011-PCI Thanthai Roever College of Pharmacy, “Roever Campus” – Perambalur – 621212.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road, Kilpauk Chennai – 600 010. The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40),P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.-438 Degree IR No.7th (Sept., 2013)	KARNATAKA 32-83/2006-PCI Oxford College of Pharmacy, 1st Phase, J.P. Nagar, C.A. Site No.40, Bangalore – 560 078.	100 (Raise in admissions from 60 to 100 from 2013-2014 a.s.)	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th ‘T’ Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-439 Degree IR No.3rd (Feb., 2014)	RAJASTHAN 32-734/2012-PCI G.D. Memorial College of Pharmacy Sector – 4, Kuri – Bhagrasni Housing Board Jodhpur – 342 005.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Shrijit Chouraha, Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Sanganer Jaipur.
Item No.-440 Diploma IR No.2nd (Feb-Mar, 14)	KERALA 17-996/2013-PCI Triveni Institute of Pharmacy, P.O. Eranellur, Kecherry – 680 501 Dist. Trichur.	60	From 2013-2014 to 2015-2016	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011.
Item No.-441 Diploma IR No.12th (Feb.,2014)	KERALA 17-77/2011-PCI Lisie College of Pharmacy, Lisie Hospital, Ernakulam Kochi – 682 018.	60	2016-2017	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011.
Item No.-442 Diploma IR No.13th (Feb.,2014)	KERALA 17-225/2014-PCI John Enoch College of Pharmacy, Nedumacaud, Karamana, Thiruvananthapuram-695 002.	100	2016-2017	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011.
Item No.-443 Diploma IR No.5th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-665/2011-PCI NCRD's Institute of Pharmacy, Plot No.93, Sector – 19, Nerul (E), Navi Mumbai – 400 706.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 444 Diploma IR No.7th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-600/2007-PCI College of Pharmacy (D.Pharm.) A.P. Mayani, Tal-Khatav, Distt. Satara - 415 102.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 445 Diploma IR No.17th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-197/2011-PCI SPM's Smt. Kusumatai Wankhede Institute of Pharmacy, Katol – 441 302 Distt. Nagpur.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 446 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-918/2011-PCI Late Maharudra (Bappa) Mote College of Pharmacy (D.Pharm) At. Post Girwali Tq Bhoom Distt. Osmanabad.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 447 Diploma IR No.6th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-550/2014-PCI Adarsh Shikshan Sanstha's College of Pharmacy, Post Box No.38, Nagar Road Beed – 431 122.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 448 Diploma IR No.17th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-213/2011-PCI Dhule Charitable Society's, Institute of Pharmacy, Dayasagar Education Campus, City Survey No.4259, Deopur Dhule – 424 002.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 449 Diploma IR No.18th (Feb.,2014) Degree IR No.8th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-56/2010-PCI Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College, Mumbai Agra Road, Panchavati, Nashik - 422 003. 32-93/2010-PCI Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College, Mumbai Agra Road, Panchavati, Nashik - 422 003.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051. The Registrar University of Pune Ganeshkhind Road Pune – 411 007.
Item No.- 450 Degree IR No.2nd (Feb.,2014)	ORISSA 32-468/2014-PCI Dadhichi College of Pharmacy, Vidya-Vihar, Sundergram, Distt.: Cuttack-754 002.	60	2016-2017	The Registrar Biju Patnaik University of Technology, UGIE Complex Rourkela – 769 014.
Item No.- 453 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014) Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-939/2014-PCI Innovative College of Pharmacy, Knowledge Park-II, Plot No.6, Greater Noida - 201 308. 32-852/2011-PCI Innovative College of Pharmacy, Knowledge Park-II, Plot No.6, Greater Noida - 201 308.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001. The Registrar Mahamaya Technical University Sector – 62, C-22, Gautam Budh Nagar Noida – 201 301.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-454 Diploma IR No.5th (Jan.,2014) Degree	UTTAR PRADESH 17-821/2010-PCI Pharmacy College Vill-Itaura, Post Chandeshwar Distt. Azamgarh – 276 138.	60	2016-2017	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
IR No.6th (Jan.,2014)	32-258/2010-PCI Pharmacy College Vill-Itaura, Post Chandeshwar Distt. Azamgarh – 276 138.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-455 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014) Degree	UTTAR PRADESH 17-962/2014-PCI Venkateshwara College of Pharmacy NH-58, Delhi-Roorki Bypass Jatoli Meerut - 250 001.	60	2015-2016	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
IR No.3rd (Feb.,2014)	32-1009/2011-PCI Venkateshwara College of Pharmacy NH-58, Delhi-Roorki Bypass Jatoli Meerut - 250 001.	60	From 2009- 2010 to 2015-2016	The Registrar G.B.T.U. Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-456 Degree IR No.4th (Feb., 2014)	CHHATTISGARH 32-600/2014-PCI Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Group of Institutions (Faculty of Pharmaceutical Science) Junwani, P.O. Nehru Nagar, Bhilai – 490 020 (Chhattisgarh) (Formerly known as Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Sciences Junwani, P.O. Nehru Nagar Bhilai – 490 020 (Chhattisgarh).	60	2016-2017	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University North Park Avenue Sector – 8 Bhilai – 490 009.
Item No.-458 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-560/2011-PCI Rajarshi Shahu College of Pharmacy & Research, Tathwade, Mumbai- Pune Bypass Highway, Pune.	60	2016-2017	The Registrar University of Pune Ganeshkhind Road Pune – 411 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 460 Degree IR No.8th (Feb.,2014)	TAMIL NADU 32-176/2013-PCI K. K. College of Pharmacy, KRA Campus, 1-161, Sankaralunagar Road, Gerugambakkam Chennai – 602101.	50	2016-2017	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
Item No.- 461 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-653/2014-PCI Amity Institute of Pharmacy, Amity University, Lucknow Campus, Viraj Khand – 5, Gomti Nagar Scheme, Lucknow 226 010	60	2016-2017	The Registrar Controller of Examination Amity University, UP Sector – 25 Noida – 201 303.
Item No.- 462 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-1058/2013-PCI Krishnapit Institute of Pharmacy, Plot No. 644, Behind Triveni Glass Factory, Iradatganj Post Ghoorpur, Rewa Road, Allahabad.	60	From 2010- 2011 to 2014- 2015	The Registrar Gautham Buddh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.- 463 Degree IR No.4th (Aug.,2013)	UTTAR PRADESH 32-482/2012-PCI Institute (Department) of Pharmacy, V.B.S. Purvanchal University, Shahganj Road, Jaunpur – 222 001.	60	2016-2017	The Registrar Veer Bahadur Singh Purvanchal University Shahganj Road Jaunpur – 222 001.
Item No.- 464 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-971/2013-PCI Faculty of B.Pharm Malti Memorial Trusts CMS Group of Institutions, 8mile Stone, Rewa Road, Iradataganj, Ghoorpur, Allahabad - 212 110.	60	From 2009- 2010 to 2014- 2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-470 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No. 5th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D (P.B.) 50-370/2014-PCI Malla Reddy Institute of Pharmaceutical Sciences, Masiammaguda, Dhulapally Post, Via Hakimpet, Secunderabad – 500 014.	10	From 2011-2012 to 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.-481 Diploma IR No.8th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-605/2013-PCI Hindu College of Pharmacy Amaravathi Road, Koretipadu, Guntur - 522 002.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.7th (Jan.,2014)	32-231/2013-PCI Hindu College of Pharmacy Amaravathi Road, Koretipadu, Guntur - 522 002.	100	2016-2017	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar Guntur – 522 510.
Item No.-482 Diploma IR No.9th (March,2014)	KARNATAKA 17-411/2013-PCI Vidya Vikas Trust's, College of Pharmacy, Naubad, Bidar – 585 403.	60	2016-2017	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.-483 Diploma IR No.12th (Feb.,2014)	KARNATAKA 17-459/2013-PCI Amrith Educational & Cultural Society's, Pavan College of Pharmacy, Bangalore-Chennai Bye- Pass Road, Pavan Nagar, PC. Extn. Kolar.	60	2016-2017	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Item No.-484 Diploma IR No.15th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-206/2010-PCI J.S.P.M's Sudhakar Rao Naik Institute of Pharmacy (D.Pharm) (Distt. Yavatmal) Pusad - 445 204.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-485 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014) Degree	MAHARASHTRA 17-938/2012-PCI Jalgaon Zillha Medicine Dealers Society's College of Pharmacy Mamurabad, P.B. No.157 Gate No.285 Jalgaon – 425 001.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
IR No.3rd (Feb.,2014)	32-846/2012-PCI Jalgaon Zillha Medicine Dealers Society's College of Pharmacy Mamurabad, P.B. No.157 Gate No.285 Jalgaon – 425 001.	60	2016-2017	The Registrar North Maharashtra University NMU Nagar, P.B. No.80 Jalgaon – 425 001.
Item No.-486 Diploma IR No.6th (Feb.,Mar,2014)	RAJASTHAN 17-535/2011-PCI Shri Bajrang College of Pharmacy DEEG (Bharatpur) - 321 203.	60	2016-2017	The Registrar Rajasthan University Health Sciences, Kumbha Marg, Sector-18 Pratap Nagar Tonk Road, Jaipur- 302 003.
Item No.-488 Degree IR No.6th Surprise (Nov., 2013)	ANDHRA PRADESH 32-464/2013-PCI Creative Education Society's College of Pharmacy, NH-7, Chinnatekur, Kurnool – 518 218.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Hyderabad – 515 002.
Item No.-491 Degree IR No.5th (Jan., 2014)	ANDHRA PRADESH 32-582/2013-PCI Sree Dattha Institute of Pharmacy Sheriguda (V) Ibrahimpattanam (M), Ranga Reddy (Distt.) - 501 510.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 492 Degree IR No.7th Surprise (Jan., 2014)	CHHATTISGARH 32-637/2014-PCI Shrishti Education & Welfare Society Apollo College, In front of Veternity College, Durg – 491 001.	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University North Park Avenue Sector – 8 Bhilai – 490 009.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-498 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No. 6th (Feb.,2014)	KARNATAKA Pharm.D (P.B.) 50-185/2014-PCI B.L.D.E Association's College of Pharmacy, Post. Box No. 40, BLDE University Campus, Solapur Road, Bijapur – 586 103.	10	From 2011- 2012 to 2014- 2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-514 Diploma IR No.5th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-713/2011-PCI Maharajah's College of Pharmacy, Phool Baugh, Vizianagaram – 534 002.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.4th (Jan.,2014)	32-350/2011-PCI Maharajah's College of Pharmacy, Phool Baugh, Vizianagaram – 534 002.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Waltair Visakhapatnam – 530 063
Item No.-515 Diploma IR No.4th (Feb.,2014)	CHHATTISGARH 17-786/2011-PCI School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur – 495 004.	60	2016-2017	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University North Park Avenue Sector – 8 Bhilai – 490 009.
Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	32-449/2008-PCI School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur – 495 004.	60	2016-2017	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University North Park Avenue Sector – 8 Bhilai – 490 009.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 517 Diploma IR No.7th (March.,2013) Degree	KARNATAKA 17-38/2013-PCI Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Science, 22nd Main, 24th Cross, B.S.K. 2nd Stage, Opp. B.D.A. Complex, Bangalore. 32-52/2010-PCI Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Science, 22nd Main, 24th Cross, B.S.K. 2nd Stage, Opp. B.D.A. Complex, Bangalore.	60 60	2018-2019 2018-2019	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027. The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-519 Diploma IR No.10th (Feb- Mar,2014)	MAHARASHTRA 17-400/2011-PCI Ravi Institute of Diploma in Pharmacy, Devi Road, Mahadula, Koradi, Th. Kamptee, Distt. Nagpur.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-520 Diploma IR No.8th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-144/2011-PCI Nandurbar Taluka Vidhayak Samiti's Institute of Pharmacy, Khodai Mata Road, Nandurbar – 425 412 Distt. Dhule.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-521 Diploma IR No.4th (Feb.,2014) Degree	MAHARASHTRA 17-788/2011-PCI Abhinav Education Society's College of Pharmacy (D.Pharm), 23/2/3, A/p Narhe Tal. Haveli, Dist. Pune - 411 041.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
IR No.3rd (Feb.,2014)	32-477/2011-PCI Abhinav Education Society's College of Pharmacy (B.Pharm), 23/2/3, A/p Narhe Tal. Haveli, Dist. Pune - 411 041	60	2016-2017	The Registrar University of Pune Ganeshkhind Road Pune – 411 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-522 Diploma IR No.17th (March,2014)	MAHARASHTRA 17-116/2011-PCI Nagar Yuwak Shikshan Sanstha's Adv. V.R. Manohar Institute of Diploma in Pharmacy (Formerly Institute of Diploma in Pharmacy) Wanadongri, Hingna Road, Nagpur - 144 110.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-523 Diploma IR No.17th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-212/2011-PCI Institute of Pharmacy, Faizpur, Tal -Yawat, Distt. Jalgaon – 425 503.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-524 Diploma IR No.6th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-635/2011-PCI Shri Jain Vidya Prasark Mandal's Shri Fattechand Jain College of Pharmacy, Chinchwad Telco Road, D-II, 60-61, Chinchwad MIDC, Chinchwad, Pune – 411 019.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-525 Diploma IR No.15th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-112/2011-PCI Kolhapur District Chemists Association, Institute of Pharmacy, Air Port Road Ujalaiwadi, Kolhapur – 416 004.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-526 Diploma IR No.7th (March,2014)	ORISSA 17-764/2014-PCI Paradeep Pharmacy College, Tirtol, Jagatsinghpur – 754 137.	40	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-528 Diploma IR No.2nd (Feb/March,2 014)	UTTAR PRADESH 17-989/2010-PCI Shivmurti College of Pharmacy Vill-Sandawa Duban, Post-Sahebganj, Dist- Pratapgarh-230137	60	From 2013-2014 to 2014-2015	The Secretary Board of Tech. Education, Guru Gobind Singh Marg, UP 1, Bans Mandi Chauraha, harbagh Lucknow - 226 001. The Secretary Uttarakhand Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 776, Distt. Haridwar.
Item No.-529 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 32-614/2010-PCI Institute of Pharmaceutical Research GLA University Chaumuhan Mathura Mathura-Delhi Road, P.O. Chaumuhan, Mathura - 281 406	60	2014-2015	The Registrar GLA University Chaumuhan Mathura – 281 406.
Item No.-530 Degree IR No.4th (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-642/2013-PCI Raja Bahadur Venkatrama Reddy, Women's College of Pharmacy, Hyderabad.	100	2016-2017	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
Item No.-532 Degree IR No.3rd (Feb., 2014)	HIMACHAL PRADESH 32-786/2012-PCI Dreamz College of Pharmacy, Vill. Khilra P.O. Meramasit, The. Sunder Nagar, Distt. Mandi – 175 036.	60	2016-2017	The Registrar Himachal Pradesh University Summer Hill Shimla – 171 005.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-535 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-580/2014-PCI Institute of Pharmacy Shree Harish Chandra Post Graduate College Bawan Beegha Campus, Baniyapur, Azamgarh Road, Varanasi - 221 002.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-536 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-924/2014-PCI Faculty of Pharmacy, Naraina Vidya Peeth Groups of Institute 1080, Ganga Gang Panki Kanpur-208 020	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021.
Item No.-549 Pharm.D (P.B) IR No. 6th (Feb.,2014)	KARNATAKA Pharm.D (P.B.) 50-138/2014-PCI Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy, B.G. Nagara – 571 448, Nagemangale Taluk, Tq. Mandye Distt.	10	2014-2015 (For Pharm.D. (PB))	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 551 and 686 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-372/2014-PCI Malla Reddy College of Pharmacy, Maisammaguda, Dhualapally Post, Via Hakimpet Secunderabad - 500 014.	30	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.)	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
Item No.- 553 and 681 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.6th (Jan-Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-104/2014-PCI Sri Venkateshwara College of Pharmacy, Madhapur 86, Hi-Tech City Road, Madhapur – 500 081 Hyderabad.	30	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.)	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
	Pharm.D. (PB) 50-104/2014-PCI Sri Venkateshwara College of Pharmacy, Madhapur 86, Hi-Tech City Road, Madhapur – 500 081 Hyderabad.	10	Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB))	

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 554 and 685 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-291/2013-PCI Raghavendra Institute of Pharmaceutical Education & Research, K.R. Palli Cross, Chiyyedu, Anantapur – 515 721. Pharm.D. (PB) 50-291/2013-PCI Raghavendra Institute of Pharmaceutical Education & Research, K.R. Palli Cross, Chiyyedu, Anantapur – 515 721.	30 10	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.) Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur - 515 002.
Item No.-561 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No. 6th (Feb.,2014)	KARNATAKA Pharm.D (P.B.) 50-83/2014-PCI Oxford College of Pharmacy, 1st Phase, J.P. Nagar, C.A. Site No.40, Bangalore – 560 078.	10	2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 562 and 688 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.6th (Feb- Mar,2014)	KARNATAKA Pharm.D 50-11/2014-PCI Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal University, Madhav Nagar, Manipal- 576 104 Udipi Distt. Pharm.D. (PB) 50-11/2014-PCI Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal University, Madhav Nagar, Manipal- 576 104 Udipi Distt.	30 10	From 2008-2009 to 2018-2019 (For Pharm.D.) Upto 2018-2019 (For Pharm.D. (PB)	The Secretary Manipal University, (Deemed University) University Building Madhav Nagar, Manipal- 576 104.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 564 and 691	KARNATAKA Pharm.D 50-88/2014-PCI	30	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Pharm.D and Pharm.D (P.B)	Sri Jagadguru Mallikarjuna Murugharajendra College of Pharmacy SJMIT Campus, NH-4, Chitradurga – 577 502.			
IR No.8th (Feb.,2014)	Pharm.D. (PB) 50-88/2014-PCI Sri Jagadguru Mallikarjuna Murugharajendra College of Pharmacy SJMIT Campus, NH-4, Chitradurga – 577 502.	10	From 2011-2012 to 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	
Item No.- 565 and 690	KARNATAKA Pharm.D 50-82/2014-PCI	30	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Pharm.D and Pharm.D (P.B)	HKES's Matoshree Taradevi Rampure, Institute of Pharmaceutical Sciences, Gulbarga.			
IR No.8th (Jan.,2014)	Pharm.D. (PB) 50-82/2014-PCI HKES's Matoshree Taradevi Rampure, Institute of Pharmaceutical Sciences, Gulbarga.	10	Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	
Item No.- 566 and 692	TAMIL NADU Pharm.D 50-49/2013-PCI	30	From 2008-2009 to 2018-2019 (For Pharm.D.)	The Registrar J.S.S. University Sri Shivarathreeswara Nagar, Mysore – 570 015.
Pharm.D and Pharm.D (P.B)	J.S.S. College of Pharmacy, Rocklands P.O. Box No. 20 Ootacamund – 643 001.			
IR No.7th (Feb.,2014)	Pharm.D. (PB) 50-49/2013-PCI J.S.S. College of Pharmacy, Rocklands P.O. Box No. 20 Ootacamund – 643 001.	10	Upto 2018-2019 (For Pharm.D. (PB)	

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-570 Diploma IR No.15th (Feb, 2014)	KARNATAKA 17-295/2012-PCI U.V.K. Gautham College of Pharmacy, Sultanpalaya, R.T. Nagar Post, Bangalore – 560 032	60	2016-2017	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
Degree IR No.10th (Feb, 2014)	32-120/2009-PCI U.V.K. Gautham College of Pharmacy, Sultanpalaya, R.T. Nagar Post, Bangalore – 560 032	60	2016-2017	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-572 Diploma IR No.17th (March, 2014)	MAHARASHTRA 17-163/2011-PCI A.S.P. Mandal's D.Pharmacy Institute, P.B. No. 39, Keshav Nagar, Ghatangiri Road, Osmanabad- 413 501	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051
Item No.-573 Diploma IR No.6th (March, 2014)	MAHARASHTRA 17-662/2011-PCI Anurag College of Pharmacy, Bhandara Road Railway Station, Warthi, Tah. Mohadi, Distt. Bhandara - 441 905	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051
Item No.-574 Diploma IR No. 3rd (Feb / March, 2014)	MAHARASHTRA 17-896/2011-PCI Shree Babasaheb Gharfalkar College of Pharmacy, Gadge, Nachangaon, (Pulgaon), Distt Wardha	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-575 Diploma IR No.8th (Feb, 2014)	MAHARASHTRA 17-624/2011-PCI Khandesh Education Society's, College of Pharmacy,P.O. Box No. 28, Near Railway Station, Amalner- 425 401	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-576 Diploma IR No.18th (Feb, 2014)	MAHARASHTRA 17-63/2014-PCI M.A. Education Society's Kamala Nehru Polytechnic (Pharmacy), P.B. No.65, Rouza Baugh, Aurangabad – 431 001	120	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-577 Diploma IR No. 4th (Feb / March, 2014)	MAHARASHTRA 17-807/2011-PCI Diploma in Pharmacy College, Janata High School Campus, Naigaon (BZ), Tq. Naigaon (Kh), Nanded	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-578 Diploma IR No.6th (March, 2014)	MAHARASHTRA 17-634/2011-PCI Kisan Dnyanody Mandal, Gudhe Sanchalit Institute of Pharmacy, Chalisgaon, Dhule Road, Near Kharatmal Petrol Pump, Chalisgaon Distt. Jalgaon	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.-582 and 682 Pharm.D and Pharm.D (P.B)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-24/2014-PCI St. Peter's Institute of Pharmaceutical Sciences, Vidyanagar, Hanamkonda - 506 001.	30	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.)	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyaपुरी Warangal – 506 009.
IR No.7th (March,2014)	Pharm.D. (PB) 50-24/2014-PCI St. Peter's Institute of Pharmaceutical Sciences, Vidyanagar, Hanamkonda - 506 001.	10	Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 583 and 684 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.8th (March,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-207/2014-PCI P. Rami Reddy Memorial College of Pharmacy, 1-35/1, Prakruthi Nagar, Utukur, Kadapa – 516 003. Pharm.D. (PB) 50-207/2014-PCI P. Rami Reddy Memorial College of Pharmacy, 1-35/1, Prakruthi Nagar, Utukur, Kadapa – 516 003.	30 10	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.) Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Hyderabad – 515 002.
Item No.-590 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (March,2014)	KARNATAKA Pharm.D (P.B.) 50-191/2014-PCI Acharya & B.M. Reddy College of Pharmacy, Soladaevanahalli Hesargatta Road, Chikkabanawara Post-560090	10	Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.-591 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.6th (Feb,2014)	KARNATAKA Pharm.D (P.B.) 50-68/2014-PCI PES College of Pharmacy 50, Feet Road Hanumanthanagar Bangalore – 560 050.	10	Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 593 and 689 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (March,2014)	KARNATAKA Pharm.D 50-46/2014-PCI J.S.S. Mahavidyapeetha College of Pharmacy, Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore – 570 015. Pharm.D. (PB) 50-46/2014-PCI J.S.S. Mahavidyapeetha College of Pharmacy, Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore – 570 015.	30 10	From 2008- 2009 to 2018- 2019 (For Pharm.D.) Upto 2018-2019 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar J.S.S. University Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore – 570 015.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 595 and 693 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (Feb.,2014)	TAMIL NADU Pharm.D 50-61/2014-PCI Deptt. of Pharmacy, University Institute of Pharmaceutical Technology, Faculty of Engg. & Technology, Annamalai University, Annamalainagar - 608 002. Pharm.D. (PB) 50-61/2014-PCI Deptt. of Pharmacy, University Institute of Pharmaceutical Technology, Faculty of Engg. & Technology, Annamalai University, Annamalainagar - 608 002.	30 30 10 05 10	From 2008-2009 to 2018-2019 (For Pharm.D.) 2008-2009 2009-2010 From 2010-2011 to 2013-2014 From 2014-2015 to 2018-2019 (For Pharm.D. (PB	The Registrar Annamalai University, The Controller of Examinations Annamalainagar - 608 002.
Item No.-615 Diploma IR No. 4th (Feb.,2014)	HIMACHAL PRADESH 17-965/2012-PCI K.C. Institute of Pharmaceutical Sciences, VPO Pandoga, Uprala, Teh. & Distt.Una-177 207.	60	2014-2015	The Secretary Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board, Civil Line Dharmshala Distt. Kangra – 176 057
Degree IR No. 4th (Feb.,2014)	32-1024/2011-PCI K.C. Institute of Pharmaceutical Sciences, VPO Pandoga, Uprala, Teh. & Distt.Una-177 207.	60	From 2010-2011 to 2014-2015	The Registrar Himachal Pradesh Technical University, Gandhi Chowk Hamirpur.
Item No.-616 Diploma IR No. 13th (March,2014)	KERALA 17-97/2002-PCI Caritas College of Pharmacy Thellakom, P.O. Kottayam - 686 630.	60	2016-2017	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695011.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 617 Diploma IR No.16th (March,2014)	KERALA 17-228/2010-PCI A.M. College of Pharmacy, Vavvakkavu Post, Karunagappally, Kollam – 690 528.	90	2016-2017	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011
Item No.- 618 Diploma IR No.4th (March,2014)	MAHARASHTRA 17-849/2010-PCI Shivneri Institute of Pharmacy, At./Post- Khanapur, Tal. Junnar, Distt. Pune.	60	2017-2018	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 619 Diploma IR No.3rd (Feb.,2013)	MAHARASHTRA 17-959/2012-PCI Shraddha Rural Medical Social Welfare and Educational Trust's Sahakar Maharshi Kisanrao Varal Patil College of Pharmacy (D.Pharmacy), A/P Nighoj, Tal Parner, Distt. Ahmednagar.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 620 Diploma IR No.7th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-486/2011-PCI Shri S.P. Shikshan Sanstha, Smt. Shantabai Patil Institute of Diploma in Pharmacy, Behind Railway Station, New Kamptee, Kamptee – 441 002 Distt. Nagpur.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 621 Diploma IR No.16th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-120/2011-PCI A.I.T.s' Institute of Pharmacy Post Box No.123, Survey No.100 Pharmacy Nagar, Malegaon, Nashik - 423 203.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 623 Degree IR No.3rd (March,2014)	GUJARAT 32-1013/2012-PCI S.M. Shah Pharmacy College, At. & P.O. Amasaran, Tal. Mehmadvad, Distt. Kheda, - 387 130.	60	From 2010-2011 to 2014-2015	The Registrar Gujarat Technological University ACPC Building, 2nd Floor, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura, Ahmedabad – 380 015.
Item No.- 624 Degree IR No.4th (March,2014)	KERALA 32-448/2014-PCI Rajiv Gandhi Institute of Pharmacy, Meeliyat, (P.O.), Trikaripur, Kasargod (Dt.) – 671 310.	60	2016-2017	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 625 Degree IR No.4th (March,2014)	KERALA 32-892/2014-PCI Karuna College of Pharmacy, Irinkittor, P.O. Thirumittakkode, Palakkad Distt. – 679 533.	60	From 2010-2011 to 2014-2015	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 626 Degree IR No.2nd (March,2014)	KERALA 32-958/2014-PCI College of Pharmacy, Kannur Medical College, Post Anjarakandy, Kannur – 670 612.	60	From 2010-2011 to 2014-2015	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 627 Degree IR No.7th (March,2014)	KERALA 32-284/2013-PCI Grace College of Pharmacy, Post: Kodunthirappully 678 004 Palakkad (Dt.).	60	2016-2017	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 628 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-743/2011-PCI Arvind Gavali College of Pharmacy Jaitapur Satara, S.N. 261 At.: Jaitpur Post: Chinchner Vandan Tal/Distt. Satara- 415 004.	60	2016-2017	The Registrar Shivaji University, Kolhapur – 416 004.
Item No.- 629 Degree IR No.5th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-236/2012-PCI Progressive Education Society's Modern College of Pharmacy, Sector-21, Yamuna Nagar, Nigdi Pune – 411 044.	60	2016-2017	The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind Road, Pune – 411 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 630 Degree IR No.6th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-355/2012-PCI Yash Institute of Pharmacy, P.B.No. 968, Bajaj Nagar, Waluj, Aurangabad - 431 004.	60	2016-2017	The Registrar, Dr.B.R. Ambedkar Marathwada University Campus Aurangabad – 431 004.
Item No.- 631 Degree IR No.6th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-134/2014-PCI Bharati Vidyapeeth's College of Pharmacy, Sector – 8, C.B.D. Navi Mumbai – 400 614.	60	2018-2019	The Registrar, University of Mumbai Kalina, Santacruz (E), Fort Mumbai – 400 032.
Item No.- 632 Degree IR No.3rd (March,2014)	UTTARAKHAND 32-984/2014-PCI Om Bio-Sciences & Pharma College, Onward Roorkee 01 Km. from Patanjali Yogpeeth, Near Crystal World, N.H. – 58, Panchayanpur, P.O. Dudaltpur, Roorkee.	60	2015-2016	The Registrar Uttarakhand Technical University A-12, Sarashwati Vihar, Lower Adhoiwala, P.O. Dalanwala Dehradun.
Item No.- 633 Diploma IR No.9th (Feb.,2014) Degree IR No.7th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-476/2011-PCI Sitabai Thite College of Pharmacy, Shirur (Ghodnadi) – 412 210 Distt. Pune. 32-270/2011-PCI Sitabai Thite College of Pharmacy, Shirur (Ghodnadi) – 412 210 Distt. Pune.	60 60	2016-2017 2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051. The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind, Pune – 411 007.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 634 Diploma IR No.15th (Feb.,2014) Degree	MAHARASHTRA 17-209/2011-PCI Vidya Bharati College of Pharmacy, C.K. Naidu Marg, Camp, Amravati – 444 602.	60	2017-2018	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
IR No.7th (Feb.,2014)	32-153/2010-PCI Vidya Bharati College of Pharmacy, C.K. Naidu Marg, Camp, Amravati – 444 602.	60	2017-2018	The Registrar, Sant Gadge Amravati University University Campus Amravati – 444 602.
Item No.- 635 Diploma IR No.16th (March,2014) Degree	KERALA 17-59/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, Govt. Medical College, Gandhi Nagar, P.O. Koyyayam – 686 008.	30	2014-2015	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011.
IR No.2nd (March,2014)	32-1019/2014-PCI College of Pharmaceutical Sciences, Govt. Medical College, Gandhi Nagar, P.O. Koyyayam – 686 008.	60	2014-2015	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 636 Diploma IR No.8th (Feb.,2014) Degree	KARNATAKA 17-445/2011-PCI Basaveshwar College of Pharmacy Santiniketan Educational Cammpus, Kamthatna Road, Chidri, Distt. Bidar – 585 403.	60	2014-2015	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore – 560 027.
IR No.2nd (Feb.,2014)	32-1048/2012-PCI Basaveshwar College of Pharmacy Santiniketan Educational Cammpus, Kamthatna Road, Chidri, Distt. Bidar – 585 403.	60	From 2006-2007 to 2014-2015	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 637 Diploma IR No.4th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-829/2014-PCI Nandini Nagar Mahavidyalaya College of Pharmacy, Vill.-Turkauli Post, Nawabganj, Distt. Gonda – 271303.	60	2016-2017	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001 The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
Degree IR No.6th (Feb.,2014)	32-263/2010-PCI Nandini Nagar Mahavidyalaya College of Pharmacy, Vill.-Turkauli Post, Nawabganj, Distt. Gonda – 271303.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021
Item No.-639 Degree IR No.3rd Surprise (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-973/2013-PCI Mother Teresa Pharmacy College Sanketika Nagar, Sathupally – 507 303.	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.-641 Degree IR No.4th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-424/2014-PCI Sanjivani Rural Education Society's, Sanjivani College of Pharmaceutical Education & Research, At-Sahajanandnagar, Post. Shingnapur, Tal.- Kapargaon, Distt. Ahmednagar. – 423 603.	60	2016-2017	The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind, Pune – 411 007.
Item No. 642 Degree IR No.9th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-186/2012-PCI Poojya Sane Guruji Vidya Prasarak Mandal's College of Pharmacy Shahda, Distt.Nandurbar-425 409	40	2016-2017	The Registrar, North Maharashtra University Umavinagar, P.B. No.80 Jalgaon – 425 001.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 643 Degree IR No.4th (March,2014)	MAHARASHTRA 32-526/2009-PCI Gahlot Institute of Pharmacy, Plot No.59, Sector-14, Koper Khairane, Navi Mumbai – 400 709.	60	2014-2015	The Registrar University of Mumbai Fort, Kalina, Santacruz (E) Mumbai - 400 032.
Item No.- 644 Degree IR No.3rd (March,2014)	GUJARAT 32-998/2012-PCI Shree Mukundlal Vitthaladas Shah Pharmacy College, At. Gajan Ta. Modasa, Distt. Sabarkantha.	60	From 2009-2010 to 2014-2015	The Registrar Gujarat Technological University ACPC Building, 2nd Floor, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura, Ahmedabad – 380 015.
Item No.- 646 Degree IR No.6th (March,2014)	PUNJAB 32-281/2013-PCI Govt. Polytechnic, P.O. Rayon & Silk Mills, Amritsar – 143 104.	30	2016-2017	The Registrar Punjab Technical University Jalandhar – Kapurthala Road Jalandhar – 144 001.
Item No.- 647 Degree IR No.7th (March,2014)	PUDUCHERRY 32-219/2007-PCI College of Pharmacy Mother Theresa Institute of Health Sciences, A Government of Puducherry Institution Indira Nagar Puducherry – 605 006.	60	2016-2017	The Deputy Registrar Pondicherry University R. Venkataraman Nagar, Kalapet Puducherry – 605 014.
Item No.- 648 Degree IR No.4th (March,2014)	KERALA 32-1029/2013-PCI K V M College of Pharmacy, Kokkothamangalam P.O. Cherthala – 688 524 Alappuzha Distt.	60	From 2010-2011 to 2014-2015	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.
Item No.- 649 Diploma IR No.16th (March,2014)	KERALA 17-711/2005-PCI Ezhuthachan College of Pharmaceutical Sciences, Marayamuttom, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram-695 131.	60	2016-2017	The Chairman Board of D.Pharm Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram-695 011.
 Degree IR No.2nd (March,2014)	 32-299/2005-PCI Ezhuthachan College of Pharmaceutical Sciences, Marayamuttom, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram-695 131.	60	2016-2017	The Registrar Kerala University of Health Sciences Medical College P.O. Thrissur – 680 596.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 650 Diploma IR No.4th (March,2014)	MAHARASHTRA 17-797/2011-PCI Ideal College of Pharmacy, 21/11, Adarsh Vidya Nagari, At-Bhal, P.O. Dwarli, Via Kalyanm, Tal Ambernath, Dist. Thane – 421 301.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 651 Diploma IR No.5th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-607/2011-PCI Agnihotri Institute of Pharmacy College, Bapugi Wadi, Sindi (Meghe) Wardha – 442 001.	60	2014-2015	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Degree IR No.4th (Feb.,2014)	32-275/2014-PCI Agnihotri Institute of Pharmacy College, Bapugi Wadi, Sindi (Meghe) Wardha – 442 001.	60	2014-2015	The Registrar, Rashtrasant Tukdoji Maharaj University, Nagpur Maharaja Baugh, Amravati Road Nagpur.
Item No.- 652 Diploma IR No.19th (March,2014)	MAHARASHTRA 17-156/2014-PCI Maharashtra Polytechnic Institute (D.Pharm.) At. Po. Nilanga Distt. Latur – 413 521.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Degree IR No.8th (March,2014)	32-69/2011-PCI M.S.S. Maharashtra College of Pharmacy At. Po. Nilanga Distt. Latur – 413 521.	60	2016-2017	The Registrar, Swami Ramanand Teerth Marathwada University Dnyanteertha, Vsihnupuri, Nanded – 431 606

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 653 Diploma IR No.9th (Mar-Apr,2014)	MAHARASHTRA 17-429/2012-PCI Navyug Vidyapeeth Trust's College of Pharmacy, Ladvali, Mahad, Raigad 402 301.	60	2017-2018	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 654 Diploma IR No.14th (March,2014)	MAHARASHTRA 17-277/2011-PCI Shri Laxmanrao Mankar Institute of Pharmacy, Amgaon – 441 902 Distt. Gondia.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 655 Diploma IR No.9th (April,2014)	MAHARASHTRA 17-787/2011-PCI Mahatma Basweshwar Education Society's College of Pharmacy, Near Women's Polytechnic Barshi Road, Latur - 413 531.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Item No.- 656 Diploma IR No.13th (March,2014)	PUNJAB 17-260/2011-PCI S.D. College of Pharmacy Barnala.	60	2016-2017	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial training, Plot No.1 – A, Sector 36-A, Chandigarh
Degree IR No.8th (March,2014)	32-287/2009-PCI S.D. College of Pharmacy Barnala.	40	2016-2017	The Registrar Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Byepass, G.T. Road, Ladowali Road, Jalandhar – 144 001

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For adms. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 657 Diploma IR No.7th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-547/2011-PCI Acharya Narendra Deo College of Pharmacy, Babhnan Gonda – 272 161.	60	2016-2017	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001 The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
Degree IR No.5th (Feb.,2014)	32-197/2000-PCI Acharya Narendra Deo College of Pharmacy, Babhnan Gonda – 272 161.	60	2016-2017	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021
Item No. 658 Diploma IR No.3rd (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 17-933/2014-PCI Prasad Polytechnic Punch-Hattia Jaunpur-222 001.	60	2014-2015	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, 1, Bans Mandi Chauraha Lucknow - 226 001
Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	32-787/2010-PCI Prasad Polytechnic of Technology (B.Pharm), Punch- Hattia Jaunpur-222 001.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021
Item No.- 659 Diploma IR No.3rd (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 17-910/2013-PCI Sir Madanlal Institute of Pharmacy, Alampur Hauz, Agra Road, Etawah – 206 001.	60	2014-2015	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001 The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	32-616/2009-PCI Sir Madanlal Institute of Pharmacy, Alampur Hauz, Agra Road, Etawah – 206 001.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 662 Degree IR No.6th (March,2014)	MAHARASHTRA 32-172/2014-PCI M.C.E. Society's Allana College of Pharmacy, 2390-B, K.B. Hidayatullah Road, Azam Campus, Pune – 411 001.	60	2016-2017	The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind Road, Pune – 411 007.
Item No.- 663 Degree IR No.2nd (April,2014)	MADHYA PRADESH 32-1093/2014-PCI Sri Satya Sai School of Pharmacy, SH-18, Opposite Oilfed Plant, Pachama Bhopal Indore Sehore.	60	From 2007-2008 to 2014-2015	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya, Airport, Byepass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
Item No.- 664 Degree IR No.4th (March,2014)	UTTARAKHAND 32-328/2012-PCI Department of Pharmacy (Kumaun University), Block Road, Bhimtal, Nainital.	30	2016-2017	The Registrar Kumaun University Nainital – 263 001.
Item No.- 673 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No. 7th (March,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-210/2013-PCI Vaagdevi College of Pharmacy, H.No. 2-2-457/A, Ramnagar, Hanmakonda, Warangal– 506 001	30	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.)	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri Warangal – 506 009.
	Pharm.D. (PB) 50-210/2013-PCI Vaagdevi College of Pharmacy, H.No. 2-2-457/A, Ramnagar, Hanmakonda, Warangal– 506 001	10	Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	
Item No.- 694 Diploma IR No.4th (April,2014)	MAHARASHTRA 17-953/2014-PCI Dr. D.B.K.S. Sanstha's Uttamrao Deshmukh Institute of Pharmacy, A/p Dharmapuri, Distt. Prabhani.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 696 Diploma IR No.10th (Mar-Apr,2014) Degree	ORISSA 17-363/2014-PCI Indira Gandhi Institute of Pharmaceutical Sciences, I.R.C. Village, Bhubaneswar - 751 015.	60	2016-2017	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubaneswar – 751 017.
IR No. 6th (Mar-Apr,2014)	32-188/2014-PCI Indira Gandhi Institute of Pharmaceutical Sciences, I.R.C. Village, Bhubaneswar - 751 015.	60	2016-2017	The Registrar Utkal University Vani Vihar Bhubaneswar – 751 004.
Item No.- 697 Diploma IR No.6th (April,2014)	UTTAR PRADESH 17-556/2011-PCI Shri Gopichand College of Pharmacy & Technology, Ahera Bagpat – 250 609.	60	2014-2015	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001. The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
Degree IR No.8th (April,2014)	32-217/2010-PCI Shri Gopichand College of Pharmacy & Technology, Ahera Bagpat – 250 609.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.
Item No.- 698 Diploma IR No.3rd (March,2014)	UTTAR PRADESH 17-889/2010-PCI Sri Sai Institute of Pharmacy, Laxmangarhi, Khair, Aligarh – 202 001.	60	2016-2017	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001. The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 699 Diploma IR No.6th (April,2014)	UTTARAKHAND 17-106/2012-PCI Govt. Polytechnic, Gaucher (Chamoli).	40	2014-2015	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
Item No.- 701 Degree IR No.3rd (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 32-565/2011-PCI Jayawant Shikshan Prasarak Mandal's Jayawantrao Sawant College of Pharmacy and Research, S.No.58, JSPM Campus, Handewali Road, Hadapsar, Pune - 411 028	60	2016-2017	The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind Road, Pune – 411 007.
Item No.- 706 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.6th (March,2014)	KARNATAKA Pharm.D 50-112/2014-PCI N.E.T. Pharmacy College, Navodaya Nagar Mantralayam Road, Raichur- 584 103. Pharm.D. (PB) 50-112/2014-PCI N.E.T. Pharmacy College, Navodaya Nagar Mantralayam Road, Raichur- 584 103.	30 10	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.) Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No. 708 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (April,2014)	TAMIL NADU Pharm.D 50-76/2013-PCI College of Pharmacy, Sri Ramakrishna Institute of Paramedical Sciences, 395, Sarojini Naidu Road, Coimbatore – 641 044. Pharm.D. (PB) 50-76/2013-PCI College of Pharmacy, Sri Ramakrishna Institute of Paramedical Sciences, 395, Sarojini Naidu Road, Coimbatore – 641 044.	30 10	From 2008-2009 to 2018-2019 (For Pharm.D.) Upto 2018-2019 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 710 Diploma IR No.6th (Feb.,2014)	MAHARASHTRA 17-640/2014-PCI Jamia College of Pharmacy (D. Pharmacy) Molgi Road, Tal. Akkalkuwa, Dist.Nandurbar – 425415.	60	2016-2017	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Degree				
IR No.3rd (Feb.,2014)	32-745/2010-PCI Ali-Allana College of Pharmacy (B.Pharmacy), Molgi Road, Tal. Akkalkuwa, Dist. Nandurbar – 425 415.	60	2016-2017	The Registrar, North Maharashtra University NMU Nagar, P.B. No.80 Jalgaon – 425 001.
Item No.- 711 Diploma IR No.3rd (Dec.,2013)	RAJASTHAN 17-902/2013-PCI Varun College of Pharmacy Village: Chavandia, Teh. Jamwaramgarh, Jaipur - 303 301.	60	2014-2015	The Registrar, Rajasthan University of Health Sciences, Shrijit Circle, Kumbha Marg, Sector – 18, Pratap Nagar, Tonk Road Jaipur
Item No.- 714 Degree IR No.3rd (April,2014)	MAHARASHTRA 32-727/2014-PCI H.K. College of Pharmacy, H.K. Building, Pratiksha Nagar,Oshiwara Jogeswari Mumbai.	60	2015-2016	The Registrar, University of Mumbai Mumbai – 400 032.
Item No.- 715 Degree IR No.3rd (March,2014)	ANDHRA PRADESH 32-627/2013-PCI Sri Sai Aditya Insitute of Pharmaceutical Sciences & Research, Aditya Nagar, Surampleam A.D.B. Road, Peddapuram, East Godavari Distt. 533 437.	60	2016-2017	The Registrar Andhra University Visakhapatnam – 530 003.
Item No.- 716 Degree IR No.4th (March,2014)	UTTAR PRADESH 32-1074/2014-PCI Varanasi College of Pharmacy, Vill-Sarai Takki P.O Ramai Patti Distt Varanasi.	60	2016-2017	The Registrar Gautham Budha Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admsn. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.-722 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.8th (March,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-375/2014-PCI GIET School of Pharmacy , NH-5, Chaitanya Nagar, Rajahmundry - 533 294, EG District.	30	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.)	The Registrar Andhra University Waltair Visakhapatnam – 530 063.
Item No.- 723 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (March,2014)	KARNATAKA Pharm.D (PB) 50-95/2013-PCI Krupanidhi College of Pharmacy, Chikkabelandur, Carmelaram Post, Varthur Hobli, Bangalore-560035	10	Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 725 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.6th (April,2014)	TAMIL NADU Pharm.D 50-140/2014-PCI Sri Ramachandra College of Pharmacy Sri Ramachandra University No.1, Ramachandra Nagar, Porur, Chennai – 600 116.	30	From 2008-2009 to 2018-2019 (For Pharm.D.)	The Registrar Sri Ramachandra Medical College and Research (Deemed University) Institute 1, Ramachandra Nagar, Porur, Chennai – 600 116.
	Pharm.D. (PB) 50-140/2014-PCI Sri Ramachandra College of Pharmacy Sri Ramachandra University No.1, Ramachandra Nagar, Porur, Chennai – 600 116.	10	Upto 2018-2019 (For Pharm.D. (PB)	
Item No.- 728 Diploma IR No.5th (Feb.,2014)	ANDHRA PRADESH 17-581/2013-PCI Raghavedra Institute of Pharmaceutical Education & Research, Anantapur.	60	2016-2017	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.5th (Feb.,2014)	32-291/2011-PCI Raghavedra Institute of Pharmaceutical Education & Research, Anantapur.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad – 500 072.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 729 Diploma IR No.9th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 17-541/2012-PCI Nalanda College of Pharmacy (P.O) Charlapally, Hyderabad Road, Nalgonda-508001.	60	2015-2016	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad – 500 063.
Degree IR No.7th (Dec.,2013)	32-166/2009-PCI Nalanda College of Pharmacy (P.O) Charlapally, Hyderabad Road, Nalgonda-508001.	100	2015-2016	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 007.
Item No.- 730 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	HARYANA 32-436/2007-PCI R.K.S.D. College of Pharmacy, Ambala Road, Kaithal-136 027.	60	2016-2017	The Registrar Kurukshetra University Kurukshetra – 136 119
Item No.- 731 Diploma IR No.6th (Jan.,2014)	TAMIL NADU 17-563/2012-PCI Edayathangudy G.S. Pillay College of Pharmacy, Nagore Road, Nagapattiman – 611 002.	60	2016-2017	The Director Dte. of Medical Education 162, Poonamallee High Road, Kilpauk Chennai – 600 010.
Degree IR No.6th (Jan.,2014)	32-242/2010-PCI Edayathangudy G.S. Pillay College of Pharmacy, Nagore Road, Nagapattiman – 611 002.	60	2016-2017	The Registrar The TamilNadu Dr. M.G.R. Medical University , P.B. No.69 (Old No.40) Anna Salai, Guindy, P.B. No.1200 Chennai – 600 032.
Item No.- 733 Diploma IR No.3rd (March,2014)	UTTAR PRADESH 17-958/2014-PCI Shakti College of Pharmacy Village-Dulhinpur, Dist. Balrampur – 271 201.	60	2017-2018	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226 001
Degree IR No.4th (March,2014)	32-451/2014-PCI Shakti College of Pharmacy Village-Dulhinpur, Dist. Balrampur – 271 201.	60	2017-2018	The Registrar Uttar Pradesh Technical University Institute of Engg. & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 734 Diploma IR No.2nd Surprise (March,2014)	UTTAR PRADESH 17-987/2014-PCI School of Pharmaceutical Science IFTM University, Lodhipur Rajput, Delhi Road (NH-24), Moradabad.	60	From 2011-2012 to 2014-2015	The Registrar IFTM University Moradabad Lodhipur-Rajput Delhi Road (NH-24) Moradabad – 244 102.
Degree IR No.2nd Surprise (March,2014)	32-218/2012-PCI School of Pharmaceutical Science IFTM University, Lodhipur Rajput, Delhi Road (NH-24), Moradabad.	100	Already approved upto 2014-2015	The Registrar IFTM University Moradabad Lodhipur-Rajput Delhi Road (NH-24) Moradabad – 244 102.
Item No.- 735 Diploma IR No.17th (Jan.,2014)	UTTAR PRADESH 17-551/2010-PCI Govt. Girls Polytechnic Rasoolabad Crossing Teliaranj, Allahabad - 211 004.	40	2014-2015	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, 1, Bans Mandi Chauraha Lucknow - 226 001.
Item No.- 736 Degree IR No.3rd (Jan.,2014)	ANDHRA PRADESH 32-700/2013-PCI Dr.K.V. Subba Reddy Institute of Pharmacy, Opp. Dupadu Railway Station, NH-7, Laxmipuram Post, Kurnool – 518 218	60	2015-2016	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Hyderabad – 515 002.
Item No.- 737 Degree IR No.3rd (March,2014)	ANDHRA PRADESH 32-793/2013(A)-PCI Samskruti College of Pharmacy Kondapur (V), Ghatkesar (M), R.R. Distt.	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Hyderabad – 500 085.
Item No.- 738 Degree IR No.6th (Sept.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-492/2013-PCI Sri Indu Institute of Pharmacy Sheriguda Village Ibrahimpatnam Mandal Ranga Reddy	100	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 740 Degree IR No.2nd Surprise (Oct.,2012)	ANDHRA PRADESH 32-676/2012-PCI Global College of Pharmacy, Survey No.179/195, Chilkoor (V), Moinabad (M), RR Distt.	60	From 2007-2008 to 2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad – 500 085.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 741 Degree IR No.4th Surprise (March,2014)	ANDHRA PRADESH 32-493/2012-PCI Avanthi Institute of Pharmaceutical Sciences Cherukpally (V), Bhogapuram (M) Vizianagaram (DT).	100	2016-2017	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada (JNTUK) E.G. Distt. – 533 003.
Item No.- 742 Degree IR No.4th (Dec.,2013)	ANDHRA PRADESH 32-817/2013-PCI Princeton College of Pharmacy, Korremula (V), Ghatkeshar (M), R.R. Distt. – 501 301.	100	2014-2015	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad – 500 085.
Item No.- 745 Degree IR No.6th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-274/2014-PCI S.D. College of Pharmacy & Vocational Studies, Bhopa Road, Muzaffarnagar – 251 001.	60	2014-2015	The Registrar Uttar Pradesh Technical Education University I.E.T. Campus, Sitapur Road Lucknow – 226 021.
Item No.- 746 Degree IR No.7th (Feb.,2014)	UTTAR PRADESH 32-237/2014-PCI Ram-Eesh Institute of Vocational & Technical Education, Deptt. of Pharmacy Institute, 3, Knowledge Park-I, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Budh Nagar–201 306.	100	2014-2015	The Registrar Mahamaya Technical University C-22, Sector 62 Noida – 201 301.
Item No.- 748 Degree IR No.3rd (March,2014)	ANDHRA PRADESH 32-685/2013-PCI Omega College of Pharmacy Sy.No.7, Edulabad Village, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy Distt. - 501 301.	60	2014-2015	The Registrar Osmania University Hyderabad – 500 072.
Item No.- 749 Degree IR No.4th (Oct.,2013)	TAMIL NADU 32-429/2011-PCI Aadhi Bhagawan College of Pharmacy Rantham Village, Cheyyar to Arcot Road, Cheyyar Tk, Thiruvannamalai Distt. – 604 407.	60	2014-2015	The Registrar The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, (Old No.40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 751 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (May,2014)	ANDHRA PRADESH Pharm.D 50-256/2014-PCI Bharat Institute of Technology, Mangalapally (V), Ibrahimpatnam (M) R.R Dist. – 501 510. Pharm.D. (PB) 50-256/2014-PCI Bharat Institute of Technology, Mangalapally (V), Ibrahimpatnam (M) R.R Dist. – 501 510.	30 10	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.) Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University Kukatpally, Hyderabad – 500 072.
Item No.- 752 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (March,2014)	KARNATAKA Pharm.D 50-121/2014-PCI B.V.V. Sangha's Hanagal Shri Kumareshwar College of Pharmacy, Bagalkot - 587 101. Pharm.D. (PB) 50-121/2014-PCI B.V.V. Sangha's Hanagal Shri Kumareshwar College of Pharmacy, Bagalkot - 587 101.	30 10	From 2008-2009 to 2014-2015 (For Pharm.D.) Upto 2014-2015 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.
Item No.- 753 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (April- May,2014)	KARNATAKA Pharm.D 50-52/2014-PCI Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences, 22nd Main, 24th Cross, Opp. BDA Complex B.S.K. 2nd Stage, Bangalore-560070. Pharm.D. (PB) 50-52/2014-PCI Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences, 22nd Main, 24th Cross, Opp. BDA Complex B.S.K. 2nd Stage, Bangalore-560070.	30 10	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.) Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041.

Item No. Course IR No.	State/ File No. Name of institutions	For admns. Limited to	Approved Upto Academic Session	Name of the Examining Authority
Item No.- 754 Pharm.D and Pharm.D (P.B) IR No.7th (April,2014)	TAMIL NADU Pharm.D 50-89/2013-PCI Vel's Institute of Science Technology & Advanced Studies (VISTAS), Velan Nagar, P.V. Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai – 600117. Pharm.D. (PB) 50-89/2013-PCI Vel's Institute of Science Technology & Advanced Studies (VISTAS), Velan Nagar, P.V. Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai – 600117.	30 10	From 2008-2009 to 2016-2017 (For Pharm.D.) Upto 2016-2017 (For Pharm.D. (PB)	The Registrar Vel's University School of Pharm. Sciences, Velan Nagar, P.V. Vaithiyalinga Road Pallavaram Chennai – 600 117.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma, Degree, Pharm.D and Pharm.D (PB) Examination in Pharmacy held by the Examining Authorities mentioned against their name, during the session mentioned to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.”

ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in